

श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीकृत

रामायण

(तुलसीदासजीका भाषाटीकासहित, सचित्र-मुद्रका.)


वाचकद्वन्द्व! आनंदकंद श्रीरामचंद्रजीके पवित्र चरित्रोंकी चर्चाही इस अक्षर संसारमें परम सार और चारोंपक्षार्थोंके सम्पादन करनेका उत्तम द्वार है. यह विषय ऐसा रसमय है कि जिसके एकबार भली प्रकार विचार करनेसे नया-कार वृत्तिद्वारा महासाक्षात्कार होकर ब्रह्माकार अनिवेचनीय आनन्दका आदि-ष्कार होता है. अतएव यह कहना पड़ता है, कि यद्यपि भाषाके भण्डारमें अनेक-भोज्य काव्यग्रंथ अनेक हैं; तथापि श्रीरामगुणवर्णनप्रधान यह " रामायण " अपने ढंगका एक ही है। इसमें सदाचार, सद्बचनहार, सद्बिचार, सद्बर्णहार और उत्तम राजनीतिविरस्तारका ऐसा अद्भुत प्रकार दर्शाया है कि जिसके कारण बुरास आदि द्वीपान्तरनिवासीभी इसका असीम समादर करते हैं. इतनाही नहीं, बरन अंग्रेजी और जर्मनी आदि अनेक भाषाओंमें इसके अनेकानेक अनुवादभी हुए हैं. इस प्रकार सम्प्रति जो " रामायण " अन्यान्य पुस्तकोंकी अपेक्षा सर्वसाधारण-न्यसे असाधारण होरही है, उसे हमने सरल हिन्दी भाषानुवादसहित मनोंदर मुद्रकाके आकारमें सचित्र छापकर एक निरालाही ढंग निकाला है. यों तो यह पुस्तक हमारे यहां कई वर्षोंसे भिन्न २ प्रकारके आकारोंमें छपकर सहस्रोंका पाठकोंके हृदयोंपर हो चुकी है; किन्तु अबकी बार यह नयाही आविष्कार है. इसमें पाठकोंके मनोरञ्जनार्थ कई नवीन विषय ऐसे डाले गये हैं, जो बड़े सटीक रामायणमें भी नहीं हैं. और अबतक प्रिण्टेड आदि देशान्तरोंमें तथा भारतवर्षमें प्रायः जितनी पुस्तकें छपी हैं, उन सबके आधार और नवीन सुधारके स्थान २ पर प्रसंगानुकूल कैसे २ सुन्दर छरंग, और सुविचित्र चित्र चिजित किये गये हैं जिनके देखनेसे प्रस्तुत कथामसंगका ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि जिसके आगे नाटकोंका नाट्याभिनयभी फीका मतीत होता है. पुस्तककी आदिते " श्रीरामपञ्चायतन " का चित्र है, जिसमें ऐसे दर्शनीय दृशय हैं कि जिनका अवलोकन करतेही अंग २ में आनन्ददों तरंग उठने लगते हैं. बिलकुलभी ऐसे अनुभव हैं कि जो रूठेकोभी रिझाते हैं. किबहुना, पुस्तकें तो आप लोगोंसे आजतक बहुत देखी होंगी; परंतु ऐसी अपूर्व पुस्तक देखनेका यह प्रथमही अवसर है. सक्षमाकार होनेके कारण पाठकगण इस मुद्राफिरीमें भी साथ रखसकते हैं. ऐसे अलौकिक अलंकारोंसे युक्त होनेके कारण यह पुस्तक सर्वसाधारणको तो उपयुक्त है ही, परंच विमोक्षक राजा, महाराजा, अभी, उमराव, शेर, साहूकार तथा उदार मरदारोंके आभारका आभरण होनेयोग्य है. पाठकोंको इसका अनुपम लाभ पहुँचानेके लिये ऐसे बहुमूल्य पुस्तकका मूल्य केवल २।) रु० रक्खा है.

हरिप्रसाद भण्डीरथजी

कालिकादेवीरोड-समवाड़ी, -मुंबई.

अथ

भजनरत्नमालाकी अनुक्रमणिका.



संख्या	विषय.	पृष्ठ.	संख्या	विषय.	पृष्ठ.
	प्रभाती ।			अथ झांझके समयगानेकी प्रभाती।	
१	जागिये ब्रजराज कुँवर नंदके	दुलारे १	१५	प्रातसमय रघुविरजगावैकौ-	
२	जागियेर घुनाथ कुँवर पंछी-			शल्यामहतारी ७	७
	वनबोलें १	१	१६	भोरभयोपक्षविनबोलेजागी	
३	सीतापतिरामचंद्ररघुपतिरघुराई.... २	२		जनककिशोरी ८	८
४	ठुमकचलतरामचंद्रबाजतपै-		१७	प्रातसमय उक्तिजनकनंदिनी	
	जनियां २	२		त्रिभुवननाथजगावे ८	८
५	रनुकञ्जुनुकचलतिचालः		१८	भयोप्रभातकहतकौशल्याजा-	
	जनकनंदिनी ३	३		गोरामपियारे ९	९
६	जागीश्रीजनककुँवरिअ-		१९	प्रातसमयकौशल्यारानीअप-	
	योध्यापटरानी ३	३		ने पुत्र जगावै ९	९
७	जगमगायउठेग्रहलजागी		२०	लक्ष्मणरामकौशल्यासुतमाईअँ.	
	मातुजानकी ४	४		गनामैगोदखेलावै १०	१०
८	जगमगातकनकमहलमेंजा-			अथ दातून करनेकी प्रभाती ।	
	गीमाईजानकी ४	४	२१	दातुनकीजैलाडिलेरघुनाथदुलारे	१०
९	चलोसखीभोरभयोभूपतिकेद्वारे .. ५	५		सातों वारोंके बालभोग ।	
१०	भोरभयोसबहिलिमिलिनागरकौ-		२२	बालभोगकीजैरामजीलला १०	१०
	शल्यापैआई ५	५	२३	बालभोगकीजैकृष्णलला ११	११
११	आजसखीसपनेमेंदेखेरामलखन-		२४	बाललीलाखेलेरघुवीर ११	११
	सियाजनकलली ६	६	२५	बालभोगकीजैसियाररघुवीर .. १२	१२
१२	श्रीरामानुजअवतारमनो-		२६	बालभोगकीजैकौशलचंद १२	१२
	हरसुंदरसुभगशरीरं ६	६	२७	बालभोगकीजैगोकुलचंद १२	१२
१३	मोहनजागोहोबलगई ६	६	२८	बालभोगकीजैश्रीमहाराज १३	१३
१४	जागोहोतुमनन्दकुमार ७	७	२९	बालभोगकीजैबंकठभोर १३	१३

संख्या	विषय.	पृष्ठ.	संख्या	विषय.	पृष्ठ.
३०	बालभोगकीजैनंदकिशोर	१३		सोमवारकी मंगलआरती ।	
३१	करतकलेवाप्रातहीमिलिचारो भाई हां हां	१४	४२	मंगलआरतिराघोजीकीकी	२१
३२	कनककटोराप्रातहीदधिघृत मिठाई हां हां	१४	४३	मंगलआरति रामकुँवरकीजै- राजकुँवरकीसंकट०	२१
	जगन्नाथजीकी मंगलआरती ।			मंगलवारकी मंगल आरती ।	
३३	आरतीजगन्नाथस्वामीमंगला- करी	१५	४४	मंगलआरतिसजनीसाजेमंगल मोदआनंद०	२२
	सीतारामका धुन ।			बुधवारकी मंगल आरती ।	
३४	जयजयबोलो सीतारामकी जय बोलो हनुमानकी	१५	४५	मंगल आरतिनंदकुँवरकी यशु- मतिमुतराधा०	२२
	रामजन्मको छंद ।		४६	मंगल आरतिकीजैभोर	२३
३५	भयेप्रगटकूपालादीनदयालाकौ- शल्याहितकारी	१६		सातौंवारके मंगल ।	
	अथ राधेश्यामकी धुन ।			गुरुवारके मंगल ।	
३६	जयजयबोलोराधेश्यामकी जय	१७	४७	आजुअवधपुरभारीभीर	२३
	कृष्णजन्मको छंद ।		४८	आजुमहामंगलकोशलपुर	२३
३७	भयेप्रगटगोपालादीनदयालाज- सुमतिकेहित०	१७	४९	परमधामसाकेतछोड़िकैअवधपुरी- हरिआयेरी	२४
	सातौंवारकी मंगलआरती ।		५०	आजमहामंगलकोशलपुरसुनिनु- पकेसुतचा०	२४
	गुरुवारकी मंगल आरती।		५१	आजसखीसुनिअद्भुतलीलाकौ- शल्यासुत०	२५
३८	मंगलआरतिसियारघुवरकी....	१८	५२	आजअवधमहाराजसदनस० खिवाजतविविध०	२५
	शुक्रवारकी मंगल आरती ।		५३	आजसखीमहाराजराजगृहआनं- दबजतबधा०	२६
३९	मंगलआरतीश्रीवंकटकी	१९	५४	रामजन्मआनंदवधाई	२७
	शनिवारकी मंगल आरती ।		५५	आजसुदिनशुभघरीसुहाईकहा कहाँअधि०	
४०	मंगलआरती श्रीनरसिंहकी ..	२०			
	रविवारकी मंगलआरती ।				
४१	मंगलआरति रामकृष्णकी राधाबरसीताबरकी	२०			

संख्या.	विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ
५६	नौमीकेदिननौबतबाजेसुतकौ- शल्याजायोरी	२८	७० प्रातस्त्रयमधुबनकेभीतरमोहनबे- पुवजायोरी	३४
५७	अवधनगरचलोदेखोमेरीसजनी राजादशर०	२९	७१ भक्तिदानमोहिंदीजिएवं- कठमहाराजलक्ष्मण०	३५
५८	हंसवंशराजादशरथकेदेहधरीअ- विनाशीहो	२९	७२ ब्रजराजकुमारमहाराजकु० मारगोपीनाथवि०	३६
५९	अवधनगरवरनृपदशरथगृहदे- हदयानिधिधा०	३०	७३ संतसमागमदीजियेटी- कममहाराजदाऊ०	३६
६०	एनृपदशरथकेपुत्रभयोसखिसुर- पुरबजत०	३०	७४ जुरिआयेयादवसवैभूपति- केदरवार	३७
६१	सुभगसेजशोभितकौशल्यारु- चिररामशिथुगो०	३१	७५ छगनमगन श्रीबंकटजीकी यहछबिकीबलिहारी	३७
६२	सुंदररामपालनेझूलैकौशल्य गुणगायो	३१	७६ आयेरीदोउराजकुंवरवरसुंदर श्यामलगोरे	३८
६३	चारोभाईपलनाझूलैजननीहर्षि झुलावैरी	३१	शनिवारके मंगल ।	
शुक्रवारके मंगल ।			७७ अवधपुरीविहरैरघुबीर	३८
६४	रूपनिहारोआलीरूपनिहारो सियारघुबरजीको०	३२	७८ आजुमहामंगलत्रिभुवनमें खंभफोरिहरि०	३९
६५	अजुमहामंगलशेषाचलघरघर- बजतबधाईरी	३२	७९ शुक्लपक्षवैशाखमासमेंचौदसि- कोहरिजन्म०	३९
६६	आजमहामंगलशेषाचलश्रीवें- कटेशपधारेरी	३३	८० आजसखीहरिजन्मलियोहै भक्तवत्सलनर०	४०
६७	चलोसखीलक्ष्मणछविनिरखैपं- चवटीहरि०	३३	८१ आजसखीहरिप्रगटभयेहै भक्तहेतुनरसिंहसही	४०
६८	चलोसखीशेषाचलचलियेलक्ष्म- णजहांविरा०	३४	८२ आजसखीनरसिंहजन्मलियो- भक्तनकोआनंद०	४०
६९	कंकंकंकरक्रीटमुकटशिरधारि- लियोश्रीबंकटजी	३४	८३ आजसखीहरिजन्मलियोहै- भक्तनकोहितकारी	४१
			८४ श्रीनरसिंहप्रगटभयेजनहित- देवबजायोबाजाजू	४१

सख्या.	विषय.	पृष्ठ.	संख्या.	विषय.	पृष्ठ
८५	याचकजननरसिंहजन्मसुनि- याचनआयेद्वारे०	४१		सोमवारकेमंगल.	
८६	श्रीरघुनाथजन्मकीसेवावेद- विमलयशगायोरी	४२	१००	आजुजनकपुरमंगलभाई	४८
८७	गोविंदगुनागोपालगुनागा- यलेरेगोविंदगुना	४२	१०१	आजुजनकपुरमोहिनीडारी	४८
	रविवारके मंगल.		१०२	रंगमहलसियजनकदुलारी	४९
८८	अवधपुरीआनंदकोरूप	४३	१०३	दोऊराजकुमारमहाराजकुमार मुनिसंगमिथि०	४९
८९	कौशल्यारेरामकोलिये- गोदखेलावेहां	४३	१०४	सीतारामविराजहीं श्रीअवधे शकुमारमहाराजकु०	५०
९०	पलनाझुलावैश्रीरामकोकौ- शल्यामाईहां	४४	१०५	आजुमहामंगलमिथिलापुरघर घरवजतवधा	५०
९१	बानधनुहियाकितैधरीदैदेरी माईहांहां	४४	१०६	भूपकुमारनदानसखीरीतात कठिनपणठानो०	५१
९२	कनकपुरलियाकितैधरीदैदेमेरी माईहांहां	४५	१०७	रंगभीनेरघुनाथकुँवरकोइन गलियनकोइल्यावो०	५१
९३	पूरणब्रह्मसनातनकहियेसरजू- वेदबखानी	४५	१०८	रत्नजदितमंडपतरराजैरघुवर श्यामसलोनारी०	५२
९४	वेदपुराणविमलयशगावै जययमुनामहराणी	४६	१०९	चलोसखीरघुवरछविनिरखें रंगभवनहरिआ०	५२
९५	जयनारायणब्रह्मपरायणश्री- पतिकमलाकंतं	४६	११०	सुभगचालघुंदाअतिप्यारी भरतराममोहँभा०	५३
९६	गलिकानंदनश्यामसुंदरभजो पूरणब्रह्मअनंत	४६	१११	सोसुखउमाकहांलगिवरणों सीतारामजीअ०	५३
९७	अवधछोंड़िकहिअंतनजैहों रामनामगुणगैहोंजी	४७	११२	दशरथसुतअरुजनकनंदिनी चितवनमेंचितचो०	५४
९८	सीतारामअवधपुरवासी नितउठिदर्शनपैहोंजी	४७	११३	छयलछबीलेराजादशरथजी केराजकुँवरदोउ०	५४
९९	खेलतहँअँगनामेंरघुवरजननी लेतवलैयारी	४८	११४	वांकीचालश्रीराघोजीकीबांकी चितवनपरव०	५४
				मंगलवारके मंगल	
			११५	रामकृष्णकहियेउठिभोर	५५

संख्या.	विषय.	पृष्ठ.	संख्या.	विषय.	पृष्ठ.
११६	आयेहोसियारघुनंदनआये अवधपुरीसुखदेन०	५६	१३०	परमधामगोलोकछोंडिकै बृंदावनहरिआयेरी	६४
११७	अवधपुरीअभिरामराम निजधामपधारे	५६	१३१	आजसखीनंदनदणप्रगटे गोकुलबजतबधाईरी	६५
११८	आयेहोकृष्णयदुनंदनआये मथुरापुरीसुखदेन	५७	१३२	आजुमहामंगलगोकुलमेंकृष्ण- चंद्रहरिजन्मलिये	६५
११९	आयेमथुरापुरीसुखदेनकृष्ण अघमोचनआये....	५८	१३३	आजुमहामंगलगोकुलमें कृष्ण चंद्रअवतारलिये	६५
१२०	आयेश्यामसुंदररघुनाथ रामफुलवारीमेंआये	५८	१३४	आजुसखीश्रीनंदमहरवर आनंदबजतबधाईरी	६६
१२१	आयेएकसखी हर्षायकही दोउतृपसुतआये०	५९	१३५	आजुमहामंगलगोकुलमें पुत्रयशोमतिजायोहो	६६
१२२	आयेमिथिलापुरीसुखदेन रामकौशिकसंगआये	५९	१३६	आजुमहामंगलगोकुलमें ढोठायशुमतिजा०	६७
१२३	होयानचढेरघुनंदनआये हनुमतचँवरदुरायोरी.	६१	१३७	आजुकहांतेयागोकुलमेंअद्भुत वर्षाआईरी	६७
१२४	लंकाजीतिरघुनंदनआये हनुमतदासकहायोरी.	६१	१३८	मदनमोहनजीसेलगनलगीहै यातनडारूमै०	६८
१२५	देखोरीदोउदशरथनंदन नगरअयोध्याआयेरी	६२	१३९	सुंदरबदनकुँवरिकाहूकीनित दधिबेंचनआवै.	६९
१२६	जलकैसेमहंसरजूगहिरी सन्मुखराजारामजी०	६३	१४०	चलोसखीबृंदावनचलियेमोहन वेणुबजावैरी	६९
१२७	सखीरामजीअयोध्याआये आजमहामंगल०	६३	१४१	मोरमुकुटबंसीवारेनेमनमेरो हरिलीनो	६९
१२८	लंकाजीतिघरआयेरघुपति रणधीर.....	६३	१४२	गागरियाजिनफोरोलालजी मैतोहिंदेऊंगीगारी	७०
बुधवारके मंगल.			(जेवनकी गारी.)		
१२९	श्रीराधामोहनजीकोरूप निहारो.....	६४	१४३	प्यारीप्रेमलुभानीप्रियाजी परमसुखपाइयां	७०

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
१४४ चरणकमलबलिहारी रघुनाथकुँवरकी	७१	१६० अँचवनकीजैकृपानिधान (पानकीवीरी.)	७९
१४५ मिलिजेंवतजानकीरामजी सखीहरखेंनिरखें०	७२	१६१ सिंधुसुतामहारानीखवावत सिंधुसुतामहारानी	८०
१४६ भोजनसमयजानिमिथिलापति दशरथबोलि०	७२	१६२ खेलतहैंपियाप्यारीपांसा खेलतहैंपियाप्यारी	८०
१४७ जादिनरामजनकपुरआये देखनधाईसबस०	७४	१६३ खवावतकरकरवीरीपान खवावतकरकरवीरी०	८०
१४८ आरोगोरघुबीरमहाप्रभु आरोगो०	७५	१६४ बीरीलेवोमेरेकरसौरंगीलैलाल	८१
१४९ आरोगोनरसिंह महा प्रभु आरोगो०	७५	१६५ पानखवावतमोहनप्यारी जीकोपानखवावत०	८१
१५० मिलिजेंवतलाडिलिलाल दोऊपठव्यंजनचा०	७६	१६६ बीरीदेतत्रजनारीलालजीको बीरीदेतत्रजनारी	८१
१५१ मिलिजेंवतरामजनकमंदिरमें सबमिलिना०	७६	१६७ पानकीपानकीपानकीवीरी देऊंगीवनायरस	८१
१५२ बैठैलालाकुंजनमेंजोपावो श्यामाश्याम	७६	(पंगतकी धुन.)	
१५३ नंदनंदनजीकोभोगलगै....	७७	१६८ अवधसोहावन अतिमनभा- वनतलेवहेसर०	८२
१५४ भोजनकीजैसीतारामसार- ग्राहीभावग्राहीप्री०	७७	१६९ सुमिरुमनरामसच्चिदानंद	८२
१५५ रामजीप्रसादीपावोपवनसुत रामजी०	७७	१७० नगरअवधपुरकंचनराजैवि- हरतकमलाधीश	८२
(अँचवन.)		१७१ सुमिरुमनजैजैव्रजराज	८३
१५६ अँचवनकरतकिशोर किशोरी	७८	१७२ सुमिरुमनरामसच्चिदानंद	८३
१५७ अँचवनकरतसियारघुराई	७८	१७३ सुमिरुमनजयवंकटबलवीर	८४
१५८ युगलकिशोरीअँचवतयुगल किशोरी	७९	१७४ अच्छेरामजीललाकौशलया- नंदनसुरनरमुनि०....	८४
१५९ अँचवनकीजैअवधविहारी	७९	१७५ भजोहोमनसीताराममिटे- दुखद्वंदना	८४
		(सर्वतीर्थसहित चारों धामकी महाजय.)	
		१७६ जेंवतसंतहरिहरिकरैं	८५

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
सातोंवारकी गौरी.		१९४ भजुमनसरजूअवधविहारी	१०१
(गुरुवारकी गौरी)		१९५ मनरेतूसरजूतीरकरुबासा	१०२
१७७ देवातेरीभक्तिनछांडूंमुक्तिन- मागूंहरियश०	९४	१९६ कहनलगेरघुवरतोतरिबाता	१०२
१७८ अयोध्याआजसनाथ भई है	९४	१९७ बसीछबिनयननरामजी ललाकी.....	१०२
१७९ अँगनामेंखेलतचारौभाई....	९५	१९८ रुनझुनरुनझुनरामजी- ललाआवे	१०३
१८० श्रीअँगनामेंखेलतदूनौभाई	९५	१९९ श्रीआवतशारंगपानीश्री- बनहुसे	१०३
१८१ बोलनकीबलिजैहौंलालइन बोलनकी	९५	(शुक्रवारकी गौरी.)	
१८२ श्रीराघोजीकोदूधपियावत रानी	९६	२०० भजुमनरामानुजसुखदाई....	१०४
१८३ अयोध्याविमलपुरी- हमजानी	९६	२०१ भजोमनलखनचरणसुखदाई	१०४
१८४ कहनलागेरघुवरमैयामैया	९७	२०२ श्रीबालाजीकोआजुबनो रथनीको	१०५
१८६ देखोसखीराजतअवध- बिहारी	९८	२०३ श्रीबालाजीकीआजुबनी छबिभारी	१०५
१८७ बागहुतेआवतराजदुलारो	९९	२०४ श्रीलक्ष्मणसांचेदीनदयाला	१०६
१८८ श्रीवनहुसेआवतअवध बिहारी	९९	२०५ देखोमाईनवलकुंवरद- दशरथको	१०६
१८९ देखोसखीआवतरास- बिहारी	९९	२०६ देखोसखीलखनलला धनुधारी....	१०६
१९० देखोसखीकोउयकनवल- शिकारी....	१००	२०७ देखोसखीदशरथराजदुलारे	१०७
१९१ श्रीराघोजीकीआजुसजी असवारी....	१००	२०८ सुनोमनरामशरणहितकारी	१०७
१९२ भजुमनजानकीजीवनरामा	१०१	२०९ सुनोमनदीनदुसहदुखहारी	१०८
१९३ श्रीरघुनाथदयानिधिदानी	१०१	२१० सुनुमनशरणसुखदहितकारी	१०८
		२११ सुनुसिधरामबिपति अतिमोरी	१०९
		२१२ आजबनीछबिभारीश्री- बालाजीकी	१०९
		२१३ भेसेरामदीनहितकारी	११०

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
२१४ बोलतमधुरीबानीरघुवर-		(रविवारकी गौरी)	
बोलत १११		२४० श्रीराघवजीकीआजुवनी	
२१५ अवधपुरीसबभाईमनरेतू.... १११		छविभारी १२३	
२१६ जिनकेप्रियनरामवैदेही.... १११		२४१ देखोभाईरामजीललाकैसे	
२१७ भजुमनसरजूअवधविहारी ११२		आवें १२३	
(शनिवारकी गौरी.)		२४२ श्रीरघुवरवंद्युसखालैसिधारे १२३	
२१८ ऐसोसियरघुबीरभरोसो ११३		२४३ देखोभाईआवतअवधवि-	
२१९ ऐसोराधाकृष्णभरोसो ११४		हारी १२४	
२२० प्रगटे नरहरिजनमुखदायक ११५		२४४ श्रीवनहुसेआवतचारौभाई १२४	
२२१ जिनकेरामसदारखवारे ११५		२४५ श्रीरघुवरलागतहैमांहिप्यारो १२५	
२२२ श्रीराघोजीकीभक्तिसदा-		२४६ देखोभाईरघुनंदनप्रभुआवें १२६	
मुखदाई.... .. ११५		२४७ देखोभाईयदुनंदनप्रभुआवें १२६	
२२३ ऐसीभक्तिमोहिभावेऊधोजी ११५		२४८ श्रीवनहुसेआवतचारौभैया १२६	
२२४ सर्वसभगवदगीताहमारेधन ११६		२४९ अयोधपाराजतभूमिकनककी १२६	
२२५ जबतबरामनामनिस्तारो ११६		२५० आयेमेरेसीतारामउपासी १२७	
२२६ निरखतजातजटापूरथको ११६		२५१ आयेमेरेराधाकृष्णउपासी १२७	
२२७ हरिसौलागिरहोमेरेभाई.... ११७		२५२ भजोमनरामचरणसुखदाई १२८	
२२८ हरितुमवहुतअनुग्रहकीनो ११८		२५३ भजुमनकृष्णचरणसुखदाई १२८	
२२९ काहेनरसनारामहिंगावहि ११८		२५४ सांचेमनकेमीतारघुवर १२९	
२३० जानकीजीवनकीबलिजैहौं ११९		२५५ रामभजासोइजीताजगमें १३९	
२३१ केशवकहिनजायकाकहिये ११९		२५६ साधोभाईगगनघटाघहरानी १२९	
२३२ मनपछतैहो अवसरबीते ११९		२५७ बलिछलिकेकाकीन्होहरितुम १३०	
२३३ ऐसोकोउदारजगमाहीं.... १२०		२५८ रुमझुमरुमझुमराघोजीआवें १३०	
२३४ भजुमनरामचरणदिनराती १२०		२५९ रुमझुमरुमझुमगांविदआवें १३१	
२३५ कौनकुटिलखलकामीमोसम		२६० मनरेतूचित्रकूटवसभाई १३१	
कौन० १२०		२६१ संतचरणचितलाईमनरेतूसं० १३२	
२३६ मनरेतूरामचरितसुनकाना १२१		२६२ संतनकेवशभाईहरिजीसं० १३२	
२३७ जिनकीरहनिरामसेनाहीं १२१		२६३ हरिसौलगेरहोमेरेभाई०.... १३३	
२३८ रघुवरमोहिसंगकरलीजे.... १२२		२६४ अवतोरामभजनकरभाईअ० १३३	
२३९ हिलमिलिगोविंदगावेंआवो		सोमवारकी गौरी ।	
साधूहो १२२		२६५ विश्वामित्रअवधपुरआये १३४	

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
२६६ राजनरामलखनमोहिंदीजै	१३४	२८९ कुटुमतजिशरणरामकेआये	१४५
२६७ ऋषिसंगहर्षिचलेदोउभाई	१३४	२९० तैमेरोदूधलजायोपवन-	
२६८ सोहतमगदोउभाईमुनिसंग	१३५	सुततै०	१४५
२६९ येदोउदशरथकेहैवारे	१३६	२९१ अबगढ़फिरिंगईरामदोहाई	१४६
२७० जातचलेदोउभाईजनकपुर	१३७	२९२ जबकरराघवबाणधरैगे	१४६
२७१ भुजनपरआवतधनुषधरे	१३७	२९३ अबदेखोरामजीध्वजा-	
२७२ देखोसखीमुनिसंगबालक		फहरानी....	१४७
काके	१३७	२९४ जोभैंजानकीनाथकहावों	१४८
२७३ तुमऋषिसांचेकहोऋषिबोले	१३८	(बुधवारकी गौरी)	
२७४ सियाजीकेसंगचतुरसबस-		२९५ यशोदामैयादेखतकोकान्हो	
खियां	१३८	बारी	१४८
२७५ येदोउकुँवरअयोध्यावारे....	१३९	२९६ यदुवरलागतहैमोहिंप्यारो	१४९
२७६ शंभुजीकोतोच्योधनुष		२९७ ग्वालिनीक्योठाढीनंदपौरी	१४९
रघुराई	१३९	२९८ मगनभईसुनिबंसीकीटेरी	१४९
२७७ जनकपुरघरघरबजतबधाई	१४०	२९९ ग्वालिनितैमेरोगेंदचौराई	१५०
२७८ जनकजीकेअंगनाभीरभई		३०० माईमेरोरूठेबालगोविंदा	१५०
भारी	१४०	३०१ आजुमेरेकहांअटकेगिरिधारी	१५०
२७९ रामहिंनीकेनिरखिसुनयनी	१४१	३०२ नेकचलोनंदरानीउहांलगि	१५१
२८० जबदोउदशरथकुँवरबिलोकै	१४१	३०३ हरिजीसेकौनदुहावतगैया	१५१
२८१ कठिनधनुषकैसेतोच्यो	१४२	३०४ यशोदामैयाकाहेनमंगलगवै	१५१
(मंगलवारकी गौरी)		३०५ वनहुसेआवतधेनुचरावै	१५२
२८२ कौनदिशासेआयेपवनसुत	१४२	३०६ वनहुसेआवतगावतगौरी	१५२
२८३ रघुवरकबकरिहैगेफेरा	१४३	३०७ वनहुसेआवतधेनुचरानी	१५३
२८४ एकदिनरामआज्ञाजोपावों	१४३	३०८ हैहैकरतमुरारीगौवनसंग	१५३
२८५ जोमैरामरजायसुपावों	१४३	३०९ स्वरिकबिचक्योठाढीराधा-	
२८६ हरकोदंडकठिनजिनतौरा	१४४	प्यारी	१५३
२८७ देखोपियाजनकसुतापति		३१० सुनुसखीमोहनवेणुबजावै	१५४
आये	१४४	३११ ब्रजललनादुखमोचनआवै	१५४
२८८ सबतजिमैरघुपतिपहँजैहों	१४५	३१२ आवैमाईहलधरगिरि-	
		धरजोरी....	१५५

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
३१३ राजाएकमानोवचनहमारो	१५५	३२८ रामललाकेशिरटोपीदेखो	
३१४ आजुमैहरिजीकोबह्व-		सखि	१६८
गहावों	१५५	३२९ अच्छेरामजीललातुम्हारे	
(सांझसमयमंमलगानेके.)		वदनअनंतकला	१६८
(दोहा)		३३० अखियांमैलागिरहेरघुवीर	१६९
३१५ श्रीगुरुमूरतिचंद्रमा, सेवक-		२३१ हँसिहँसिमनमोंहैरघुवीर	१६९
नयनचकोर	१५६	३३२ मोंहभावैहोश्रीरामजीलला	१६९
सातो वारोंकी धुन		३३३ भरतराममोहिंभावैहो, सुभ-	
गुरुवारकी आरती.		गचालसुंदरअति०	१७०
३१६ जयजयआरतिरामजीतु०	१६१	३३४ रामजन्मसुनिअपनेपतिसों	
गुरुवारकी धुन.		हँसिहादिनियों०	१७०
३१७ निरखतरूपसियारघुवरको-		(थुक्रवारकी आरती)	
छविनहिंजातब०	१६२	३३५ आरतिलक्ष्मणवालाजीकी	१७१
३१८ भजोअवधपुरसियारघुवीर	१६२	(शुक्रवारकी धुन)	
३१९ जयजयरघुवरस्वामीहरि-		३३६ आरतिकीजैराजारामचंद्र	
अंतर्थापीआरतिउ०	१६३	जीकीहरिहरिभ०	१७१
३२० जययदुवरस्वामीहरिअंत-		३३७ मेरेमनवसिगयेसीताराम०	१७२
र्यापीआरति०	१६३	३३८ आवनकीमनभावनकी०	२७२
३२१ जयश्रीरघुनाथाजयजान-		३३९ जयवंकटरवनाहरेवंकट	
किनाथादोउकरजो०	१६४	रवना०	१७२
३२२ जयश्रीयदुनाथाजयला-		३४० रघुवरमहाराजा	१७३
डिलिनाथाश्यामसुं०	१६४	३४१ टीकममहाराजा	१७३
३२३ जयश्रीरघुनंदाजयजानकी-		३४२ तेरेवाजेअनहदवाजालक्ष्म-	
कंदा	१६५	णमहाराजाम०	१७४
३२४ जयनटवरवेषाहरिनटवरवेषा-		३४३ दाऊमहाराजा	१७४
आरतिउतारो०	१६६	३४४ दर्शनदेवंकटैरैया	१७५
३२५ जयसियमहारानीजयजान-		३४५ सूर्यवंशउजागरनागरजय-	
किरानी	१६६	जयलक्ष्मणबाल	१७५
३२६ जयराधेरमनीहरिराधेरमनी	१६७	३४६ जयवंकटसंकटहरनाचरण-	
३२७ प्रगटेसीतारामजीअवधपुरमें	१६७	कमलकोदर्श०	१७६

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ
३४७ जयजयबोलोसाधुलक्ष्मण- बालाकी	१७६	३६५ नमोनमोतुलसीकरजोरी	१८४
३४८ गारियांमत्तदेउतिलंगारंगा (शनिवारकी आरती.)	१७७	३६६ बसबोश्रीअवधपुरीको नीको०	१८४
३४९ आरतिकीजैनरसिंहकुँवर- कीवेदविमल	१७७	३६७ बसबोश्रीवृंदावंनकोनीको	१८५
(शनिवारकी धुन.)		३६८ भजुरघुवरश्यामयुगलचरना	१८६
३५० नाचौंगीरंगराचौंगीरघुनंदन आगेमें	१७८	३६९ रघुवंसीहोराममेरेमें बसो	१८७
३५१ श्रीमन्नारायणनारायण, सुमिरसुमिरभये०	१७८	३७० भजुदशरथपुत्रधनुषधरना	१८७
३५२ हमचाकररघुनाथकुँवरके	१७९	३७१ भजुरेमनरामसियाचरना	१८७
३५३ कबमिलिहैरघुनाथहमारे	१७९	३७२ मिलिखेलतआवतरामजी	१८७
३५४ अपनोजनप्रल्हादउबारो	१७९	३७३ जयजयजयघुनाथहरे....	१८८
३५५ धायगोविंदगजेंद्रउबारो	१८०	३७४ जयजयजयजगदीशहरे	१८८
३५६ जपुजैजैजैनरसिंहसहीमहा	१८०	३७५ श्रीगाइयेमहासुखपाइये (सोमवारकी आरती.)	१८८
३५७ नरहरियाप्रभुगिरिधरिया	१८०	३७६ आरतिकरतजनककरजो रेबडेभाग्यरामजी०	१८९
३५८ श्रीरामजानेगुदरियागलतान	१८१	(सोमवारकी धुन.)	
३५९ मुझेनदिलसेभूलेंप्यारेराम	१८१	३७७ आजुराजद्वारेबधैयाबाजे	१८९
३६० रामजीरतनधनपायामाया	१८१	३७८ राजतरामश्रीजनककिशोरी	१९०
३६१ बाबाझूठीमायादुर्मति- मैदिनखोया	१८२	३७९ जयजयजयनृपजनक- किशोरी	१९०
(रविवारकी आरती)		३८० राजतरामजानकीजोरी	१९१
३६२ कहांलंगिआरतिदासकरेंगे सकलभुवनजा०	१८२	३८१ दुल्लहरामसियादुलहीरी	१९१
(रविवारकीधुनि.)		३८२ लैलोरीभरिलोचनलाहु	१९१
३६३ टेरतहैरघुवराजीकीमैयारघुवर- जीकीमैयाल०	१८३	३८३ जनकललीमधुरेसुरगावै	१९२
३६४ नमोनमोतुलसीमहारानी नमो०	१८३	३८४ पियाघनश्यामसियातनुगोरी	१९२
		३८५ राजारामजानकीरानी....	१९३
		३८६ येदोउचंद्रबसोउरमेरे	१९३
		३८७ भजुदशरथनंदनजनकलली (मंगलवारकी आरती.)	१९३
		३८८ आरतिकीजैहनुमानजी ललाकी	१९४

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
(मंगसवारकी धुन.)		४१० तेरेवाकिमुकुटकीछविन्यारी	२०५
३८९ कहुकपिकुशललपनरघुवरकी	१९५	४११ वृषभानुकीललीसांवलिया-	
३९० सवदेवनकेराजाहनुमत-		सेनेहलगायकेचली	२०५
महाराजा	१९५	४१२ मेरेअंगनामेंमुरलीवजाय	
३९१ जयश्रीहनुमंताजयश्रीबलबं-		गयोरे....	२०५
तातुमकोसु०	१९५	४१३ गिरिनपैरगोपालगिरिवर	२०६
३९२ कृपाकरोहनुमानजनपर	१९६	४१४ अखियामेंलागिरहेगोपाल	३०६
३९३ हमपरकृपाकरोमहावीर	१९७	४१५ भजोसुंदरश्याममुकुटधारी	२०७
३९४ अंजनीकुंमारपवनसुतमेरी		४१६ मनअटकीमेरोदिलअटकी	२०७
अरजरामजीसां०	१९७	४१७ कैसेआवैहोलालतेरीत्रज	
३९५ जैजैहनुमानवीरबंका	१९७	नगरीगोकुलनगरी	२०७
३९६ रघुनाथतुम्हारेचरितमनो-		४१८ मोकोचाकरराखोजीसांव-	
हरललितमनोहर०	१९८	लियागिरिधारीलाल	२०८
३९७ भजरेमनसियारघुनंदनको		४१९ जैजैयशोदानंदनकीजगवं-	
जगवंदनको	१९९	दनकी....	२०९
३९८ पवनतनयसंतनहितकारी	१९९	४२० घरआवोगेपनघटपरमुरली	
३९९ गाइयेगणपतिजगवंदन	२००	वजावोगे	२०९
(बुधवारकी आरती.)		४२१ बलिहारीलालतेतेरेआ-	
४०० आरतियुगलकिशोरकीकीजै	२००	वनकी०	२१०
(बुधवारकी धुन.)		(शयनसमयकी व्याह)	
४०१ भजोवृंदावनजयजमुनाजय-		४२२ आनिकरोकहुव्यारीरामजी-	
वंसीबटजयफु०	२०१	कोटेरतहैमहतारी	२१०
४०२ नाचैनंदलालनचावैहरिमैया	२०१	४२३ करतवियारूमोहनहंसिंह-	
४०३ नंदभवनकोभूषणमाई	२०२	सिकरतवियारु०	२११
४०४ मथुरामेंहोयरहीसर्वमयी	२०२	४२४ भलियभांतिसोंकीन्होभो-	
४०५ कुंवरिछबीलीश्रीराधेप्यारी	२०२	जनभलियेभांतिसों०	२११
४०६ बाजेबाजेलालतेरीपैजनियां	२०३	४२५ मोहनलालवियाहकीजै	२११
४०७ बाजैबाजैरामजीकीपैज-		४२६ सुखनिधिरघुवरकरतवियारी	२१२
नियां	२०३	४२७ रामजिउनारचलेहोउनीदे	
४०८ भजुगोविंदगोविंदगोपाला	२०३	नयनरतनारेरा०	२१२
४०९ भजुराधावरसुंदरगिरिधारी	२०४		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
४२८ करतभावनीजोरीब्यारी....	२१३	४४७ नयननअरुणताछाईलाल-	
४२९ दाखदारुदेदानदूधमिठाई		जीके २१८	२१८
बदाम २१३	२१३	४४८ सेजसुंदरिबनीहरिकीसे-	
४३० पियोपयलडकेरघुराई	२१३	जसुंदरि २१८	२१८
४३१ अजीब्यारूकरनहेतसोंमैया		४४९ सखिरीतूपुष्पसेजबनाय	२१९
रघुवरवोलिप० २१३	२१३	४५० अबप्रभुकीजियेउठिशैन....	२१९
४३२ कौशल्याकुँवरबियारूकी-		४५१ पौढेसुखसेजसीताराम	२१९
जैप्रेमसहितबोले० २१४	२१४	४५२ हनुमानजीकीचौकीआई....	२२०
(दूधपिवन)		४५३ सोयेअवधकिशोरचलोसखी	२२०
४३३ हँसिहँसिदूधपिवैगोपीनाथ	२१४	४५४ शैनकरोनारायणदेवा	२२०
४३४ एरीदूधलाईयशुमतिमैया	२१५	४५५ पौढोपौढोसारंगपानी	२२०
४३५ दूधपियोमनमोहनप्यारे	२१५	४५६ मंदिरमाहिदोजमिलिपौढे	२२१
(शयनकी आरती.)		४५७ बतियांकरतलागगयेनैन	२२१
४३६ शीतलकरतआरतीमैया....	२१५	४५८ मंदिरपौढियेरघुराई	२२१
(शयन)		४५९ पौढेस्वामीद्वारकारणछोड	२२१
४३७ जगन्नाथदयालुपौढेश्रीजग-		(हरिनारायण.)	
न्नाथदयालु २१५	२१५	४६० रामकृष्णअवतारमनोहर-	
४३८ बलभद्रदेवअनंतपौढेबलभद्र		हरिमाधव मधुसूदन २२२	२२२
देवअनंत २१६	२१६	(स्तुति.)	
४३९ बैठेसुखपाललालआवत		४६१ श्रीरामचंद्रकृपालुभजुमनह-	
महलमें २१६	२१६	रणभवभयदारुणम् २२४	२२४
४४० भवनगवनप्रभुकीजैसेजबिछी		४६२ मनजाहिराचोमिलिहिसोवर	२२४
भवनगवन० २१६	२१६	४६३ जानिगौरिअनुकूल २२४	२२४
४४१ मुजरोमानियेमहाराज	२१७	४६४ हेरामापुरुषोत्तमानरहरेना-	
४४२ रंगमहलगोविंदपौढेमाईरंग-		रायणाकेशवा २२४	२२४
महलगोविंद २१७	२१७	४६५ आदौरामतपावेनादिगमनं	२२४
४४३ सुखपौढेहरिकुँवरकन्हाई....	२१७	४६६ आदौदेवकिदेवगर्भजननं	२२५
४४४ तुमपौढोमैचँवरढोरावों	२१७	४६७ हेरामानुजहेजगत्रयगुरो	२२५
४४५ जगन्नाथअलसानेसलोने.	२१८	४६८ हेगोपालकहेकृपाजलनिधे	२२५
४४६ पौढेश्रीरघुवरप्राणअधाराजू	२१८	४६९ कस्तूरीतिलकंललापटले	२२५

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
४७० श्रीरंगंकरशैलमज्जनगिरौ	२२५	४८७ रघुवरखेलतहोरी २३३
४७१ ॐपार्थायप्रतिबोधितांभगव-		४८८ खेलतरामअवधपुरहोरी २३५
तानारायणेनस्वयम् २२५	४८९ खेलतरामरघुपुरीरुचिसोंबहु-	
४७२ हेराधेवृषभानुभूपतनये २२५	भांतिनसुखदाईहो २३६
४७३ विष्णोःपादअवंतिका-		४९० खेलतरघुवररंगभरेहोहोमेरे	
गुणवती २२६	प्यारेअवध० २३७
(रामचन्द्रके वसन्त)		४९१ रघुवंशीसुंदरअतिवनेहो २३९
४७४ वसंतबधावाचलोअवधधाम	२२६	४९२ अविनाशीदूलहकवमिलिहें	२४०
४७५ वसंतबधावाचलोअवधधाम		(कृष्णचंद्रकी होरी.)	
जहां रत्नसिंहा० २२६	४९३ श्रीराधेनवलकिशोरडोलै-	
४७६ खेलतवसंतकोसलकुमार २२७	गूजरी २४०
४७७ खेलतवसंतराजाधिराज २२७	४९४ बायंबरओढेसांवरोहोहोमेरी	२४१
४७८ रसहोरीखेलेंश्रीजानराय	२२८	४९५ मोहनखेलतहोरी २४१
४७९ वंदौरघुपतिकरुणानिधान	२२९	४९६ मेरेनयनिमेंजिनडारोपिया	
४८० जानकीहोरीखेलनआई २२९	पिचकारी २४४
४८१ अवधपुरीकीनारिसवैमलि		४९७ रसहोरीखेलेंसांवरोहो २४४
खेलतआईहो० २३०	(शेपाचलहोरी.)	
(कृष्णचंद्रके वसन्त.)		४९८ शेपाचलधामुहीवनोहो	२४५
४८२ प्रथमसमाजआजवृंदावन		(गिरिहोरी.)	
बिहरतलालबिहारी. २३१	४९९ नवरंगीकेशरहमवोइहें २४६
४८३ वसंतबधावाचलोब्रजकीना-		५०० गिरिलालबिहारीहोरी	
रिसखीनंदपौरिठा० २३१	खेलेंहो २४६
४८४ सांवरेरंगडारीहोडारी २३२	(रामडोल.)	
४८५ सांवरेसेकहियोमारी २३२	५०१ बैठेडोलबिराजैआजुश्री	
(रामचंद्रकी होरी.)		रघुवरजानकी २४७
४८६ खेलेंनगरअयोध्याफागरघु-		५०२ खेलेंअरसपरसमिलिफागु	
वरजानकी २३३	नागरनागरी २४७
		५०३ झूलतडोलतअवधबिहारी	२४८

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
(कृष्णडोल)		(प्रल्हादको बसंत)	
५०४ चलोसखीदेखनजइयेडोल सोहावनो २४९	२४९	५२८ नहिछांडूबाबारामनाम २५८ (अन्य विशेष होरी)	२५८
(अन्य विशेष होरी)		५२९ प्रमुखेलतफागमचीहोरी २५८	२५८
५०५ दशरथकेद्वारमचीहोरी २५०	२५०	५३० बेदरदीबांसुरीबाजी २५९	२५९
५०६ होरीखेलतरामअवधवासी २५०	२५०	५३१ मेरेआयोरेश्यामनटवरब- निकै २५९	२५९
५०७ होरीखेलतरामअवधखोरी २५१	२५१	५३२ रसियाबनोमदनमोहनप्यारो २५९	२५९
२०८ होरीखेलतरामअवधपुरमें २५१	२५१	५३३ उडिजारेभवरतोहिंमारोंगी २५९	२५९
५०९ सरजूतटआजुमचीहोरी २५१	२५१	५३४ नेकठाढेरहोरसियारंगडारों २६०	२६०
५१० होरीरचिरहीछैलछबीलेकी २५२	२५२	५३५ ब्रजमेंहरिहोरीमचाई २६०	२६०
५११ दशरथकेलालखेलैहोरी २५२	२५२	५३६ सांवरोकहांहोरीमचाई २६०	२६०
५१२ होरीखेलतफिरतअवधवासी २५३	२५३	५३७ वृंदावनश्यामरचीहोरी २६१	२६१
५१३ तुमकोहरिहोरीखेलावों २५३	२५३	५३८ डफबाजोछैलमतवारेको.... २६१	२६१
५१४ दशरथसुतचारोंखेलैहोरी २५४	२५४	५३९ कान्हाधरेमुकुटखेलैहोरी.... २६१	२६१
५१५ खेलतरामसियासंगहोरी.... २५४	२५४	५४० मृगनयनीनारिनवलरसिया २६१	२६१
५१६ होरीखेलतरामलखनप्यारे २५४	२५४	५४१ ब्रजमेंसखिरंगमचोरी २६२	२६२
५१७ होरीखेलतअवधनगरमें २५४	२५४	५४२ यमुनातटआजुमचीहोरी २६३	२६३
५१८ होरीखेलुंगीदशरथलालसे २५५	२५५	५४३ राधेफूलनमथुराछाई २६३	२६३
५१९ रामखेलतअनोखीहोरी २५५	२५५	५४४ बरसानेमेंमहललाडिलीके २६३	२६३
५२० होरीखेलतरामलखनआये २५५	२५५	५४५ दधिपीलेश्यामसलोना २६४	२६४
५२१ मिथिलापुरआजुमचीहोरी २५५	२५५	५४६ वृंदावनमोहनदधिलूटी २६४	२६४
५२२ अंजनिमुतहरिकेमनभाये २५६	२५६	५४७ मथुराजनिजाहुकान्हप्यारे २६४	२६४
५२३ श्रीठाकुरकलंगीआपुधरे २५६	२५६	(हिंडोराझून)	
५२४ गतिहोइगीरामगुणगायेसे २५६	२५६	५४८ युगलवरझूलतफूलाहिंडोरे २६४	२६४
५२५ उठिमिलिलेभरतरामआये २५७	२५७	५४९ हिंडोरेमाईझूलतराधा- गोपाल २६५	२६५
५२६ शिवमठपरसोहैलालध्वजा २५७	२५७		
५२७ शिवकेमनमाहिंबसीकाशी २५७	२५७		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
५५० सरसहिंडोरनावृषभानुज्ज- केद्वारे २६५	२६५	५६९ प्यारीप्रीतमकेसंगझूलेंरंग- हिंडोरना २७२	२७२
५५१ सुरंगहिंडोरनाआलीझूलत नंदकुमार २६६	२६६	५७० श्यामाजीझूलेंपीरीपोखर- पार २७२	२७२
५५२ आयोहैमाससावनइकमान कह्योप्यारी २६७	२६७	५७१ बांकीछविसोंझूलतप्यारी	२७३
५५३ आजुकछुकुंजनमेंबरषासा	२६८	५७२ झूलतकोश्यामाजीकेसंगसखी- सांवरी० २७३	२७३
५५४ वजपरनीकीआजघटा २६८	२६८	५७३ झोकादीजोसम्हारमेरीसारी नलटके २७३	२७३
५५५ तेरीझमकझूलनकटिलचक- जात. २६८	२६८	५७४ सोतूराखलेरीझोकातरभए	२७३
५५६ आईबदरियाबरसनहारी	२६८	५७५ मेरोछांडदेअँचरवामैतोन्प्यारी झूलोंगी २७४	२७४
५५७ हर्षझुलाइपेमनभावन २६९	२६९	५७६ कौनचढेपहलेसुरंगहिंडोरे	२७४
५५८ देखयुगलछविसावनलाजै	२६९	५७७ चलोपियावाहीकदमतरेझूलें	२७४
५५९ श्यामसुननियरेहीआयोमेह	२६९	५७८ चलझूलियोहिंडोरेवृषभा- नुकिलली २७४	२७४
५६० सावनगरजैधूमधूम २७०	२७०	५७९ आजबन्प्योरसरंगहिंडोरो कदमतरे २७४	२७४
५६१ कौनसमयरूठतकोप्यारी	२७०	५८० झूलोप्यारीआज निकुंजहिं डोरना २७५	२७५
५६२ झूलोमेरीराधाप्यारीरँगिलो हिंडोरना २७०	२७०	५८१ चलोइकेलेझूलेंवनमेंप्यारी मेरेपान २७५	२७५
५६३ धवलमहलचढरत्नबंगलाझू- लोसुरंग० २७०	२७०	५८२ झूलतश्यामश्यामासंग २७५	२७५
५६४ युगलवरझूलतडारगरवाहीं	२७१	५८३ आजदोउझूलतरंगभरे २७५	२७५
५६५ झूलनचलोहिंडोरेनेवृषभा- नुनंदनी २७१	२७१	५८४ सुनसखीआजझूलननहिं जैहों २७६	२७६
५६६ हिंडोरेआजझूलतरंगरह्यो	२७१	५८५ बलिवलिजांदिप्यांझूलनपर	२७६
५६७ युगलवरझूलतदेगरवाहीं	२७१	५८६ फूलनकीचंद्रकलाशिशफूल फूलनको २७६	२७६
५६८ झूलनयुगलकिशोरकीदिलमें मेरेबसी २७१	२७१		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
५८७ फूलनकेबंगलेमेंराजैपिया प्यारीहो २७६	२७६	६०४ मनसोहिंसुझतनाहिअगारी	२८५
५८८ गायचरायकैगिरिधन्वोतु म्हेझूलन० २७७	२७७	६०५ सबतजियुगलनामचित्तधारो	२८५
५८९ हिंडोलनामैकाईछैझूलोराज	२७७	६०६ जोकछुरहीसोताहिसँभारो	२८५
५९० झूलनहारनईकौनहै २७७	२७७	६०७ भातसमयउठि० २८६	२८६
५९१ तेरीझूलनअतिरससानी	२७७	६०८ मनतुममेंसबभरीखोटाई	२८६
५९२ फूलनचंदोआतनेफूलनफर- शबिछी २७८	२७८	६०९ छोंदिसबभ्रमजालको	२८६
५९३ फूलनकेखंभापाटपटरीसुफू- लनकी २७८	२७८	६१० श्यामाश्यामसहायलखौ	२८७
(गुरुमहिमाके दोहा.)		६११ यहधनमतिमोहिँ देव०	२८७
५९४ सदगुरुचरणहिंसे० २७८	२७८	६१२ मनसुनकृष्णनामधनभारी.	२८७
५९५ जिनप्रेमरसचाख्यानहींअमृ- तपिया० २७९	२७९	६१३ श्यामाश्यामसोनेह० २८८	२८८
५९६ नजानूं मेरा राम कैसाहै	२८०	(उपदेश.)	
(जगन्नाथजीके भजन.)		६१४ जोकोउराधानामको २८८	२८८
५९७ भलेबिराजोजी २८०	२८०	६१५ लादिलीपरमकृपाकी २८८	२८८
(अथ होलीरंचक.)		६१६ प्रेमपायफिरिगृहतजि०	२८९
५९८ होरीखेलतसंतसुजान २८१	२८१	६१७ बिनव्रजवासदुःख २८९	२८९
५९९ ऐसीसंतोंनेधूमम० २८२	२८२	६१८ संगतिरसिकनकी २८९	२८९
(अथ भजनविलास.)		६१९ कीजैरसिकनको २८९	२८९
६०० शंकरध्यानधराजबमनसे	२८३	६२० प्रियाप्रीतमको डूरि २९०	२९०
(चेतावनी.)		६२१ हमेइनबातनसों २९०	२९०
६०१ छोंदिसबैभ्रमजाल २८४	२८४	६२२ एतेगुणजामेंसोई २९०	२९०
६०२ सबतजिभजोकृष्ण० २८४	२८४	६२३ होतप्रभातते २९०	२९०
६०३ अबमनकाहेफिरउमूलाना	२८४	६२४ करिनिश्चयकोअनन्य	२९१
		६२५ अबहूंकरुकछु २९१	२९१
		६२६ सोइअनन्यजेहिअ० २९१	२९१
		६२७ रसिकअनन्यनकी २९१	२९१
		६२८ वाछबिकबमम २९१	२९१
		६२९ करोकृपावृषभानु २९२	२९२

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
६३० कुँवरिकछुमुनिये	२९२	६४१ फिदांहमउस्पै हें	२९५
६३१ व्रतअनन्यसवते	२९२	६४२ युगुलदरवारमें	२९५
६३२ मनकीपीरमनहिंपहिचानै.	२९२	६४३ जागीहैकिस्पतमेरी	२९६
६३३ यातेमोहिंराधाकोनाम.	२९३	६४४ ध्यानमेंमेरेश्रीराधिकानाम (सुंदरदासकृत सवेया.)	२९६
६३४ रसिकोंकीसोहबतके.	२९३	६४५ भेतभयोकिपिशाचं०	२९७
६३५ अबडरनहिंनिर्भयहम	२९३	६४६ पेटतेवाहेर	२९७
६३६ एकनहींमानैगी.	२९४	६४७ देहसनेहन	२९७
६३७ भैयाभैतोवर्षानेको	२९४	६४८ तूकछु	२९७
६३८ हमतेनाहकनेह	२९४	६४९ वैश्रवनारसना	२९८
६३९ देहसंबंधिनते	२९४	६५० मातपिता	२९८
६४० रोजढिगेमति	२९५	६५१ पांवदियेचलने	२९८
		६५२ होयनिचित	२९८

इत्यनुक्रमणिका समाप्ता ।

हरिप्रसाद भगीरथजी.

ठि० कालवादेवीरोड रामवाड़ी मुंबई.

श्री

बृहद्भजनरत्नमालाप्रारंभः ॥



॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥



अथ प्रभाती ॥ राग भैरवी ॥

जागियेव्रजराजकुंवर, नंदकेदुलारे ॥ मथुरामेंजन्मालि
यो, गोकुलासिधारे ॥ जोइजोइहमपतितसुने, सोइ
सोइतुमतारे ॥ १ ॥ यमुनामेंगेंदपरो, ग्वालवालहारे ॥
कालिनागनाथलाये, कृष्णभयेकारे ॥ २ ॥ ग्राहतेगज
राखिलियो, देवताउबारे ॥ धनिधनितुलसीकेस्वामि,
ध्रुवप्रल्हादतारे ॥ ३ ॥ १ ॥

जागियेरधुनाथकुंवर, पंछीवनबोलैं ॥ टेक ॥ शशिकि
रनशीतलभई, चकईपियामिलनगई ॥ त्रिबिधमंदचल
तपवन, पल्लव द्रुमडोलैं ॥ १ ॥ प्रातभानुप्रगटभयो, रजनी

कोतिमिरगयो । भृंगकरतगुंजगान, कमलनदलखोलैं
 ॥ २ ॥ दूरिकरिकैअंचलमुखसे, नयनपलकखोलैं ॥ छग
 नमगनप्योरराम, आंगनमेंडोलैं ॥ ३ ॥ ब्रह्मादिककरत
 गान, सुरनरमुनिधरतध्यान ॥ जागनकीवेरभई, नयन
 पलकखोलैं ॥ ४ ॥ तुलसिदासअतिअनंद, निरखिकैमु
 खारबिंद ॥ दीननकोदेतदान, भूषणअनमोलैं ॥ ५ ॥ २ ॥
 सीतापतिरामचंद्र, रघुपतिरघुराई ॥ टेक ॥ रस
 नारसनामलेत, संतनकोदर्शदेत ॥ विहसतमुखमंदम
 द, सुंदरमुखदाई ॥ १ ॥ ऐनबैनदृगविशाल, दशनबीच
 चमत्कार ॥ भृकुटीबिचअनलपक्ष, नासिकासोहाई
 ॥ २ ॥ केसरकोतिलकभाल, मानोरविप्रातकाल ॥ श्रव
 णकुंडलझलमलात, रतिपातिछविछाई ॥ ३ ॥ मोतिनकी
 कंठमाल, तारागणउरविशाल ॥ मानौगिरिशिखरफो
 रिसुरसरिचलिआई ॥ ४ ॥ सुरनरमुनिसकलदेव, शिव
 विरिंचिकरतसेव ॥ कीरतिब्रह्मांडखंड, तीनलोकछा
 ई ॥ ५ ॥ संगसखासरजुतीर, बिहरतरघुवंशवीर ॥ हर
 खिनिरखितुलसिदास, चरणनरजपाई ॥ ६ ॥ ३ ॥
 ठुमकचलतरामचंद्र, बाजतपैजनिया ॥ टेक ॥ किलक
 तउठिचलतथाय, परतभूमिलटपटाय, धायमातगोद
 लेत दशरथकीरनिया ॥ १ ॥ अंचलरजअंगझार, वि
 विधभांतिकरिदुलार ॥ तनमनधनवारिडारि, कहतमृ
 दुबचिनिया ॥ २ ॥ मोदकमेवारसाल, भावेसोलेहु

लाल ॥ औरलेहुरुचिरपान, कंचनरुनझुनिया ॥ ३ ॥
 विद्रुमसेललितअधर, बोलतमुखबचनमधुर ॥ नासा
 धरुअधरबीच, लटकतलटकनिया ॥ ४ ॥ सुषमाशशि
 कंबुकंठ, ग्रीवरेखरुचिरचिबुक ॥ कमलबदनबोलैम
 धुर, मंदसीहसनिया ॥ ५ ॥ भृकुटीत्रिभंगअंग, कछनी
 कछेकटिनिषंग ॥ रेखात्रयउदरबीच, सिंहसीठवनिया
 ॥ ६ ॥ अद्भुतछविअतिअपार, कोकविजोबर्णैपार ॥ क
 हिनसकतशेषजाके, सहसहैरसनिया ॥ ७ ॥ तुलसिदास
 अतिअनंद, निरखिकैमुखारविंद ॥ रघुवरकीछविस
 मान, रघुवरछविवनिया ॥ ८ ॥ ४ ॥

रुनुकझुनुकचलतिचाल, जनकनंदिनी ॥ टेक ॥ दामि
 निद्युतिचपलगात, चरणधरतडगमगात ॥ मधुरबचन
 तोतरी, त्रितापदुःखमंजनी ॥ १ ॥ शोभतशुभनीलबस
 न, मंदहासरुचिरदशन ॥ झलकतउरमालजाल, जगत
 देवबंदिनी ॥ २ ॥ नूपुरपगबजतगातमानो, सामवेदकर
 तगान ॥ क्षुद्रघंटिरुचिरनाद, उरअनंदिनी ॥ ३ ॥ मंगल
 सबकरतगान, शारदशिवसंगफिरत ॥ देखोअतिराज
 ति, मिथिलेशनंदिनी ॥ ३ ॥ जगतमातुसखिनसंग, विह
 रतिबहुकरतिरंग ॥ बालानंदछविनिरखिनिरखि, भव
 निकंदिनी ॥ ४ ॥ ५ ॥

जागीश्रीजनककुँवरि, अयोध्यापटरानी ॥ टेक ॥ र
 न्मजन्मरमारूप, अगमनिगमजानी ॥ सनकादिकध

तध्यान, परमहंसदानी ॥ १ ॥ कोटिसखीचँवरदुरै,
 प्रेमरससानी ॥ निकटसरजूगंगबहै, मुक्तिभरैपानी ॥
 ॥ २ ॥ तीनलोकप्रतिपालक, शरणहेतुम्हारी ॥ संतन
 कोदर्शदेत, असुरनभयज्ञानी ॥ ३ ॥ सुरनरमुनिधरत
 ध्यान, योगीश्वरज्ञानी ॥ दासतुलसिशरणआयो, भाव
 प्रीतिजानी ॥ ४ ॥ ६ ॥

जगमगायउठैमहल, जागीसातुजानकी ॥ टेक ॥ जा
 नकीकेमहलउपर, किरनउगेभानुकी ॥ १ ॥ सर्वदेवक
 रतसेव, चौकीहनुमानकी ॥ कोटिसखीचँवरदुरै, सेज
 सीतारामकी ॥ २ ॥ आसपासचंचरीक, लियेपीकदा
 नकी ॥ मानोचमेलीफूलिरही, सुनौरसभानुकी ॥ ३ ॥
 अवधपुरीकीसरसनारी, अपनेअपनेभानकी ॥ सि
 याजीकोरूपनिहारै, कोटिशोभाभानुकी ॥ ४ ॥ चित्र
 कलमुखविलास, शोभावनीरामकी ॥ प्रातकालकीवि
 नती, तुलसीदासगुलामकी ॥ ३ ॥ ७ ॥

जगमगातकनकमहलमें, जागीसाईजानकी ॥ कौश
 ल्याकेपांयलागु, जीवोजनकरायकी ॥ टेक ॥ आस
 पाससखीखड़ी, धुनिनूपुरकी ॥ चंपैकीकलीमानो,
 फूलीआसमानकी ॥ १ ॥ सकलदेवकरतसेव, चौकी
 हनुमानकी ॥ लक्ष्मणकुँवरचँवरदौरै, सेजसीतारामकी
 ॥ २ ॥ प्रातप्रीतमअपनेमहल, रामणक्षमणजानकी ॥
 साधुसंतकरतसेव, औरबातज्ञानकी ॥ ३ ॥ अयोध्या

कीसरसनारी, अपनेअपनेधामकी ॥ सियाजीकोरूप
मानो, उगीकिरणभानुकी ॥ ४ ॥ चित्रकूटअतिविला
स, अधिकमहिमारामकी ॥ उठतप्रातबिनतीकरत
तुलसिदाससियारामकी ॥ ५ ॥ ८ ॥

चलोसखीभोरभयोभूपतिकेद्वारे, नौबतबाजनलागी ॥
॥टेका॥ करतकुलाहलकनकभवनमें, जनकनंदिनीजा
गी ॥ १ ॥ मधुरमधुरपंछीबनबोले, कौकशोकभयत्या
गी ॥ होतप्रातरविकिरणप्रकाशी, तिमिरनिशासबभा
गी ॥ २ ॥ सरजूतीरचलेमंजनको, भूसुरगुरुवैरागी ॥ अ
रुणशिखाधुनिकरतपरस्पर, प्रेमप्रीतिअनुरागी ॥ ३ ॥
दासीदासचलेचरणनके, प्रेमसहितवैरागी ॥ पहिलेजा
यकमलमुखनिरखे, कान्हरसोबड़भागी ॥ ४ ॥ ९ ॥

भोरभयोसबहिलिमिलिनारी, कौशल्यापैआईटेका
हमरोप्रीतमतुम्हरोढोटा, बैगिजगावोमाई ॥ १ ॥ चक
वीमिलनचलीचकवासों, हमहुँचहतरघुराई ॥ भानु
उदयबिनकमलनफूलै, भ्रमररहेसुरझाई ॥ २ ॥ कनक
भवनमेंरत्नसिंहासन, जहँसोवतरघुराई ॥ रघुवरलक्ष्म
णभरतशत्रुहन, शोभावरणिनजाई ॥ ३ ॥ इतनावच
नसुन्योकान्हरको, हर्षिउठेरघुराईपटपीतांबरउधारै
मुखसे, मधुरमधुरमुसकाई ॥ ५ ॥ ब्रह्मादिकजाकोपा
रनपावै, निगमनेतियशगाई ॥ कान्हरलाहुकहांलगि
वरणौ, शेषसहसमुखगाई ॥ ५ ॥ १० ॥

आजसखीसपनेमेंदखे, रामलखनसियाजनकलली॥
 ॥टेक॥ वेदोउठादेसिंहपौरपै,मैअपनेगृहसोंनिकसी॥
 रूपदेखिव्याकुलमईसजनी, मानौकालभुजंगडसी॥
 ॥ १ ॥ क्याछुबिवरणौंश्रीरामचंद्रकी,अमृतबूंदघटाउ
 मँगी॥मानौलक्ष्मणधनुषचढ़ावैं,ज्यौंबादलबिजुलीच
 मकी॥ २ ॥ क्रीटमुकुटमकराकृतकुंडल,चंदनखौरल
 लाटलसी॥लालकमानबाणकरसौहै,पीताम्बरसोंकम
 रकसी॥३॥ब्रह्माजाकोपारनपावैं,ध्यानधरेंवाकोयती
 सती॥तुलसिदासगंध्रबगुणभावैं,जन्मजन्मकीविप
 तिनसी॥ ४ ॥ ११ ॥

श्रीरामानुजअवतारमनोहर,सुंदरसुभगशरीरं॥टेक॥
 अखिललोककेशोकविनाशन,भयेकरुणाकरगंभीरं॥
 ॥१॥खलखंडितरणमंडितपंडित,कररुचिदंडत्रिदंडं॥
 तिलकश्रीचूरणशशिसुखझलकै, कुंडलमंडितगंडं
 ॥ २ ॥ अरुणभँवरधरेचरणभुजायुत,सरससुवरदउदा
 रं॥शांतिदांतिवेदांतक्रांतिअति,महिमाअमितअपारं
 ॥ ३ ॥ तिमिरप्रचंडवितंडविखंडन,मंडनद्रविडविका
 सं॥आदिब्रह्मसहोदरभूधर,यशकरुणावलिभासं॥४॥
 मायावादविवादविशारद,मुक्तिप्रतिपालविनीतं॥से
 वकरामनिष्कामस्वस्तिकृत,भक्तिविभूषितगीतं॥५॥
 ॥ १२ ॥

मोहनजागोहो,बलगई॥टेक॥ग्वालबालसबद्वारेठा

ढे, बेरबनकीभई ॥ १ ॥ पीतपटकरिदूरमुखते, छोड़
देअलसई ॥ २ ॥ अतिअनंदितहोतयशुमति, देखि
द्युतिनितनई ॥ ३ ॥ जागेजंगमजीवपशुखग, औरस
बत्रजमई ॥ ४ ॥ सूरकेप्रभुदरशदीजै, अरुणकिरण
नक्षितिछई ॥ ५ ॥ १३ ॥

जागोहोतुम, नन्दकुमार॥टेक॥बलिबलिजाउँमुखार
विंदकी, गोसुतमिलेअसकंसभुआर॥१॥ आजकहासो
वतत्रिभुवनपति, औरबारतुमउठतसबार ॥२॥ बारंबा
रजगावतिमाता, कमलनयनभयेत्रिभुवनउजार॥३॥
दधिमथिहौंमाखनतुम्हेंदेहौं, संगसखाठाढेसबदार ॥
४ ॥ उठिकैमोहनबदनदेखावहु, सूरदासकेप्राण
अधार ॥ ५ ॥ १४ ॥

अथझांझकेसंगगानेकीप्रभाती ॥ प्रातसमयरघुवीर
जगावै, कौशल्यामहतारी॥टेक॥उठोलालजीभोरभ
योहै, सुरनरमुनिहितकारी ॥ १ ॥ इंद्रादिकब्रह्मादिदे
वता, सनकादिकत्रुषिचारी ॥ वाणीवेदविमलयशगा
वै, रघुकुलयशविस्तारी ॥ २ ॥ बंदीजनगंधवगुणगा
वै, नाचैदेंदतारी ॥ सेनसहितशिवदारेठाढे, होत
कुलाहलभारी ॥ ३ ॥ जागेभरतलखनरिपुसूदन, जा
गीजनकदुलारी ॥ अवधपुरीनरनारीजागे, सरजूपंथ
निहारी ॥ ४ ॥ भरतशत्रुहनचंवरछत्रलिये, जनकसु
तालियेझारी॥मेवापानलियेकरलक्ष्मण, भरकंचनकी

थारी ॥ ५ ॥ सुनिप्रियवचनउठैरघुनंद, नयननपलक
 उघारी ॥ चितवनमैंकियेअभयचराचर, सुदितभयेनर
 नारी ॥ ६ ॥ करिअस्नाननदाननृपदीन्हो, गौगजकंच
 नझारी ॥ रत्नसिहाँसनमध्यविराजै, सुंदरअवधविहा
 री ॥ ७ ॥ क्रीटसुकुटकरधनुषविराजै, कुंडलकीछवि
 न्यारी ॥ जयजयकारकरतजनमाधव, तनमनधनब
 लिहारी ॥ ८ ॥ ॥१५ ॥

भोरभयेपक्षीवनबोले, जागीजनककिशोरी ॥ टेक ॥
 सुरनरमुनिब्रह्मादिदेवता, देतपरस्परजोरी ॥ चौवाचं
 दनऔरअरगजा, सुखमलबेकोरी ॥ १ ॥ बंदीजन
 गंधवगुणगावैं, करिसृदंगटंकोरी ॥ पाँयपीताम्बरखा
 सामलमल, रत्नजड़ावकीचोली ॥ २ ॥ रुमकझुमकमह
 लनविचबिहरै, नूपुरशब्दकरोरी ॥ शब्दसुनतमुनिजन
 मनमोहे, अस्तुतिनिगमकरोरी ॥ ३ ॥ बेंदीभालविशाल
 विराजे, रविशशिवुतिनिंदोरी ॥ घूंघुरवारेशिरपरसो
 हैं, मधुकरभूलिरहोरी ॥ ४ ॥ कोउसखीकरअलकसँ
 वारे, कोउदर्पणलियेदोरी ॥ तुलसिदासछविदेखिमग
 नभये, काबरनोंमतिथोरी ॥ ५ ॥ १६ ॥

प्रातसमयउठिजनकनंदिनी, त्रिभुवननाथजगावैं ॥
 ॥ टेक ॥ उठोनाथममनाथप्राणपति, भूपतिभवनबु
 लावैं ॥ १ ॥ हस्तकमलद्वैचरणपलौटैं, लयलयदृगनल
 गावैं ॥ सोइपदपरसिनारिगौतमकी, तुरतपरमपदपा

वैं ॥२॥ उरझीमालगलेमोतियनकी, करअँगुरीसुरझा
 वैं ॥ घूँघरवारेअलकबदनपर, पागकीपेंचसँवारैं ॥ ३ ॥
 कनककलशसरजूजलझारी, विप्रनदानकरावैं ॥ कमल
 नयनमुखनिरखिरामको, आनँदउरनसमावैं ॥ ४ ॥
 संतजननकीयहीबीनती, आरतबचनसुनावैं ॥ कान्हर
 दाससियारघुबरकोहरखिनिरखिगुणगावैं ॥ ५ ॥ १७ ॥
 भयोप्रभातकहतकौशल्या, जागोरामपियारे ॥ टेक ॥
 उगेउभानुकमलनदखोले, मधुकरकरतयुँजारे ॥
 चरणकमलमुखनिरखिरामके, हर्षतनयनहमारे ॥ १ ॥
 जननीवचनसुनतउठिबैठे, नयननपलकउधारे ॥ गा
 वैंगुणमुनिजनगंध्रवमिलि, द्विजवरनिगमउचारैं ॥ २ ॥
 शिवसनकादिमेषधरिआवैं, दर्शनहेतुतुम्हारे ॥ अनुज
 सखासवद्वारेठाढे, सोहतन्यारेन्यारे ॥ ३ ॥ करिअस्ना
 नदाननृपदीनो, भूषणवसनसवारैं ॥ तुलसीदासआ
 सरघुबरके, लेसंतनउरधारे ॥ ४ ॥ १८ ॥
 प्रातसमयकौशल्यारानी, अपनेपुत्रजगावैं ॥ टेक ॥
 नीलअंगपरपीतझँगुलिया, हरखिनिरखिपहिरावैं ॥
 सुंदरश्यामकमलदललोचन, निरखिपरमसुखपावैं १
 नेतिनेतिकहिबेदबखाने, ब्रह्माध्यानलगावैं ॥ सोइकरु
 णामयरामदयानिधि, दशरथपुत्रकहावैं ॥ २ ॥ क
 बहँपालनाघालिझुलावैं, कबहँकगोदखेलावैं ॥ कब
 हँपांवनचलनसिखावैं, मातुसबैसुखपावैं ॥ ३ ॥ धन्य

धन्यरानीकौशल्या, दशरथधन्यकहावैं ॥ धन्यअयो
 ध्यानगरनिवासी, तुलसीदर्शनपावैं ॥४॥ १९ ॥
 लक्ष्मणरामकौशल्यामाई, अँगनामेंगोदखेलावैं ॥ टेक
 रघुवरलक्ष्मणभरतशत्रुहन, पलनामाहिझुलावैं ॥ १ ॥
 घरसेपौरपौरसेबाहर, पांवनचलनसिखावैं ॥ हाथलिये
 बूंदीकेलाड्ड, काकभुशुंडचुगावैं ॥ २ ॥ जरकसपागके
 सरियाजामा हरषिनिरखिपहिरावैं ॥ क्रीटमुकुटमक
 राकृतकुंडल, उरवनमालसोहावैं ॥ ३ ॥ काटिकिकेनिनू
 पुरधुनिबाजे, ठुमकचालमनभावैं ॥ शेषसहसमुखरटत
 निरंतर, सोऊपारनपावैं ॥४॥ शिवसनकादिआदिब्र
 ह्मादिक, नारदध्यानलगावैं ॥ तुलसिदासधनिधनि
 कौशल्या, मुखचूंबतलाड्डलडावैं ॥ ५ ॥

अथ दातून करानेकी प्रभाती ।

दातूनकीजैलाड्डिलेरघुनाथदुलारेसरजूकोजलभरला
 ईजनकदुलारी ॥ टेक ॥ रत्नजडितचौकीबनी, प्रभुआ
 पसिधारे ॥ सुरनरमुनिजनमोहिरहेसब, कौतुकहारे ॥ १
 करदर्पणलक्ष्मणालिये, विधिपागसवारे ॥ तुलसिदास
 परयहीकृपानितदर्शन तिहारे ॥ २ ॥ २० ॥

अथ श्रीबालभोग ।

॥ बालभोगकीजै, रामजीलला ॥ टेक ॥ तुममेरेप्रा
 णजीवनधनवारो, नेकनन्यारेहोउलला ॥१॥ बहुमेवा

पकवानमिठाई, खाझाखुरमाऔरफला ॥ २ ॥ बहुत
सुगंधमिलायकेमिसरी, औरहुसरजूगंगजला ॥ ३ ॥
लेवोलक्ष्मणकुँवरलाडिले, भरतशत्रुहनचपलकला ॥
॥ ४ ॥ जयअनूपसंतनहितकारी, लीलानटवरअनंत
कला ॥ ५ ॥ मातकौसल्याकरतआरती, अग्रदासब
लिजाउँलला ॥ ६ ॥ १ ॥

बालभोगकीजेकृष्णलला ॥ टैक ॥ श्रीब्रजपतिपुराण
पुरुषोत्तम,नेकनन्यारेहोउलला ॥ १ ॥ मोतीचूरमगद
केलाडू, माखनमिसिरीऔरफला ॥२॥ दूनोभैयामि
लिजेंवनबैठे,गौरश्याममुखझलकझला ॥ ३ ॥ संगस
खापरसादीलीन्हे,अँचवनकीजेयमुनजला ॥४॥राधा
कृष्णदासहितकारी,बीरीपावोसुगंधमिला ॥५॥ मातु
यशोदाकरतआरती,सूरदासबलिजाउँलला ॥६॥२॥
बाललीलाखेलैरघुवीर ॥ टैक ॥ भौरहोतउठिभोजन
मांगै,मुखधोवनकोसरजूनीर ॥ १ ॥ रुनुकझुनुकपगनू
पुरबाजै,गजगतिचालचलैरघुवीर ॥२॥ रत्नजडितशु
भटोपबिराजै, गलेबिराजैमुक्ताहीर ॥ ३ ॥ सुंदरबदन
कमलदललोचन, सोहतरघुवरश्यामशरीर ॥ ४ ॥ क्री
टमुकुटमकराकृतिकुंडल,गलेबिराजैमुक्ताहीर ॥ ५ ॥
शारंगधनुषबाणकरराजे,पीताम्बरपहिरेपटचीर ॥६॥
संगसखासरजूतटबिहरै,भरतशत्रुहनलक्ष्मणवीर ॥७॥
सुरनरमुनिसबदर्शनकोआये, दशरथद्वारेहोरहीभीर

॥ ८ ॥ तुलसिदासहरिरूपनिहारे, नितउठगावैंगुणगं
भीर ॥ ९ ॥ ३ ॥

बालभोगकीजेसियारघुवीर ॥ टेक ॥ अवधपुरीमेंरत्न
सिंहासन, बैकुंठधामबहेसरजूनीर ॥ १ ॥ द्राखवदामखो
पराकेरा, दूधदहीमेवारसखीर ॥ २ ॥ रघुवरलक्ष्मणभर
तशत्रुहन, जेवनबैठेचारोंवीर ॥ ३ ॥ कौशल्याबलिजाय
रामकी, पावतओटकरैपटचीर ॥ ४ ॥ बैठेरामवाम
करसीता, दहिनेबिराजैश्रीलक्ष्मणवीर ॥ ५ ॥ क्रीटमुकु
टमकराकृतकुंडल, गलेबिराजैमुक्ताहीर ॥ ६ ॥ शारंगध
नुषबाणकरराजे, पीतास्वरपहिरेपटचीर ॥ ७ ॥ सनमु
खपवनपुत्रकरजोरै, अग्रदासझारीभरिनीर ॥ ८ ॥ ४ ॥
बालभोगकीजेकौशलचंद्र ॥ टेक ॥ व्यंजनसकलसँवा
रेजननी, पावतदेतसरसरसंगंध ॥ १ ॥ कंचनथारसँ
वारिसुमित्रा, लैआईमधुरेफलकंद ॥ २ ॥ चारोंभइयामि
लिजेवनबैठे, दशरथसुतअरुआनंदकंद ॥ ३ ॥ पाय
अघायचलेखेलनको, रंगमहलमेचारोंबंद ॥ राजकाज
गजवाजिसँवारै, सकलसुधारेश्रीरघुनंद ॥ ५ ॥ लाहारा
मदासभजोपूरण, कौशल्यासुतआनंदकंद ॥ ६ ॥ ५ ॥
बालभोगकीजेगोकुलचंद्र ॥ टेक ॥ खोवामेवामाखनमि
सिरी, पेड़ाकिसमिसिमीठेकंद ॥ १ ॥ दोनोंभैयामिलिजे
वनबैठे, रोहिणिसुतअरुबालमुकुंद २ पायअघायचले
खेलनको, यमुनातटलियेग्वालनसंग ३ ग्वालबालस

बकरतकोलाहल, कंसपछारेश्रीयदुनंद ॥ ४ ॥ रत्नज
 डितशिरटोपीसोहै, कौस्तुभमणिअरुबाजूबंद ॥ ५ ॥
 सूरदासहरिरूपनिहारें, भक्तिदानदीजेगोविंद ॥ ६ ॥ ६ ॥
 बालभोगकीजेश्रीमहाराज ॥ टेक ॥ कनकबेदिकारत्न
 सिंहासन, तापरबैठेश्रीरघुराज ॥ १ ॥ कंचनथारमेवा
 दिकभोजन, जानकिलेआईभरिथार ॥ २ ॥ भरतश
 ऋहनचँवरछत्रलिये, पानसँवारेलक्ष्मणयुवराज ॥ ३ ॥
 रत्नजड़ाबकेबनेबिछौना, तापरबैठेराजकुमार ॥ ४ ॥
 हनूमानकरझारीलीन्है, अँचवनकीजेश्रीमहाराज ॥ ५ ॥
 लक्ष्मीनारायणस्वामीसमयपायकै, चरणकमलसेवै
 तजिलाज ॥ ६ ॥ ७ ॥

बालभोगकीजेबंकटभोर ॥ टेक ॥ दूधनहानोदूधैपानो
 दूधैकेनानारसभोग ॥ १ ॥ दाखबदामचिरौजीकेरा,
 माखनलागेनितउठिभोग ॥ २ ॥ घनरघनरधुनिघंटा
 बाजे, शंखशब्दव्हैसुंदरघोर ॥ ३ ॥ देशदेशकेसाधूआये
 दर्शनपावैनितउठिभोर ॥ ४ ॥ फूलनकेजामाअँगअति
 राजें, केसररंगसोहैशिरमौर ॥ २ ॥ जनहाथीरामजीवं
 कटजीकेशरण, चरणकमलपरचितरहैमोर ॥ ६ ॥ ८ ॥
 बालभोगकीजेनंदकिशोर ॥ टेक ॥ भांतिभांतिकेव्यं
 जनमोहन, केरानारियरमीठेबोर ॥ १ ॥ उतमैयामुख
 धौवनआई, हलधरकरअरुमाखनचोर ॥ २ ॥ हलधर
 गिरिधरजैवनबैठे, ग्वालबालबैठेचहुँओर ॥ ३ ॥ मा

खनखावतमुखलपटावत, केलिकरतश्रीनंदकिशोर॥
 ॥ ४ ॥ रत्नजड़ावकीबनीहैशँगुलिया, मुरलीदेहसोहि
 अनमोल ॥ ५ ॥ परमानंददासहितकारी, रोहिणिसु
 तअरुयुगलकिशोर ॥ ६ ॥ ९ ॥

करतकलेवाप्रतहीमिलिचारौभाईहांहां ॥ टेक ॥ कंचन
 थारसँवारिकै, मैयालेआई ॥ १ ॥ व्यंजनबनेबहुतभां
 तिनकै: बहुदधिदूधमिठाई ॥ २ ॥ खेलतखातदुरावहिं,
 झगरैँचारौँभाई ॥ ३ ॥ राजादशरथजीकेपौरमें, कुम
 कुमाउडाई ॥ ४ ॥ रुनुकझुनुकपगजपैँजनी, औकछनी
 छबिछाई ॥ ५ ॥ उरमणिहारविराजै, मोतियनछ
 विछाई ॥ ६ ॥ अवधपुरीकेकुंजभवनमें, बिहरैँचारौँ
 भाई ॥ ७ ॥ सुंदरमधुरीबोलनिबोलहिं, मौकहँलग
 तसोहाई ॥ ८ ॥ रामलखनलीलारचे, भक्तनसुखदाई
 ॥ ९ ॥ अग्रदासश्रीरामचन्द्रको, मानोलेतबुलाई ॥
 ॥ १० ॥ १० ॥

कनककटोराप्रातही, दधिघृतमिठाईहांहां ॥ टेक ॥
 चौकीरत्नजड़ावकी, बैठेदोउभाईहां ॥ १ ॥ नंदराय
 जीकीपौरमें, दधिकीकीचमचाईहां ॥ २ ॥ खेलतखा
 तदुरायकै, यशोदाबलिजाईहां ॥ ३ ॥ अरसपरसचु
 टियागहि, कछुलडूरबडाईहां ॥ ४ ॥ महाठीठमानैँन
 हिंझगरैँ, दोऊभाईहां ॥ ५ ॥ इतसेआईमैयारोहिणी,
 यशुदाबलिजाईहां ॥ ६ ॥ गृहगृहकीसबगोपिका, द

र्शनकोआईहां ॥ ७ ॥ रामकृष्णकीऐसीलीला, सबसं
तनसुखदाईहां ॥ ८ ॥ जगन्नाथधरणीधरमाधव, बारबा
रबलिजाईहां ॥ ९ ॥ ११ ॥ ॥ इतिश्रीबालभोगसंपूर्ण

अथ जगन्नाथजीकी मंगलआरती ।

॥ आरती जगन्नाथस्वामी, मंगलाकरी ॥ टेक ॥
निरखतमुखारबिंदपरसतचरणारबिंद, आपदाहरी ॥
॥ १ ॥ कंचनमणिदीपदान, ज्योतिजगमगी ॥ गलितधूप
अगरवाति, पावकेजरी ॥ २ ॥ घननघननघंटबाजै, बाजै
बेणुबांसुरी ॥ तालतोमृदंगबाजै, औरनादस्वंजरी ॥ ३ ॥
इंद्रदमनसिंधुगाजै, रोहिणीयाखड़ी ॥ मारकंडेसेतुगंगा
आनंदकीभरी ॥ ४ ॥ संतनकीभीरभारी, यात्राजुरी ॥
बेतनकीमारपरै, कबकीखरी ॥ ५ ॥ सुरनरमुनिद्वारे
ठाढ़े, ब्रह्मावेदउच्चरी ॥ धन्यधन्यमाधोदास, आजुकी
घरी ॥ ६ ॥ इतिश्रीजगन्नाथजीकीमंगलआरतीसंपूर्णा १

अथ सीतारामकी धुन लिख्यते ।

जयजयबोलोसीतारामकी ॥ जैबोलौहनुमानकी, भरत
लखनरिपुदलनसुजानकी ॥ रघुपतिराघवराजनरामप
तितपावनसीताराम ॥ जैरघुवरकीश्यामसुन्दरकी, सी
तावरकीबलिहारी ॥ जयरघुनंदनजैसियारामजानकी
वल्लभसीताराम ॥ जैरघुनंदनअवधबिहारी, जोरीसुंदर
मंगलकारी ॥ जयरघुनंदलालकी, सबसंतनकेपाल

की ॥ जैरघुनंदनजानकीनाथा, सीतारामसकलकेदा
 ता ॥ जैरघुनंदनजनककिशोरी, सीताराममनोहरजो
 री ॥ जैरघुनंदनजनकदुलारी, जोरीसुंदरमंगलकारी ॥
 श्रीकमलाविमलामिथिलाधाम, अवधसरजूसीतारा
 म ॥ रघुनंदनराघवराम सियावररामारघुनंदन, राघ
 वरामसियावररामसियावररामा ॥ सीतेराघव ॥ राघ
 वसीते ॥ श्रीरामरघुवररामरघुवररामरघुवरपाहिमां ॥
 श्रीजानकीवरमधुरमूरतिरामरघुवररक्षमां ॥ २ ॥
 इतिप्रातःकालकीधुनसंपूर्ण ॥ १ ॥

॥ छंद ॥ भयेप्रगटकृपालादीनदयाला, कौशल्या
 हितकारी ॥ हर्षितमहतारीमुनिमनहारी, अद्भुतरूपनि
 हारी ॥ लोचनअभिरामातनघनस्यामा, निजआयुध
 भुजचारी ॥ भूषणवनमालानयनविशाला, शोभासिंधु
 खरारी ॥ कहदुहुँकरजोरीअस्तुतितोरी, केहिविधिक
 रौअनन्ता ॥ मायागुणज्ञानातीतअमाना, वेदपुराण
 भनन्ता ॥ करुणासुखसागरसबगुणआगर, जेहिगाव
 हिश्रुतिसंता ॥ सोममहितलागीजनअनुरागी, प्रगटभ
 येश्रीकंता ॥ ब्रह्मांडनिकायानिर्मितमाया, रोमरोप्रति
 वेदकहै ॥ ममउरसोवासीयहउपहासी, सुनतधीरमति
 थिरनरहै ॥ उपजाजबज्ञानाप्रभुमुसकाना, चरितबहुत
 विधिकीन्हचहै ॥ कहिकथासुनाईमातुबुझाईजेहिप्रकार
 सुतप्रेमलहै ॥ मातापुनिबोलीसोमतिडोली, तजहुता

तयहरूपा ॥ कीजैशिशुलीलाअतिप्रियशीला, यहसुख
परमअनूपा ॥ सुनिबचनसुजानारोदनठाना, हैबाल
कसुरभूपा ॥ यहचरितजोगावहिंहरिपदपावहिं, तेनप
रहिंभवकूपा ॥ दोहा ॥ विप्रधेनुसुरसंतहित, लीन्हमनुज
अवतार ॥ निजइच्छानिर्मिततनु, मायागुणगोपार १।२

अथराधेश्यामकीधुन ।

जयजयबोलोराधेश्यामकी, जयबोलोयादवनाथकी ॥
माधवपुरुषोत्तमकुंवरकल्याणकी ॥ यदुपतियादवराधे
श्याम, पतितपावनहरिकोनाम ॥ जययदुवरकीश्याम
सुंदरकी, राधावरकीबलिहारी ॥ जययदुनंदनराधेश्या
म, रुक्मिणिवल्लभशोभाधाम ॥ जययदुनंदनजयगोपा
ल, संतनकेतुमहोरक्षपाल । जययदुनंदनलाडिलिनाथा
राधेश्यामसकलकेदाता ॥ जययदुवरवृषभानुकिशोरी
राधेश्याममनोहरजोरी ॥ जययदुवरवृषभानुदुलारी,
जोरी सुंदरमंगलकारी ॥ श्रीकालिंदीमथुराधाम, बं
सीवटश्रीराधेश्याम ॥ यदुनंदनराधेश्यामराधावर
श्यामराधावरश्यामराधावरश्यामा ॥ राधेकेशव ॥ के
शवराधे ॥ राधे ॥ केशव ॥ श्रीकृष्णकेशवकृष्णकेशव
कृष्णकेशवपहिमाम् ॥ श्रीराधिकावरमधुरमूरति
कृष्णकेशवपाहिमाम् ॥ १ ॥ ३ ॥

अथछन्दकृष्णजन्मको ।

भयेप्रगटगोपालादीनदयाला, यशुमतिकेहितकारी ॥

हर्षितमहतारीरूपनिहारी, मोहनमदनमुरारी ॥ कंसा
 सुरजानामनअनुमाना, पुतनावेगिपठाई ॥ सोमनमुसु
 काईहर्षितधाई, गर्जजहांयदुराई ॥ तेहिजाइउठाईहृद
 यलगाई, पयोधरमुखमेंदीन्हो ॥ तबकृष्णकन्हाईमनमु
 सुकाई, प्राणतासुहरिलीनो ॥ तबइंद्ररिसायेमेघनलाये,
 बसीकरेतेहिमोरी ॥ गौवनहितकारीसुरमुनिझारी, न
 खपरगिरिवरधारी ॥ कंसासुरमारीअतिहंकारी, बत्सा
 सुरसंहारी ॥ बक्कासुरआयोबहुतडेरायो, ताकोवदनवि
 नाशी ॥ तेहिअतिदिनजानीप्रभुचक्रपाणी, ताहिदीन
 निजलोका ॥ ब्रह्मासुरराईअतिसुखपाई, मगनहुयेग
 येशोका ॥ यहछंदअनूपाहैरसरूपा, जोनरयाकोगावै ॥
 तेहिसमनहिंकोईत्रिभुवनमोई, मनबांछितफलपावै ॥
 दोहा ॥ नंदयशोदातपकरो, मोहीसोमनलाय ॥ देख
 नचाहतबालसुख, रहोंकछुकदिनजाय ॥ जिहिनक्षत्र
 मोहनभये, सोनक्षत्रपरोआइ ॥ चारुवधाईरीतिसब,
 करतयशोदाभाइ ॥ २ ॥ इतिछंदसंपूर्ण ॥ ३ ॥ इति
 सीतारामछंदराधेश्यामकृष्णकोछंदसंपूर्ण ॥

सातोवारकीमंगलआरती ।

गुरुवारकीमंगलआरती ।

मंगलआरतिसियारघुबरकीरामरघुबरकी, गौरवरण
 मनश्यामसुंदरकी ॥ टंका ॥ मंगलरूपभूपदशरथके, सुर

हितदेहधरीनरहरिकी ॥ १ ॥ मंगलअशनवसनआभूषण,
 मंगलबाणशरासनहरिकी ॥ २ ॥ मंगलधनुषबाण
 करराजे, मंगलशोभाराजकुँवरकी ॥ ३ ॥ मंगलभाल
 तिलकशिरसोहै, मंगलखौरवनीचंदनकी ॥ ४ ॥ मंगल
 भरतलखनरिपुसूदन, मंगलसियशोभासबधरकी ॥ ५ ॥
 मंगलगानकरैसुरवनिता, मंगलहर्षिसुमनसुरवर्षे ॥ ६ ॥
 मंगलथारलियेकौशल्या, आरतिकरनचलीरघुबरकी
 ॥ ७ ॥ मंगलनीरबहैसरजूको, मंगलबीथीश्रीअवधन
 गरकी ॥ ८ ॥ मंगलरूपवसोतुलसीउर, हरहुसकलदु
 खदारुणजनकी ॥ ९ ॥ १ ॥

शुक्रवारकीमंगलआरती ।

मंगलआरतीश्रीबंकटकीश्रीलक्ष्मणकी, शेषाचलपर
 आपविराजे ॥ टेक ॥ मंगलशेषाचलअतिराजे, मंगल
 श्रीहरिआपुविराजे ॥ १ ॥ मंगलपाँवननूपुरबाजे, मंगल
 पीतपिताम्बरराजे ॥ २ ॥ मंगलकटिपरकिंकिणिराजे, मं
 गलमुक्तामणिछबिछाजे ॥ ३ ॥ मंगलशंखचक्रकरराजे,
 मंगलक्रीटमुकुटशिरराजे ॥ ४ ॥ मंगलअधरदशनकी
 शोभा, मंगलहासदेखशशिलाजे ॥ ५ ॥ मंगलमालगले
 मोतियनकी, मंगलश्रवणमैकुंडलभ्राजे ॥ ६ ॥ मंगल
 रूपदेवबरशोमित, मंगलसकलजगतछबिराजे ॥ ७ ॥
 रामचरणछबिदेखिमगनभये, मंगलशरणगेयप्रतिपा
 ले ॥ ८ ॥ १ ॥

शनिवारकीमंगलआरती ।

॥मंगलआरतिश्रीनरसिंहकीश्रीनरहरिकी,मंगलमोद
उठेतारंगा ॥ टेक ॥ मंगलजनप्रल्हादकेकारन,प्रगट
भयेश्रीकरुणाकंदा ॥ १ ॥ मंगलझांझऔरकर्तालैं, मं
गलशब्दउठेबहुरंगा ॥ २ ॥ मंगलढोलमृदंगवजावै,मंगल
बँसुरीअरुमुरचंगा ॥ ३ ॥ मंगलआरतिकरमैलीन्हे,
मिलिगावैसारंगा ॥ ४ ॥ मंगलभोजनथारसँवारे,मंग
लझारीभरिजलगंगा ॥ ५ ॥ मंगलआरतिकरमैलीन्हे,
अर्पणकराहँसच्चिदानंदा ॥ ६ ॥ मंगलकरहिंप्रणामस
बैमिलि,दंडवतकरहिंपरहिंजिमिदंदा ॥ ७ ॥ मंगलउद
यअमंगलनाशे,मंगलप्रभुमिलेपरमानंदा ॥ ८ ॥ १ ॥

रविवारकीमंगलआरती।

॥ मंगलआरतिरामकृष्णकी, राधावरसीतावरकी ॥
॥टेक॥ मंगलअवधपुरीसरजूजल, मंगलमथुरायमुना
जलकी ॥ १ ॥ मंगलकौशल्यादशरथसुत,मंगलयशुदा
नंदकुँवरकी ॥ २ ॥ मंगलक्रीटमुकुटशिरसोहै, मंगल
शोभामोरमुकुटकी ॥ ३ ॥ मंगलधनुषबाणकरराजे, मं
गलमुरलीमुखमोहनकी ॥ ४ ॥ मंगलकेसरभालतिल
कछुबि, मंगलगोरोचनशिरछुबिकी ॥ ५ ॥ मंगलसीता
बांयेविराजे, मंगलराधाशोभाधरकी ॥ ६ ॥ मंगलचर
णअहिल्यातारी, मंगलरुचिररूपकुब्जाकी ॥ ७ ॥

मंगलरावणअसुरसँहारे, मंगलकंसपछारनकरकी ८
 मंगलभक्तविभीषणथापे, मंगलछत्रधरेउग्रसेनकी ॥९॥
 मंगलरूपबसोयेजोरी, रामदासनिरखैयाछबिकी १०
 सौमवारकी मंगलआरती ।

मंगलआरतिराघोजीकीकीजैरामजीकीकीजै, तनम
 नधनसबअर्पणकीजै ॥टेक॥मंगलआरतिसदासुखसा
 जै, दशरथकेगृहनौबतबाजै ॥१॥ क्रीटमुकुटकरधनुष
 बिराजै, जनकसुतालियेआरतिसाजै ॥२॥ भरतशत्रुह
 नलक्ष्मणभाई, रामजीकीशोभावरणिनजाई ॥३॥ सन
 कसनंदनपारनपावै, नारदादिमुनिगुणगणगावै ॥ ४ ॥
 शेषसहसमुखरटतनिरंतर, शिवचतुराननध्यानन
 आवै ॥ ५ ॥ मोहनदासद्वारझुँकिगावै, विमलभक्तिश्री
 रामजीकीपावै ॥ ६ ॥ १ ॥

॥मंगलआरतिराजकुँवरकीराजकुँवरकी, संकटमोच
 नशारँगधरकी ॥टेक॥ कनकथारमणिमाणिकमोती,
 कोटिभानुशशिसमद्युतिजोती ॥१॥मंगलआरतिसजे
 सुनयना, परमसुधारसबोलीबैना ॥२॥ परमउदारदी
 नदुखमोचन, करुणासिंधुबड़ेबड़ेलोचन ॥३॥ बामभा
 गमिथिलेशकिशोरी, यहछबिवरणिसकैकबिकोरी ॥
 ॥४॥छत्रलियेकरलक्ष्मणसोहै, अंजनीसुतसन्मुखकर
 जोरै ॥५॥ भरतशत्रुहनचँवरदुरावै, नारदादिमुनिगण
 गुणगावै ॥६॥ तुलसिदासरघुवरछबिनिरखै, पुलकिगा

तलोचनजलवरखै ॥ ७ ॥ १ ॥

मंगलवारकी मंगलआरती ।

॥मंगलआरतिसजनीसाजे,मंगलमोदआनंजवढावै ॥

॥टेक॥मंगलपियप्यारीसुखपावै, मंगलवचनरचनउ
रलावै ॥ १ ॥मंगलकेलिवेलिसरसावै, मंगलकरकपो

लपरसावै ॥२॥ मंगलकौककेलिदरशावै, मंगलउरलै
हृदयलगावै ॥ ३ ॥मंगलमंदमंदमुसकावै, मंगलअंगअं

गलपटावै ॥४॥ मंगलसदनकपोलनसाजे, मंगलअल
कझलकमुखराजे ॥५॥मंगलअधरअरुणताभ्राजे, मंग

लपानपयोधिपराजे ॥६॥मंगलअँचवनउमँगिकरावै,
मोहनदासजीअतिसुखपावै ॥ ७ ॥ १ ॥

बुधवारकी मंगलआरती ।

मंगलआरतिनंदकुँवरकी,यशुमतिसुतश्रीराधावरकी

॥ टेक ॥ मंगलजन्मकर्मकुलमंगल,मंगलयशुमतिमा
खनचोरकी ॥१॥ मंगलमौरमुकुटकुंडलछवि, मंगलमु

रलीरवधनघोरकी ॥२॥मंगलव्रजवासीसबमंगल, मं
गलगानकरैचहुँओरकी ॥३॥ मंगलगोपीम्बालसबमंग

ल, मंगलराधानंदकिशोरकी ॥४॥ मंगलनंदयशोदामं
गल,मंगलसुतहिंखेलावैगोदकी ॥ ५॥ मंगलगिरिगोव

र्धनमंगल, मंगलवृंदावनधनघोरकी ॥६॥ मंगलकुंज
वासिसबमंगल,मंगलहैशोभाचहुँओरकी ॥७॥ मंगल

श्यामयमुनजलमंगल, मंगलधारबहैतीक्षणकी ॥ ८ ॥
मंगलश्रीहलधरसबमंगल, मंगलराधायुगलकिशोर
की ॥ ९ ॥ मंगलश्याममूरतिमनमोहै, चंद्रसखीब-
लिजाउँचरणकी ॥ १० ॥

मंगलआरतिकीजैभोर ॥ टेक ॥ मंगलमथुरामंगलगो
कुल, मंगलराधेनंदकिशोर ॥ १ ॥ मंगललकुटमुकुट
वनमाला, मंगलमुरलीहैघनघोर ॥ २ ॥ मंगलनंद
गामवरसानो, मंगलगोवर्धनकीसोर ॥ ३ ॥ मंगलवंशी
बटतटयमुना, मंगललताझुँकीचहुँओर ॥ ४ ॥ चंद्रसखी
भजुबालकृष्णछवि, मंगलब्रजवासिनकीओर ॥ ५ ॥ २ ॥

॥ इति सातोंवारकीमंगलआरतीसंपूर्ण ॥

अथ गुरुवारके मंगल ।

आजुअवधपुर, भारीभोर ॥ टेक ॥ एकआवतयकजा
तबटोहीयकठाढ़ेसरजूकेतीर ॥ १ ॥ एकन्हावतयकचं
दनचढ़ावत, एकसुमिरतहैसियरघुवीर ॥ २ ॥ येकन
कोनृपदानदेतहै, येकनकोपहिरावतचीर ॥ ३ ॥ एक
रघुपतिकोरूपनिहारै, एकगावतहैगुणगंभीर ॥ ४ ॥
एकदोऊकरजोरेठाड़े, एकडारतनयननसेनीर ॥ ५ ॥
तुलसिदासकरजोरेठाढ़े, भक्तिदानदीजेरघुवीर ॥ ६ ॥ १
आजुमहामंगलकोशलपुर, रामचंद्रअवतारलियोटेक
अवधपुरीमेंरत्नसिंहासन, भूतलभारउतारिलियो ॥ १ ॥
आवतहीताडकासंहारी, एकबाणहरिप्राणलियो ॥ २ ॥

जयजयकारभयोसुरपुरमें, देवनदुंदुभिनादकिये ॥३॥
 विश्वामित्रकोयज्ञसफलकियो, गौतमनारिउधारिलि
 ये ॥४॥ सबभूपनकोमानमथनकियो, परशुराममदमा
 रिलिये ॥५॥ सीताब्याहिअवधहरिआये, घरघरमंगल
 चारभये ॥ ६ ॥ शिवसनकादिआदिब्रह्मादिक, शेषस
 हसमुखगायरहे ॥ ७ ॥ मातुकौशल्याकरतआरती, तु
 लसिदासगुणगायलिये ॥ ८ ॥ १ ॥

परमधामसाकेतछाँड़िकै, अवधपुरीहरिआयोरीटेक
 निर्गुणब्रह्मसगुणबपुधारे, संतनकेहितलायोरी ॥ १ ॥

रामजन्मदशरथगृहलीनो, कौशल्यागुणगायोरी ॥२॥
 धनिबड़िभाग्यराजादशरथके, जासुपरमसुखपायोरी

॥३॥ घरघरमंगलबजतबधाई, ध्वजपताकछविछायो
 री ॥४॥ केशरकुमकुमऔरअरगजा, गलियनमाँहँसि

चायोरी ॥ ५ ॥ बाललीलाखेलेंचारौभाई, जननिदेखि
 सुखपायोरी ॥६॥ संगसखासरजूतटविहरें, चपलतुरं

गनचायोरी ॥७॥ रामचरणछविदेखिमगनभये, बार
 बारबलिजायोरी ॥ ८ ॥ गोकुलदाससियारघुवरके,

चरणकमलचितलायोरी ॥ ९ ॥ ३ ॥

आजमहामंगलकोशलपुर, सुनिनृपकेसुतचारभये ॥
 । टेक । सदनसदनसोहिलोसोहावन, नभअरुनगरनि

सानहये ॥१॥ सजिसजियानअमरकिन्नरमुनि, जानस
 मयशुभगानठये ॥ नाचाँहिनभअप्सरामुदितमन, पुनि

पुनिवर्षहिंसुमनचये ॥ २ ॥ अतिसुखबैगबोलगुरुभूसुर
 भूपतिभीतरभवनगये।जातकर्मकरिकनकवसनमणि
 भूषितसुरभिसमूहदये ॥ ३ ॥ दलरोचनफलफूलदूबदधि,
 युवतिन्हभरिभरिथारलये ॥ गावतचलींभीरभइभारी,
 बंदिनवाकुरबिरदवये ॥ ४ ॥ कनककलशअरुचँवरपता
 का, ध्वजऔबंदनवारनये ॥ भरहिअबीरअरगजा
 छिरकहि,सकललोकयकरंगरये ॥ ५ ॥ उमगचल्योआ
 नंदलोकतिहुँ, देवसवनमंदिररितये ॥ तुलसिदासपुनि
 भरेदेखियत, रामकृपाचितवनचितये ॥ ६ ॥ ४ ॥
 आजसखीसुनुअद्भुतलीला, कौशल्यासुतजायोरी ॥
 ॥टेक॥ सुंदरबदनकमलदललोचन, निरखतनयनजुड़ा
 योरी ॥ १ ॥ सबसुखसदनबदनअतिराजे, कोटिकामछ
 बिलाजेरी ॥ २ ॥ तिमिरनाशकेकारणप्रगटे, रविमुतआ
 पबिराजेरी ॥ ३ ॥ घरघरमंगलवजतबधाई, आनँदउरन
 समायोरी ॥ ४ ॥ गायकगुणगाविसुरमधुरे, बाजाविविध
 बजायोरी ॥ ५ ॥ आनँदसिंधुबदयोराजाके, बहुविधिकेसु
 खपायोरी ॥ ६ ॥ रामलखनपरकरीनिछावर, दियोजा
 हिजोभायोरी ॥ ७ ॥ रामसुयशगावेंपुरवासी, प्रेममगन
 लौलायोरी ॥ ८ ॥ गोकुलदासकुँवररघुबरके, चरणकमल
 अनुरागेरी ॥ ९ ॥ ५ ॥

आजअवधमहाराजसदनसखि, बाजतविविधबधाई
 री ॥ टेक ॥ कुँवररूपधनिनृपघरप्रगटे, चारिपदार

थआईरी ॥ १ ॥ प्रमुदितफिरतसकलपुरवासी, मन
 हूरंकधनपाईरी ॥ २ ॥ हाँसिहाँसिमिलतउठेनरनारी,
 छाँडिक्रोधईर्षाईरी ॥ ३ ॥ कहिनजातसुंदरतेहिअवसर,
 बहुविधिपुरीसुहाईरी ॥ ४ ॥ आइसांझदिनमांझसुनो
 सखि, प्रभुहिंमिलनजनुआईरी ॥ ५ ॥ अगरकपूरकोहोम
 धूपगृह, अंधकारअधिकआईरी ॥ ६ ॥ उड़तअबीरगुलाल
 महीसब, सहजसदनअरुणाईरी ॥ ७ ॥ गृहमाणिगण
 उडुगणसमसोहैं, कलशइन्दुछविछाईरी ॥ ८ ॥ मागधवे
 दबंदीमधुरेधुनि, मनुखगवरसुखदाईरी ॥ ९ ॥ शिशुकोव
 दनबिलोकिहर्षिउर, यकटकरहेलुभाईरी ॥ १० ॥ संध्या
 समयकरतबंदनसुनि, देहदशाबिसराईरी ॥ ११ ॥ चिरं
 जीवमहराजकुंवरवर, चरणदासबलिजाईरी ॥ १२ ॥ ६ ॥
 आजुसखीमहराजराजगृह, आनंदबजतवधाईरीटेक
 प्रगटभयेरघुनाथलालजी, सुरनरमुनिसुखदाईरी ॥ १३ ॥
 शुभनक्षत्रशुभघरीमहूरत, योगवारसमुदाईरी ॥ १४ ॥ ज
 यजयकारभयोतिहुँपुरमें, देवनहुँडुभिबजाईरी ॥ १५ ॥ चो
 वाचंदनऔरअरगजा, केशरकीचमचाईरी ॥ १६ ॥ दधि
 दूर्वारोचनफलफूला, बंदनवारबनाईरी ॥ १७ ॥ नचहिंन
 वलअपूसरामुदितमन, अबिरगुलालउड़ाईरी ॥ १८ ॥ हर्षे
 देवसुमनबहुबर्षे, आनंदउरनसमाईरी ॥ १९ ॥ बाललीला
 रघुनाथलालके, शेषसकतनहिंगाईरी ॥ २० ॥ तुलसिदास
 छबिकहँलगिवरणों, निगमपारनहिंपाईरी ॥ २१ ॥ ७ ॥

रामजन्मआनंदबधाई ॥ टेक ॥ सुरतरुकामधेनुचिंताम
णि, अवधपुरीमेंघरघरआई ॥ १ ॥ प्रफुलितरहेंनगरके
बासी, बालरुदनसबभांतिसोहाई ॥ २ ॥ भईभीरनाचत
नरनारी, बाजाबहुतकहेनहिजाई ॥ ३ ॥ सुवर्णकलश
चौकमोतियनके, द्वारेबंदनवारबनाई ॥ ४ ॥ शिशुको
बदननिहारिनारिसब, वारतभूषणलेतबलाई ॥ ५ ॥
धन्यकोखिकौशल्यारानी, धन्यभाग्यहैकीर्तिबडाई
॥ ६ ॥ दशरथरायआयभयेठाढ़े, कनकबसनअरुधेनु
मँगाई ॥ ७ ॥ परमपुनीतदेवपदबंदित, दानमानसोंदेतब
धाई ॥ ८ ॥ मागधसूतभाटवंदीजन, आपनमनकरवां
छितपाई ॥ ९ ॥ तुलसिदासआनंदमगननृप, खुसीकि
येपुरलोगलुगाई ॥ १० ॥ ८ ॥

आजसुदिनशुभघरीसुहाई, कहाकहोंअधिकाईरी टेक
॥ रूपशीलगुणधामरामनृप, भवनप्रगटभएआईरी ॥
अतिपुनीतमधुमासलगनग्रह, बारयोगसमुदाईरी ॥ १ ॥
हर्षवंतचरअचरभूमिसुरतनरुहपुलकजनाईरी ॥ वपै
विबुधनिकरकुसुमावलि, नभदुंदुभीबजाईरी ॥ २ ॥ कौश
ल्यादिमातुमनहर्षत, यहसुखवरणिनजाईरी ॥ सुनिद
शरथसुतजन्मलियोहै, गुरुजनविप्रबुलाईरी ॥ ३ ॥ वेदवि
दितकरिक्रियापरमशुचि, आनंदउरनसमाईरी ॥ सद
नवेदधुनिकरतमधुरमुनि, बहुबिधिवजतबधाईरी ॥ ४ ॥
पुरबासीप्रियनाथहुतेनिज, निजसंपदालुटाईरी ॥ म

णितोरणबहुकेतुपताका, पुरीरुचिरअतिछाईरी ॥ ५ ॥
 मागधसूतद्वारबंदीजन, जहँतहँकरतवड़ाईरी ॥ सहज
 सिंगारकियेबनिताचलि, मंगलविपुलवनाईरी ॥ ६ ॥ गा
 वतदेतअसीसमुदितमन, चिरंजीवसुनिसुखदाईरी ॥
 बीथिनकुमकुमकीचअरगजा, अगरअवीरउड़ाईरी ॥
 ॥ ७ ॥ नाचहिपुरननारिप्रेमभरि, देहदशाविसराईरी ॥
 अमितधेनुगजतुरगवसनमणि, जातरूपअधिकाईरी
 ॥ ८ ॥ देतभूपअनुरूपजाहिजोइसकलसिद्धिगृहआईरी
 ॥ सबैसुमनविकसतरविनिकसत, कुमुदविपिनविल
 खाईरी ॥ ९ ॥ जोसुखसिंधुसुकृतशीकरते, शिवविरंचि
 प्रभुताईरी ॥ सौसुखअवनिउमंगदशौदिशि, कवनय
 त्नकहिगाईरी ॥ १० ॥ जोरघुबीरचरणचितदीन्हे, ति
 नगतिप्रगटदिखाईरी ॥ अविरलअमलअनूपभक्तिदृ
 ढ, तुलसिदासतहँपाईरी ॥ ११ ॥ ९ ॥

नौमीकेदिननौवतबाजे, सुतकौसल्याजायोरी ॥ टेक ॥
 सातधरोदिनबीतिगयोहै, सखियनमंगलगायोरी ॥ १ ॥
 दशरथकेआनंदभयोहै, रघुवंशीगृहआयोरी ॥ विप्रवो
 लायशोधनाकीनी, अक्षयभंडारलुटायोरी ॥ २ ॥ कंचन
 केबहुकलशभराये, सौतियनचौकपुरायोरी ॥ घरिएक
 शोचनिगमयोभाष्यो, रामचंद्रगृहआयोरी ॥ ३ ॥
 घरघरतेकुलबधूबोलाये, मंगलगावतआयोरी ॥ राय
 अँगनमेंडारिदुलीचा, आदारकीरैबठायोरी ॥ ४ ॥ कं

प्योसिंधुकंगूराछाये, लंकाअगमजनायोरी ॥ सबलंका
मेंशोचभयोहै, राजकुंवरकहुंआयोरी ॥ ५ ॥ दशरथउ
ठिभंडारपधारे, सारीसुरंगमगायोरी ॥ जोजैसोजिन
केमनभावै, तिनतैसोपहिरायोरी ॥ ६ ॥ खांसाझीनाची
रपितांबर, हर्षितजनपहिरायोरी ॥ कमलानंदकहांल
गिवरणौं, तीनलोकयशगायोरी ॥ ७ ॥ १० ॥

अवधनगरचलोदेखोमेरीसजनी राजादशरथजीकेरा
मजीभये ॥ १ ॥ टेक ॥ कौनघरीभारतभयेसजनी, कौन
घरीराजारामजीभये ॥ २ ॥ बाजततालमृदंगझांझडफ,
औनौबतपरचोपभये ॥ ३ ॥ तंबुवनतंबुवननचततायफे,
सबरघुवंशीमगनभये ॥ ४ ॥ हरेहरेगोबरअंगनालिपा
ये, मोतियनचौकपुराये ॥ ५ ॥ अपनेअपनेभवनतेनि
कसीं, गजमोतियनकेथारलये ॥ ६ ॥ चैतमासनौमी
कीपूजा, सूखेसरोवरनीरभरे ॥ ७ ॥ कहतकबीरदयास
तगुरुकी, घरघरमंगलचारभये ॥ ८ ॥ ११ ॥

हंसवंशराजादशरथके, देहधरीअविनाशीहो ॥ टेक ॥ अं
शनसहितकरनसुखसंतन, भंजनभवकीफांसीहो ॥ १ ॥
मधुसुमासदिननौमीसौमी, शुक्लपक्षपरकाशीहो ॥ ३ ॥
युगलयामवरपरमपुनर्वसु, प्रगटेविश्वविलासीहो ॥
प्रेममगनसुनिभयोमहासुनि, सबकौशलपुरवासीहो ॥
॥ ४ ॥ नचतलाजतजिगयेविसरिसुधि, वस्तुअगोचर
भासीहो ॥ ५ ॥ ध्वजाअबलिफहरातसुनौबत, मृदुघ

हरातघटासीहो ॥६॥ देतबाजिगजरत्नअमोले, खोले
कोसलखासीहो ॥ ७ ॥ जोसुखांसिधुनलहतवेदविधि,
कंतसमेतउमासीहो ॥८॥ मनसुखनाथअनूपदासके,
अमितरूपरसराशीहो ॥ ९ ॥ १२ ॥

अवधनगरवरनृपदशरथगृह, देहदयानिधिधारीहो ॥
निर्गुणनित्यनिरंजनसोहैं, हरणभारभुवभारीहो ॥१॥
अतिपुनीतमधुमासलग्रह, नौमीशुभउजियारीहो ॥
॥ २ ॥ युगलयामबरचढ़तपुनर्वसु, प्रगटेरामखरारी
हो ॥ ३ ॥ बिसरेसदनकेकारजनाना, महामग्रनर
नारीहो ॥ ४ ॥ भरेसुहागभागकौसल्या, नाचतलाज
बिसारीहो ॥ ५ ॥ बाजाबजैपढ़तगुणगावत, पढ़तसु
भाटपुकारीहो ॥ ६॥ हयगजरथनलुटावतनृपजू, रत्न
जड़ितकीझारीहो ॥ ७ ॥ सुरनरमुनिजाकोपारनपावें,
शंभुसमाधिनटारीहो ॥८॥ चिरंजीवहोमनसुस्वामी,
जलथलअवधबिहारीहो ॥ ९ ॥ १३ ॥

एनृपदशरथकेपुत्रभयोसखि, सुरपुरबजतबधाईरी ॥
टैक॥घरघरमंगलचारअवधपुर, बंदनवारबँधायोरी
॥ १ ॥ चतुरसखीमिलिसाथआदिले, विधिसोंसीकब
नाईरी ॥२॥ चंदनचौकरचौअँगनामें, रत्ननभूमिज
ड़ाईरी ॥ ३ ॥ करतकौतुककौशलपुरवासी, याचकअ
भयधरायोरी ॥४॥लक्षधेनुनृपवरसंकल्पी, हस्तिसमू

हलुटायोरी ॥ ५ ॥ अग्रदासरघुपतिके आगम, सबसं
तनसुखपायोरी ॥ ६ ॥ १४ ॥

सुभगसेजशोभितकौसल्या, रुचिररामशिशुगोदलिये
॥ टेक ॥ बारबारविधुवदनविलोकत, लोचनचारुच
कोरकिये ॥ १ ॥ कबहुँपौदिपयपानकरावति, कबहुँक
राखतिलायहिये ॥ २ ॥ बालकेलिगावतिहलरावति,
पुलकितप्रेमपियूषपिये ॥ ३ ॥ विधिमहेशमुनिसुरहुसरा
हत, देखतअंबुदओटदये ॥ ४ ॥ तुलसिदासऐसोसुख
दायो, कहँतोपायोनपियो ॥ ५ ॥ १५ ॥

सुंदररामपालनेझूलै, कौसल्यागुणगायोरी ॥ टेक ॥ ब
लिवलिजाउँमुखारविंदकी, राजिवलोचनभायोरी ॥
॥ १ ॥ दरशथपलनासरसगढायो, सबचंदनकोसाजेरी ॥
हीराजड़ितपाटकीडोरी, रेसमबानबनायोरी ॥ २ ॥ रा
तेचरणकमलकरराते, सुभगश्यामतनशोभेरी ॥ सबस
खियांमिलिमंगलगावै, दशरथपौरझुलावैरी ॥ ३ ॥ तुलसि
दासहरिरूपनिहारै, चरणकमलमनलागोरी ॥ ४ ॥ १६ ॥
चारोंभाईपलनाझूलै, जननीहर्षिझुलावैरी ॥ टेक ॥ दे
वमुनीजनध्यानधरतहैं, ध्यानहुँआवतनाहीरी ॥ १ ॥
ब्रह्माशिवसनकादिकनारद, निरखिपरमसुखपावैरी ॥
॥ २ ॥ पूरणब्रह्मअखिलअविनाशी, नृपसुतआयकहा
वैरी ॥ ३ ॥ भक्तवत्सलभक्तनहितकारी, बलगुणरूप
दिखावैरी ॥ ४ ॥ देखिचरणमनभयोहैकृतारथ, तुलसि

दासमनलावैरी ॥ ५ ॥ १७ ॥ इतिगुरुवारकेमंगल
समाप्त ॥

अथ शुक्रवारके मंगल ।

रूपनिहारो आलीरूपनिहारो, सियारघुवरजीकोरूप
निहारो ॥ टेक ॥ छोटेभैयालक्ष्मणवड़ेरघुनंदन, सूर्य
वंशउजियारो ॥ १ ॥ रघुवरलक्ष्मणभरतशत्रुहन, दश
रथराजदुलारो ॥ २ ॥ क्रीटमुकुटमकराकृतकुंडल, ग
लेबिचमुक्ताहारो ॥ ३ ॥ जरकसिपागकेसरियाजामा,
पीतांबरपटवारो ॥ ४ ॥ हाथधनुषकटिभाथासोहै, अ
सुरनगंजनहारो ॥ ५ ॥ रत्नसिंहासनरघुवरबैठे, तीन
लोकउजियारो ॥ ६ ॥ मातकौसल्याकरतआरती,
बारबारबलिहारो ॥ ७ ॥ तुलसिदासहरिरूपनिहारे, जी
वनप्राणहमारो ॥ ८ ॥ १ ॥

आजुमहामंगलशेषाचल, घरघरबजतवधाईरी ॥ टेक ॥
जयजयकारभयोसुरपुरमें, देवनहुंहुभिबजाईरी ॥ १ ॥
चोवाचंदनऔरअरगजा, केसरकीचमचाईरी ॥ २ ॥
दधिदूर्वारोचनफलफूला, वंदनवारवनाईरी ॥ ३ ॥ क्री
टमुकुटमकराकृतकुंडल, उरबनमालसोहाईरी ॥ ४ ॥
कम्बुकंठकौस्तुभमणिराजै, शोभावरणिनजाईरी ॥ ५ ॥
आठपहरफूलनकेजामा, पीतांबरछबिछाईरी ॥ ६ ॥ शेष
सहसमुखरटतनिरंतर, वाकोपारनपाईरी ॥ ७ ॥ जन
हाथीरामबंकटकेशरण, चरणकमलचितलाईरी ॥ ८ ॥ २

आजमहामंगलशेषाचल, श्रीवेंकटेशपधारैरी ॥टेक ॥
 मंगलशेषाचलशुभराजे, मंगलपदहरिधारैरी ॥१॥ मंग
 लकटिपरकिंकिणिराजे, उरवनमालसुहावेरी ॥ २ ॥
 मंगलपांयननूपुरबाजे, वसनपीतांबरधारैरी ॥३॥ मंग
 लशंखचक्रकरराजे, भृगुपदअधिकसुहावेरी ॥४॥ मंग
 लमालगलेमोतियनकी, श्रवणकुंडलझलकावेरी ॥५॥
 मंगलअधरदशनमुखसोहैशिशुतितिलकलजावेरी।
 ॥ ६ ॥ मंगलक्रीटमुकुटशिरसोहै, मंदमंदमुसकावेरी
 ॥ ७ ॥ मंगलतालपखावजबाजे, मंगलसुरपदगावेरी
 ॥ ८ ॥ रामचरणबंकटशरणागत, अभयपरमपद
 पावेरी ॥ ९ ॥ ३ ॥

चलोसखीलक्ष्मणछबिनिरखै, पंचबटीहरिआयोरी ॥
 ॥टेक॥ यकइयामलयकगौर मनोहर, अरुसियसंगसो
 हायोरी ॥ १ ॥ जटामुकुटमुनिवेषधरैहै, उरवनमाल
 सोहायोरी ॥ २ ॥ शूर्पणखाकोरूपहरौहै, खरदूषणसं
 हारेरी ॥३॥ सिवरीकोनिजधामपठायो, गीधजटायु
 कोतारोरी ॥४॥ एकबाणवालीकोमारो, सुमनमालप
 हिरायोरी ॥५ ॥ सागरसेतुनामसेबांधे, कपिलपारउ
 तारोरी ॥ ६ ॥ लंकाजारिअसुरसबमारे, राजबिभीषण
 पायोरी ॥ ७ ॥ लंकाजीतिरामघरआए, गृहगृहबजत
 बधाईरी ॥ ८ ॥ सीतासहितसिंहासनबैठे, भरतजीचँव
 रदुरायोरी ॥९॥ रावणमारिअहिरावणमारो, सखियन

मंगलगायोरी ॥ १० ॥ मातुकौसल्याकरतआरती,
तुलसिदासगुणगायोरी ॥ ११ ॥ ४ ॥

चलोसरिशेषाचलचलिये, लक्ष्मणजहांविराजेंरी ॥
॥टेक ॥ वर्षतपुष्पदेवसुनिहर्षे, प्रीतिसदाउरछायोरी ॥
॥१॥ त्रिपतीमेंसीतारामजीविराजें, लक्ष्मीअधिकसो
हायोरी ॥ २ ॥ शेषाचलपरआपुविराजें, शोभावर्णिन
जायोरी ॥ ३ ॥ जयऔविजयदोउपौरियाविराजें,
पुष्करिणीमनभायोरी ॥ ४ ॥ क्रीटमुकुटमकराकृतकुंड
ल, उरबनमालसोहायोरी ॥ ५ ॥ शंखचक्रगदापद्मवि
राजें, श्यामसुरतिमनभायोरी ॥ ६ ॥ भोगमद्रीमेंभोगल
गतहै, बेदनकीधुनिलायोरी ॥ ७ ॥ रामदासबंकटकेश
रणै, चरणकमलचितलायोरी ॥ ८ ॥ ५ ॥

कंकंकंकंक्रीटमुकुटाशिर, धारिलियोश्रीबंकटजी।टेक
॥ चंचंचंचंचक्रविराजे, शंशंशंखसोहायोरी ॥ १ ॥ गंग
गदाहाथमेंलीन्हो, पंपंपद्मसोहायोरी ॥ २ ॥ जंजंजंकर
जोरैठाढ़े, झंझंझंझबजायोरी ॥ ३ ॥ घंघंघंघंघंटाबाजे,
भंभंभोगलगायोरी ॥ ४ ॥ रंरंरंभानृत्यकरतिहै, इंद्र
पुष्पझरिलायोरी ॥ ५ ॥ दंदंदंदंदयातुम्हारी, ब्रह्माबे
दसुनायोरी ॥ ६ ॥ मंमंमयामोहसबत्यागे, शंशंशंकर
गायोरी ॥ ७ ॥ हंहंहाथीरामजीखेले, संसंसंगतु
म्हारेजी ॥ ८ ॥ ६ ॥

प्रातसमयमधुवनकेभीतर, मोहनबेणुबजायोरी।टेका।

मोरमुकुटकरमुरलीसोहै, मधुरमधुरधुनिलायोरी ॥ १ ॥
 तनंतनंतननंतननंतं, सोवतमदनजगायोरी ॥ २ ॥ बं
 सीकीटेरसुनीब्रजबनितन, करिसिंगारउठिधायोरी
 ॥ ३ ॥ झनंझनंझननंझननंतं, नूपुरशब्दसुनायोरी ॥ ४ ॥ हि
 मऋतुविकटजाड़बड़लागे, रसनावचननआवैरी ॥ ५ ॥
 सनंसनंसननंसननंसं, पवनमाधुरीआवैरी ॥ ६ ॥ सरं
 सरंसरनंसरनंसं, आरतबचनसुनावैरी ॥ ७ ॥ सूरदास
 व्याकुलब्रजबनिता, दूढ़तश्यामनपावैरी ॥ ८ ॥ ७ ॥
 भक्तिदानमोहिंदीजिए, बंकटमहराजलक्ष्मणमहरा
 ज ॥ १ ॥ टेक ॥ सखिक्रीटमुकुटमाथेबन्यो, हीरारत्न
 जड़ायाकेसरतिलकविराजही, कुंडलकीछविछाया ॥
 सखिकमलनयनमुखचन्द्रमा, अच्छेललितकपोल ॥
 चितवननिमेंचितचोरहैं, मधुरेमीठेबोल ॥ २ ॥ सखिरत्न
 जड़ितगलेगुंजहैं, हैंमुक्तावनमाला ॥ बैजंतीमालागले, अ
 च्छेसदनसिंगार ॥ ३ ॥ सखिबाजूबंदविराजहीं, अ
 च्छेबाहुविशाल ॥ करकंकनपहुँचीबनी, मुद्राजड़हैंला
 ल ॥ ४ ॥ सखिभृगुलक्षणउरराजही, नाभिरुचिरगंभीर ॥
 नीलकंजमणिराजही, अच्छेगौरशरीर ॥ ५ ॥ सखिक
 टिकिकिणिपगपैजनी, कीधुनिअधिकसोहाय ॥ ठुम
 कचालगवनीमनो, चित्तलियोहैंचोराय ॥ ६ ॥ सखिचर
 णकमलपरगुंजहैं, संतनकोमनभृंग ॥ रामदासहृदय
 धरे, स्वामीपरमानंद ॥ ७ ॥ ८ ॥

ब्रजराजकुमारमहराजकुमार, गोपीनाथविराजहि ॥
 ॥टेक॥सखिमोरमुकुटमाथेवनो,मुखमेंसुरलिवजाय।
 चितवनमेंचितचोरहै,सोहैब्रजकीनारि।१।सखिकृष्ण
 बरनघनश्यामहै,अम्बुजऐसेनैन ॥ केसरतिलकविरा
 जही,बिंदुबहुतछबिदैन॥२॥सखीकटिपरपीतलपेटिहै
 हैकेंकिणिघनघोर ॥ करगहिकमलफिरावहीं,मानोहै
 रविभोर ॥ ३ ॥ सखीबृंदाबिपिनसोहावनो,सरियमुना
 केतीर॥संगसखालियेबिहरत,हरिहलधरदोउबीर।४।
 सखीगोकुलतेमथुरागये,श्रीपतिश्रीबलवीर ॥ नरना
 रीमोहतफिरें,मनमोधरतनधीर ॥५॥सखीतबकुब्जा
 परकृपाकरि,प्रभुअतिदीनदयाल॥यदुकुलसबपालन
 कियो,दुष्टनकेहैकाल ॥६॥सखीकृष्णभक्तिजानेनहीं,
 तौउपजेनहिज्ञान॥सूरखजन्मगँवावहीं,भूलेहैंभ्रमजा
 ल॥७॥सखीभक्तिशिरोमणिपावनी,राखोयहदृढ़नेम॥
 सुखमनसंतसमाजमें,देखोधरिकैध्यान ॥ ८ ॥ सखी
 अगजगव्यापकब्रह्महै,रसनासोंगुनगाय ॥ दाससुदर्श
 लगावही,सोपावैसुखधाम ॥ ९ ॥ ९ ॥

संतसमागमदीजिये,टीकममहाराजदोऊमहराज ॥
 ॥ टेक ॥ प्रभुवामनहैबलिकोछल्यो,बलिसोंलियोहै
 दान ॥ तीनपैरबसुधासकल,करिअतिशयहर्षान ॥१॥
 प्रभुब्रह्मलोकलगिशोसहै,गयेचरणपाताल॥बलिराजा
 पैशोकहै,तुमसमनाहींआन ॥२॥ प्रभुभक्तबत्सलमहा

राजहै, श्रीआरतिहरनाम ॥ बलिद्वारेठादेभये, तीनि
लोककेप्रान ॥ ३ ॥ प्रभुसंतजननहृदयहिंधरें, कोईपावे
नपार ॥ श्रुतिशारदसबथकिरहे, प्रभूजगतआधार ॥ ४ ॥
प्रभुब्रह्माविष्णुमहेशहैं, नारदकरेहेंगान ॥ रामदाससु
मिरनकरै, सोपावैसुखधाम ॥ ५ ॥ १० ॥

जुरिआयेयादवसबै, भूपतिकेदरबार ॥ टेक ॥ सखीकृ
ष्णद्वारिकादूरिहैं, पातीकोलेजाय ॥ मेरीसुधिपहुँचाइ
ये, फिरिआवेगोधाय १ सखीचहुँदिशि सिंधुबिराजही,
बेड़ीलगेनपार ॥ कसविधिपारउतारिये, कीजेकौनउपा
य ॥ २ ॥ सखीरुक्मिणीजीबिनतीकरें, सुनियेप्रभुचि
तलाय ॥ जैसेजलबिनुमीनहै, तलफतलफमरिजाय ॥
॥ ३ ॥ सखीजैसेगजकीटैरसुनि, सुनतैहीउठिधाय ॥
गरुड़छोड़िपहुँचेतहां, कटिपटचक्रसुधार ॥ ४ ॥ सखीहल
धरसंगबिराजहीं, रथमेंहैअसवार ॥ गिरिजापूजनजात
ही, लियनिजरथहिंचदाय ॥ ५ ॥ सखीभक्तवत्सलभगवा
नहैं, संतनकरक्षपाल ॥ श्रीभटकेप्रभुहृदिवसो, श्रीहरि
यादवराय ॥ ६ ॥ ११ ॥

छगनभगनश्रीबंकटजीकी, यहछबिकीबलिहारी ॥ टेक
रुनुकझुनुकपगनूपुरबाजें, लागतहैमोहिंप्यारी ॥ १ ॥
त्रिपतीमेंसीतारामजीबिराजें, लक्ष्मणआज्ञाकारी ॥
॥ २ ॥ शेषाचलपरआपबिराजें, हनुमतआज्ञाकारी ॥
॥ ३ ॥ जयऔबिजयदौपौरियाबिराजें, बजैघंटधु

निभारी ॥ ४ ॥ आठपहरफूलनकेजामा, पीतांबरछवि
 न्यारी ॥ ५ ॥ क्रीटमुकुटकरधनुषविराजें कुंडलकीछ
 विभारी ॥ ६ ॥ शंखचक्रगदापद्मविराजें, कटिपरकिं
 किणिधारी ॥ ७ ॥ शिवब्रह्माजाकोपारनपावें, सनका
 द्विकत्रशुषिचारी ॥ ८ ॥ ब्रह्माजाकेकरतरसोई इंद्रभरेजहँ
 पानी ॥ ९ ॥ भोगमदीमेंभोगलगतहै, वेदनकीधुनि
 भारी ॥ १० ॥ आसपासगिरवरकीशोभा, बीचमेंको
 इलभारी ॥ ११ ॥ जनहाथीरामबंकटजीकेशरणै, चर
 णकमलबलिहारी ॥ १२ ॥ १२ ॥

आएरीदोउराजकुँवरबर, सुंदरश्यामलगोरे ॥ टेक ॥
 आगेआगेविश्वामित्रमहासुनि, सँगहंसनकेजोरे ॥
 ॥१॥ कहाकहूँगुणरूपआगरी, लगतदिननकेथोरे ॥२॥
 बड़ेबड़ेलोचनहैंअघसोचन, शोभासिंधुहिलोरे ॥ ३ ॥
 क्रीटमुकुटमकराकृतकुंडल, धनुषबाणकरजोरे ॥ ४ ॥
 विश्वामित्रकोयज्ञसुफलकियो, कठिनधनुषकोतोरे ॥
 ॥५॥ जयजयकारभयोत्रिभुवनमें, भूपनकेसुखमोरे
 ॥ ६ ॥ उड़तगुलाललालभयेबादर, रायजनकजीकी
 पौरै ॥ ७ ॥ अग्रअलीप्रभुकीछविनिरखैं, चितवनमें
 चितचोरे ॥ ८ ॥ १३ ॥

॥ इतिशुक्रवारकेमंगलसमाप्त ॥

अथ शनिवारके मंगलप्रारंभ ।

अवधपुरीबिहरैरघुवीर ॥ टेक ॥ रघुवरलक्ष्मणभरतश

त्रुहन, संगसखनकीसोहैभरि ॥ १ ॥ पीताम्बरकीकछ
 नीकाछे, करमेंसोहैसारंगतीर ॥ २ ॥ चपलतुरंगचढेर
 घुनंदन, चलेजातसरजूकेतीर ॥ ३ ॥ भरतशत्रुहनहुहुँ
 दिशिराजें, पीछेलक्ष्मणहैरणधीर ॥ ४ ॥ बिहरतफिर
 तप्रमोदविपिनमें, केलिकेरैहैश्रीरघुबीर ॥ ५ ॥ सरजूदास
 परकिरपाकीजे, भक्तिदानदीजेरघुबीर ॥ ६ ॥ १ ॥
 आजमहामंगलत्रिभुवनमें, खंभफोरिहरिप्रगटभये ॥
 ॥ टेक ॥ देवनमुदितनिशानबजाये, सुखउपजेदुखदूरि
 गये ॥ १ ॥ असुरमारिप्रल्हादउबारो, संतनकेआनंद
 भये ॥ २ ॥ श्रवणसुन्योनयनननहिंदेख्यो, अद्भुतरूप
 अनूपभये ॥ ३ ॥ नरहरिरूपधन्योअविनाशी, भक्तहेतु
 अवतारलये ॥ ४ ॥ ब्रह्मादिकजाकेनिकटनआवें, ल
 क्ष्मीलखिकैचकितभये ॥ ५ ॥ खंभफोरिहरिनाकुसमा
 न्यो, जनप्रल्हादउबारिलिये ॥ ६ ॥ कहतकबीरदया
 सतगुरुकी, घरघरमंगलचारकिये ॥ ७ ॥ २ ॥
 शुक्लपक्षबैशाखमासमें, चौदशिकोहरिजन्मलियो ॥
 टेक ॥ खंभफोरिहरिनाकुसमारि, जनप्रल्हादकोअभय
 कियो ॥ १ ॥ चोवाचंदनऔरअरगजा, बीथिनकीचम
 चायरहे ॥ २ ॥ दधिदूबारीचनफलफूला, घरघरबंदनवा
 रनये ॥ ३ ॥ सुरनरमुनिसबप्रेमविवशभये, सुखसंपतिस
 बछायरहे ॥ ४ ॥ शेषसहसमुखरटतनिरंतर, वाकोपा
 रनपायोरी ॥ ५ ॥ शिवसनकादिआदिब्रह्मादिक, नि

गमनेतियशगायरहे ॥ ६ ॥ संतदासनरसिंहचरणपर,
बारबारबरमांगिलिये ॥ ७ ॥ ३ ॥

आजसखीहरिजन्मलियोहै, भक्तवत्सलनरसिंहसही ॥
टेक ॥ पाहनतेपरमेश्वरप्रगटे, सारभक्तिप्रल्हादलही ॥
॥१॥ कामक्रोधभमताअरुतृष्णा, इनकोमारिकैदूरद
ही ॥२॥ हरिकेचरणप्रीतिअतिबाढ़ी, रामनामकीटेक
गही ॥३॥ घुरतनिशानदेवसबहर्षे, पुष्पनछाईसकलम
ही ॥४॥ संतदासआनंदसंतजन, जयजयजयतिहुँलो
कसही ॥ ५ ॥ ४ ॥

आजसखीहरिप्रगटभयेहैं, भक्तहेतुनरसिंहसही।टेक।
अद्भुतरूपधरोअविनाशी, कहूँतोदेख्योसुन्योँनकही १
ब्रह्माआदिशेषशिवनारद, लक्ष्मीरूपनिहारिरही ॥२॥
संतनकेआनंदभयेहैं, असुरनकेमनशंकभई ॥३॥ संत
दासतिहुँलोकआनंदभये, सदाभक्तकीटेकरही ॥४॥५
आजुसखीनरसिंहजन्मलियो, भक्तनकोआनंददियो
॥ टेक ॥ हिरनाकुसप्रल्हादभक्तको, लैकेखंभमेंबां
धिदियो ॥१॥ रामकहांतेरेमोहिंबतावो, ऐसोकहि
केखड्गलियो ॥२॥ मोमेंतोमेंखड्गखंभमें, सबमेंजोईप्रती
तिकियो ॥३॥ खंभफोरहिरनाकुसमारे, देवनजयजय
कारकियो ॥ ४ ॥ लियोगोदप्रल्हादभक्तको, हस्तक
मलशिरफेरिदियो ॥ ५ ॥ माधोदासआसनरहरिके
सकलविघ्नकोदूरिकियो ॥ ६ ॥ ६ ॥

आञ्जुसखीहरिजन्मलियोहै, भक्तनकेहितकारी ॥ टेका
 शुभनक्षत्रशुभघरीमहूरत, योगवारसमुदाईरी ॥ १ ॥
 खंभफोरिहिरनाकुशमारे, नखसेउदरविदारैरी ॥ २ ॥
 गहगहगगनदुंदुभीबाजी, आनंदउरनसमाईरी ॥ ३ ॥
 नचहिंनवलअप्सरामुदितमन, सुरनपुष्पझरिलईरी ।
 ॥ ४ ॥ चोवाचंदन औरअरगजा, केसरकीचमचाईरी
 ॥ ५ ॥ संतदासनरसिंहआसरे, बारबारबरमांगौरी ॥
 ॥ ६ ॥ ७ ॥

श्रीनरसिंहप्रगटभयैजनहित, देववजायोबाजाजूटेक
 हिरनाकुसप्रल्हादभक्तसों, बूझतकहासहायोजू ॥ १ ॥
 मोमेंतोमेंखङ्गखंभमें, व्यापरहेरघुराजाजू ॥ २ ॥ हरना
 कुसकोउदरविदारैउ, असुरडरेसबभागेजू ॥ ३ ॥ लप
 किलियोकहिंजाननपइहौ, कोइनपरेमुखआगेजू ॥ ४ ॥
 ब्रह्मादिकसबथरथरकांपैं, लक्ष्मीप्रभुकोत्यागेजू ॥ ५ ॥
 जनप्रल्हादगोदमेंबैठैं, चाटनचूंबनलागेजू ॥ ६ ॥ जय
 जयकारभयोत्रिभुवनमें, सिंहासनपरराजेजू ॥ ७ ॥ कुंज
 बिहारीप्रभुयशगावैं, सकलअमंगलभागेजू ॥ ८ ॥ ८ ॥
 याचकजननरसिंहजन्मसुनि, याचनआयेद्वारघने ॥
 ॥ टेक ॥ उतसेआवतमहारंकसे, इतसेजावतभूपबने
 ॥ १ ॥ एकहिआवतएकहिजावत, विदाहोननहिंचैन
 परे ॥ २ ॥ सुरनरमुनिसबप्रेमबिबशभये, बोलोहरि
 आनंदघने ॥ ३ ॥ जबप्रल्हादबोलभंडारी, द्रव्यलुटायै

सर्वघने ॥ ४ ॥ माणिकमुक्ताअरुहयहस्ती, संतदास
जीकवनगिने ॥ ५ ॥ ९ ॥

श्रीरघुनाथजन्मकीसेवा, बेदविमलयशगायोरी ॥ टेक ॥
पौढेहैंप्रभुक्षीरसागरमें, ब्रह्माआनिजगायोरी ॥ १ ॥ अ
वनीदुखीदुखीसबदेवा, लोकपालदुखपायोरी ॥ २ ॥
चालोदेवतुमबनचरहोइहो, हमपीछेचलिआवैरी ॥ ३ ॥
भूकोभारउतारनकारण, शेषसंगलैआवैरी ॥ ४ ॥ रा
वणकुंभकर्णअपराधी, देवनबहुतसतावैरी ॥ ५ ॥ क्री
टमुकुटमकराकृतकुंडल, उरबनमालसोहावैरी ॥ ६ ॥
पीताम्बरकीकछनीकाछे, धनुषबाणकरधारेरी ॥ ७ ॥
शिवसनंकादिआदिब्रह्मादिक, नारदध्यानलगावै
री ॥ ८ ॥ शेषसहसमुखरटतनिरंतर, वाकोपारनपायो
री ॥ ९ ॥ द्वापरमेटिकियोयुगत्रेता, लिखियाफेरिमिटा
योरी ॥ १० ॥ माधोदासआसरघुबरके, सूरजवंश
कहायोरी ॥ ११ ॥ १० ॥

गोविंदगुनागोपालगुना, गायलेरेगोविंदगुना ॥ टेक ॥
ऐसोसमयबहुरिनाहिपैहो, फिरपछितैहोमेरेमना ॥ १ ॥
जिनतुमकोतनमनधनदीन्हो, नयननासिकासुखरस
ना ॥ २ ॥ जाकोरचतमासदशलागे, ताहिनसुमिरौएक
छिना ॥ ३ ॥ बालापनहंसिखेलगमायो, तरुणभयोतब
रूपगना ॥ बिरधभयोतबआलसउपजो, उठगईहाटक
छनबना ॥ ४ ॥ अधमतरेअधिकारभजनते, जेजेआये

हरिशरना ॥ नामानोतोसाखिबताऊं, अजामीलगणि
कासधना ॥ ५ ॥ धनयौवनअँजुरीकोजलजस, घटत
जातछिनपलहिपला ॥ असजियजानिमजोरघुनंदन,
नामदेवजीआयेहरिशरना ॥ ५ ॥ ११ ॥

॥ इतिशनिवारकेमंगलसमाप्त ॥

अथ रविवारके मंगल ।

अवधपुरीआनँदकोरूप ॥ टेक ॥ ठाँदेमुनिजनवेदबखा
नें, दशरथरायबड़ेकुलभूप ॥ १ ॥ जाकोनिगमनेतिय
शगावैं, योगेश्वरसेवैनिजरूप ॥ २ ॥ सोइखेलेदशरथके
अँगना, अंगअंगमेंसुधासरूप ॥ ३ ॥ राजादशरथके
चारिपुत्रहैं, तिनमेंरघुवरश्यामसरूप ॥ ४ ॥ रघुवरलक्ष्म
णभरतशत्रहन, जोरीसुंदरमंगलरूप ॥ ५ ॥ क्रीटमुकुट
मकराकृतकुंडल, गलेविराजेमोतिअनूप ॥ ६ ॥ सारै
गधनुषबाणकरराजे, सैलकरनकोनिकसेभूप ॥ ७ ॥ अ
वधपुरीमेंरत्नसिंहासनःजहँबैठेदशरथकुलभूप ॥ ८ ॥
घरघरकामधेनुचिंतामणि, कल्पवृक्षअरुनगरअनूप
॥ ९ ॥ शिवसनकादिआदिब्रह्मादिक, नारदध्यानधरें
निजरूप ॥ १० ॥ तुलसिदाससेवैरघुनंदन कनककल
शंपंचायनधूप ॥ ११ ॥ १ ॥

कौशल्याप्यारेरामको, लियेगोदखेलावेहां ॥ टेक ॥ सुंद
ररूपनिहारके, मनमोदबढ़ावैहां ॥ १ ॥ चलनसिखा
वैप्यारेरामको, पगनूपुरबाजेहां ॥ २ ॥ कुंडलबनेहैंज

झावके, मणिमाणिकमोतीहां ॥ ३ ॥ शशिमंडलकेम
 ध्यमें, उडुगणकीजोतीहां ॥ ४ ॥ पीतङ्गुलियाअधि
 कवनी, कोटिनछबिलाजेहां ॥ ५ ॥ सीससुभगकुलही
 बनी, माथेबिंदुविराजेहां ॥ ६ ॥ नीलकंजनखकेहरि, कर
 कंकनराजेहां ॥ ७ ॥ बाललीलारघुनाथके, सुरनरमुनिगा
 वैहां ॥ ८ ॥ तुलसिदासपरयहीकृपानित, दर्शनपा
 वैहां ॥ ९ ॥ २ ॥

पलनाझुलावैश्रीरामको, कौसल्यामाईहां ॥ टेक ॥ रत्न
 जड़ितकेपालना, रेसमडोरीलगाई ॥ १ ॥ जननीहर्षि
 झुलावै, झूलेरघुराई ॥ २ ॥ रुनुकझुनुकपगपैजनी,
 धुनिअधिकसोहाई ॥ ३ ॥ बालसखालैसंगमें, सरजूत
 टजाई ॥ ४ ॥ कौसल्याश्रीरामको, बोलनकोजाई ॥ ५ ॥
 आवतदेखेमातुके, प्रभुचलहिंपराई ॥ ६ ॥ बारबारश्री
 रामको, तुलसीबलिजाई ॥ ७ ॥ ३ ॥

बाणधनुहियांकितैधरी, दैदेमेरीमाईहांहां ॥ टेक ॥ प्रा
 तहोतहरिखेलनगये, सबसखाबोलाईहांहां ॥ १ ॥ अप
 नेअँगनामेंखेलियो, मिलिचारोभाईहांहां ॥ २ ॥ खेल
 रचोबहुभांतिके, सरजूतटजाईहांहां ॥ ३ ॥ विविधभां
 तिबैठकवनी, फुलवारीलगाईहांहां ॥ ४ ॥ भांतिभांति
 केपंछीबोलहिं, मोकहलगतसोहाईहांहां ॥ ५ ॥ एकबा
 णमेरोचोरीगयो, सरजूतटमाईहांहां ॥ ६ ॥ नीरनिक
 टहमनाहिंगये, बाबाकीदोहांईहांहां ॥ ७ ॥ बूझोभरत

बोलायके, लक्ष्मणकेभाईहांहां ॥ ८ ॥ मातुकौशल्या
केगोदमें, बोलेतुतलाईहांहां ॥ ९ ॥ तुलसिदासहरिम
गनभये, शरधनुहीपाईहांहां ॥ १० ॥ ४ ॥
कनकमुरलियाकितैधरी, दैदेमेरीमाईहांहां ॥ टेक ॥
भोरहोतहरिखेलनगये, सबसखाबोलाईहांहां ॥ १ ॥
अपनेअँगनामेंखेलियो, मिलिदूनोभाईहांहां ॥ २ ॥खे
लरचेबहुभांतिके, यमुनातटजाईहांहां ॥ ३ ॥ गृहगृह
कीसबगोपिका, दर्शनकोआईहांहां ॥ ४ ॥ इनमेंसुता
वृषभानुकी, मेरीबंसीचोराईहांहां ॥ ५ ॥ दधिमाखनमे-
रोखायके, मोहिँचोरीलगाईहां ॥ ६ ॥ दधिगोरसऊंचेध
रे, मोहिँपहुँचिनजाईहां ॥ ७ ॥ मातुयशोदाकीगोदमें,
बोलेंतुतलाईहां ॥ ८ ॥ घुंघुटबदनछिपाइके, बंसीलै
आईहां ॥ ९ ॥ श्रीभटकेआनंदभये, हरिबंसीपा
ईहां ॥ १० ॥

पूरणब्रह्मसनातनकहिये, सरजूबेदबखानी ॥ टेक ॥ ब्र
ह्मलोकसेधाराआई, उचरतजयजयबानी ॥ निशिदिन
सरजूबहतदूधकी, मूरखजानतपानी ॥ १ ॥ स्वर्गद्वारपर
सहस्रधारा, मुक्तिभरेजहँपानी ॥ निशिदिनसरजूलहर
लेतहै, बोलतमधुरीबानी ॥ २ ॥ रामघाटअस्नानकर
नको, आयेहैंमुनिज्ञानी ॥ रघुवरलक्ष्मणभरतशत्रहन,
हनुमानअगवानी ॥ ३ ॥ सरजूकेतीरअयोध्यानगरी,
जहँबिहरैरजधानी ॥ तुलसीदासअवधकीमहिमा, श्री
मुखआपुबखानी ॥ ३ ॥ ६ ॥

वेदपुराणविमलयशगावै, जययमुनामहाराणी ॥ टेक ॥
 गौलोकसेधाराआई बोलतमधुरीबानी ॥ निशिदिन
 यमुनाबहतदूधकी, मूरखजानैपानी ॥ १ ॥ कालीदह
 परसहस्रधारा, मुक्तिभरेजहँपानी ॥ निशिदिनयमु
 नालहरलेतहै, बोलतजयजयबानी ॥ २ ॥ चीरघाटअ
 स्नानकरनको, आयैहँमुनिज्ञानी ॥ हलधरगिरिधरमद
 नमनोहर, बिनतासुतअगवानी ॥ ३ ॥ धीरसमीरेयमु
 नातीरे, जहँबिहरेरजधानी ॥ सूरदासयमुनाकीमहि
 मा, श्रीमुखआपुबखानी ॥ ४ ॥ ७ ॥

जयनारायणब्रह्मपरायण, श्रीपतिकमलाकंतं ॥ टेक ॥
 नामअनंतकहांलगिवरणों, शेषनपावतअंतं ॥ शिवस
 नकादिआदिब्रह्मादिक, नारदध्यानधरंतं ॥ १ ॥ मच्छ
 कच्छसूकरनरहरिप्रभु, वामनरूपधरंतं ॥ परशुरामसो
 इरामचन्द्रभये, लीलाकोटिकरंतं ॥ जन्मलियोवसु
 देवदेवकी, यशुमतिगोदखेलंतं ॥ पैठपतालकालिया
 नाथ्यो, फणपरनिरतकरंतं ॥ ३ ॥ बलभद्रहोइअसुर
 संहारे, कंसकेकेशगहंतं ॥ जगन्नाथजगमगाचिंतामणि,
 वैठरहोनिहचिंतं ॥ ४ ॥ कलियुगहरनकलंकीहोइहै,
 वेदपुराणभनंतं ॥ दशमस्कंधभागवतगीता, सूरशरण
 भगवंतं ॥ ५ ॥ ८ ॥

गालिकानंदश्यामसुंदरभजो, पूरणब्रह्मअनंता ॥ टेक ॥
 मुक्तिनाथहरिजन्मलियोहै, अवधपुरीविचरंता ॥ १ ॥

चरणोदकजाकोपापहरतरहै, जरामरणभवहंता ॥२ ॥
 धूपदीपनैवेद्यआरती, तुलसीपुष्पचढ़ंता ॥ ३ ॥ छुप्प
 नभोगछतीसोव्यंजन, नितप्रतिभोगलवंता ॥ ४ ॥
 रघुवरलक्ष्मणभरतशत्रुहन, रूपराशिभगवंता ॥५॥ शे
 षसहसमुखरटतनिरंतर, सोजाकोपावैनअंता ॥६॥ शि
 वसनकादिआदिब्रह्मादिक, नारदध्यानधरंता ॥ ७ ॥
 माधवदासआसचरणनकी, भवसागरउतरंता ॥८॥ ९ ॥
 अवधछोंड़िकहिअंतनजैहों, रामनामगुणगैहोंजी।टेक
 रघुवरलक्ष्मणभरतशत्रुहन, नितउठिदर्शनपैहोंजी। १ ॥
 शारंगधनुषबाणकरराजे, पीताम्बरपहिरैहोंजी ॥ २ ॥
 रत्नसिंहासनआपुविराजे, तुलसीपुष्पचढ़ैहोंजी ॥ ३ ॥
 छुप्पनभोगछत्तिसोव्यंजन, नितउठिभोगलगैहोंजी।४
 क्रीटमृकुटमकराकृतिकुंडल, उरबनमालपहिरैहोंजी।
 ॥५॥ शिवसनकादिआदिब्रह्मादिक, नारदध्यानलगै
 होंजी ॥ ६ ॥ तुलसीदासआशरघुवरके, चरणकमल
 चितलैहोंजी ॥७ ॥ १० ॥
 सीतारामअवधपुरवासी, नितउठिदर्शनपैहोंजी।।टेक
 रघुवरलक्ष्मणभरतशत्रुहन, शोभावरणिनजावैजी १ ॥
 संगसखासरजूतटबिहरें, रामलषणदोउभाईजी ॥५॥
 सुंदरबदनकमलदलोचन, उरबनमलसोहावैजी ॥
 ॥ ३ ॥ अवधपुरीनरनारिनिहारें, निरखिपरमसुखपा

वैजी ॥ ४ ॥ मातुकौशल्याकरतआरती, अग्रदासब
लिजावैजी ॥ ५ ॥ ११ ॥

खेलतहैंअँगनामेंरघुवर, जननीलेतबलैयारी ॥ टेक ॥
बलिअवतारदेवमुनिबंदित, राजिवलोचनभावेरी ॥ १ ॥
क्रीटमुकुटमकराकृतिकुंडल, उरबनमालसोहावेरी ॥ २ ॥
शिवसनकादिआदिब्रह्मादिक, इंद्रपुष्पझरिलयेरी ॥ ३ ॥
सुंदरवदनकमलदललोचन, मुनिमनलेतचोरायेरी ॥ ४ ॥
तुलसिदासहरिरूपनिहारे, चरणकमलचितलायेरी ॥
॥ ५ ॥ १२ ॥ इतिरविवारकेमंगलसमाप्त ॥

अथ सोमवारकेमंगल ।

आजुजनकपुर, मंगलभाई ॥ टेक ॥ दधिदूर्वारोचनफ
लफूला, जहँतहँबंदनधारबनाई ॥ १ ॥ सुरनरमुनिब्रह्मादि
देवता, आनंदउरनसमाई ॥ २ ॥ जहँतहँबाजाबाज
नलागे, गावाहँनौतमनारिबनाई ॥ ३ ॥ नचाहँनवल
अप्सरामुदितमन, पुनिपुनिवर्षहिंसुमनसोहाई ॥ ४ ॥
करिअस्नानदाननृपदीन्हो, गोगजबाजिभूमिसमुदाई
॥ ५ ॥ जोइजोइभावैसोइसोइदीनो, बिदाकियेबहुभां
तिबनाई ॥ ६ ॥ जनकनंदिनीबदनबिलोके, तुलसिदा
सबलिजाई ॥ ७ ॥ १ ॥

आजुजनकपुर, मोहिनीडारी ॥ टेक ॥ सुंदरश्यामराम
रघुनंदन, मोहिलियेपुरनरनारी ॥ १ ॥ देशदेशके
भूपतिआये, उठैनधनुषमहाअतिभारी ॥ २ ॥ गुरु

आज्ञालैउठेरामजी, तोन्योधनुरघुनाथखरारी ॥ ३ ॥
 आईहैसीतासंगसहेली, जयमालासियपियउरमेली ॥
 ॥ ४ ॥ तुलसिदासदुलहरघुनंदन, दुलहिनिजनककु
 मारी ॥ ५ ॥ २ ॥

रंगमहलसियजनकदुलारी ॥टेक॥प्रगटभईमिथिलापु
 रमाहीं, अद्भुतरूपधरेमहरानी ॥१॥भँवरकेशशिरसोहैं
 सुंदर, सुरँगचूनरीप्रेमपियारी ॥ २ ॥ रुनुकझुनुकपग
 नूपुरबाजैं, मोहिलियेसुरपुरनरनारी ॥ ३ ॥ शिव
 सनकादिआदिब्रह्मादिक, वर्णतशेषशारदाहारी ॥
 ॥ ४ ॥ तुलसिदाससेवैरघुनंदन, दशरथसुतअरुजनक
 दुलारी ॥ ५ ॥ ३ ॥

दोउराजकुमारमहाराजकुमार, मुनिसँगमिथिलाआ
 येहैं ॥टेक॥सखिक्रीटमुकुटमाथेबन्यो, घुंघुरवालेकेश।
 बैजंतीमालागले, अच्छेसुंदरवेश ॥१॥सखिभालतिलक
 माथेबन्यो, भौहैंचढ़ीहैंकमान ॥ सुरनरमुनिसबमोहिग
 ये, अच्छेसरसनिधान ॥२॥सखिअग्रकीरनासावनी, मु
 खचंद्रमासमानु ॥ जगमगज्योतिविराजही, मानोको
 टिकभानु ॥३॥ सखिकरकोदंडविराजही, कटिमैंभा
 थातीर ॥ मनहरिलियोमाईमाधुरी, मूरतिमोहेरघुबीर।
 ॥ ४ ॥ सखिअनब्याहीहुलसीफिरैं, ब्याहीलेतउसास
 गौनेकीमौनैरहीं, लागीरघुवरआस ॥५॥सखिवचनस
 बनऐसोकह्यो, गुरुजनपुरजनलोग। नाहकबैदबुलाइये,

जावैनहिँतनरोग ॥ ६ ॥ सखिशिवधनुकठिनकठोरहै,
 होऊनागरपान॥ भरीसभामेंमारिहैं, सबभूपनकोमान
 ॥ ७ ॥ सखिनयननमेंबसबोकरो, मेरेदिनअरुरात॥ वी
 रभजोरघुबीरको, यांचौंनाहींआन ॥ ८ ॥ सखिराम
 लक्ष्मणदोभ्रातहैं, सीताअधिकसोहाय ॥ तुलसिदा
 सहृदयेधरे, चरणनमहँचितलाय ॥ ९ ॥ ४ ॥

सीतारामविराजहीं, श्रीअवधेशकुमार ॥ महाराजकु
 मार ॥ टैक ॥ सखीक्रीटमुकुटशिरराजही, हीरारतनज
 ड़ाव ॥ द्युतिकुंडलछविराजही, मोतियनकीछविछाय ॥
 ॥ १ ॥ सखीकटिपरपीतलपेटिहै, करमेंशारंगवण ॥
 चितवनमेंचितचौरहै, मानोकंद्रपबाण ॥ २ ॥ सखीसं
 गसखासबरजहीं, सरजूतटकोजात ॥ चपलतुरंगनचा
 वहीं, मोहैंनरअरुनारि ॥ ३ ॥ सखीसुमनबागविचरा ॥
 जहीं, संगमेंचारोंभाई ॥ पवनतनयकरजोरिकै करेमधु
 रीबयार ॥ ४ ॥ सखीब्रह्माविष्णुमहेशहैं, सनकादिक
 चारोंभाई ॥ अस्तुतिकरैकरजोरिकै, विनवोंमेंसन्मा
 न ॥ ५ ॥ सखीकुंभजऋषिअरुआवाहिँ, नारदकरैहैंगान ॥
 रामस्वरूपहृदयधरे, चित्तलियोहैचोराय ॥ ६ ॥ ५ ॥
 आजुमहामंगलमिथिलापुर, घरघरबजतबधाईरी ॥
 टेकारामरूपगुणधामजानकी, सुरनरमुनिसुखदाईरी
 ॥ ७ ॥ चौवाचंदनऔरअरगजा, केसरकीचमचाईरी
 ॥ ८ ॥ घूंघुरवारैअलकवदनपर, मधुकररहेलोभाईरी ॥ ९ ॥

कटिकिंकिणिपगनूपुरबाजें, मुनिमनरहेलोभाईरी ॥४॥
 हर्षदेवसुमनबहुवर्षे, आनंदउरनसमाईरी ॥ ५ ॥ शिव
 ब्रह्माजाकोपारनपावैं, नारदध्यानलगावैंरी ॥६॥ शेष
 सहसमुखरटतनिरंतर, वाकोपारनपावैंरी ॥ ७ ॥ मातु
 सुनयनाकरतआरती, तुलसिदासगुणगायोरी ॥ ८ ॥
 भूपकुमारनदानसखीरी, तातकठिनप्रणठानोरीटेका
 बालमराललालअतिकोमल, अंगपुष्पदलभीनोरी ॥ १ ॥
 प्रेमबिबशजलभरेनयनमें, चुनरी अंचलभीनोरी ॥ २ ॥
 कोइसमुझावेजायपिताको, कौनऐसीमतिदीनोरी ॥ ३ ॥
 कुलिशकठोरपिनाकशंभुको, रावणबलहरिलीनोरी
 ॥४॥ देखतहालबिहालजानकी, नाथधनुषकरलीनोरी
 ॥५॥ तोज्योधनुषसियासुखदीनो, भाँवरिकोसमकीनो
 री ॥६॥ सीताब्याहिअवधपुरआये, दशरथद्रव्यलुटा
 योरी ॥ ७ ॥ याचकसकलअयाचककीने, तुलसिदा
 सबरपायोरी ॥ ८ ॥ ७ ॥

रँगभीनेरघुनाथकुर्वरको, इनगलियनकोइल्यावोरी ॥
 ॥टेका॥ अँटाचदीसबछटानिहारैं, तनकीतपनबुझावो
 री ॥ १ ॥ मिथिलापुरनरनारिनिहारैं घरियककोउबि
 लमावोरी ॥ २ ॥ जरकसपागकेसरियाजामा, पैजनि
 याज्ञमकावोरी ॥ ३ ॥ क्रीटमुकुटमकराकृतकुंडल,
 उरबनमालसोहावोरी ॥४॥ सियासखीगोखनमगजो

हैं, रसभरिगारीगावोरी ॥ ५ ॥ रामसेवकजीकेप्रभुसु
खसागर, हैंसिहँसिकंठलगावोरी ॥ ६ ॥ ८ ॥

रत्नजडितमंडपतरराजै, रघुवरश्यामसलोनारी टेक
मिथिलापुरनरनारिसवनपर, डारिदियोपट्टिनारी
॥ १ ॥ यकश्यामलयकगौरमनोहर, मुनिजनकेमनहर
नारी ॥ २ ॥ सुंदरबदनकमलदललोचन, उरवनमालसो
हवनारी ॥ ३ ॥ चंद्रबदनपरअलकैँझलकैँ, मनहुँनागके
छोनारी ॥ ४ ॥ कृपानिवासकहांलगिवरणों, यहछवि
औरवनोनारी ॥ ५ ॥ ९ ॥

चलोसखीरघुवरछविनिरखैं, रंगभवनहरिआयोरी ॥
॥ टेक ॥ यकश्यामलयकगौरमनोहर, संगमहामुनिआ
योरी ॥ १ ॥ सांचकहोंसखिझूठनबोलों, समाचारसुनिपा
योरी ॥ २ ॥ देशदेशकेभूपतिआये, काहुनचापचढ़ायोरी
॥ ३ ॥ तोन्योधनुषरामनेसजनी, भूपसबैमुरझायोरी ॥
॥ ४ ॥ आईहैसीतासंगसहेली, वरमालापहिरायोरी ॥ ५ ॥
हरेहरेगोवरअँगनालिपाये, मोतियनचौकपुरायोरी ६
हरेहरेबांसनमंडपछायोरी, कंचनकलशभरायोरी ॥ ७ ॥
रामसियादोउचौकमेंबैठे, ब्रह्मावेदउचान्योरी ॥ ८ ॥
रामसियाजीकीफिरतभाँवरी, सखियनमंगलगायोरी
॥ ९ ॥ धनिधनिभाग्यसियाजीतुम्हारे, रामचंद्रवरपायो
री ॥ १० ॥ धनिधनिभाग्यजनकराजाके, दशरथसमधी
पायोरी ॥ ११ ॥ धनिधनिभाग्यनगरवासिनके, रामचं

द्रपुरआयोरी ॥ १२ ॥ रामसेवकजीकेप्रभुसुखसागर,
सबहिंप्राणप्रियपायोरी ॥ १३ ॥ १० ॥

सुभगचालसुंदरअतिप्यारी, भरतराममोहिंभावैरी ॥
॥टेक॥राजादशरथजीकेचारिपुत्रहैं, शोभावरणिनजा
वैरी ॥ १ ॥ रामरुलक्ष्मणभरतशत्रुहन, बेदविमलयश
गावैरी ॥ २ ॥ सरजूकेतीरेखेलरचोहै, सुंदरबाणचला
वैरी ॥ ३ ॥ सरजूअन्हायचलेरघुनंदन, चपलतुरंगनचा
वैरी ॥ ४ ॥ अवधपुरीकीबधूअटाचढ़ि, निरखिपरमसु
खपावैरी ॥ ५ ॥ सुरनरमुनिब्रह्मादिदेवता, इंद्रपुष्पझ
रिलावैरी ॥ ६ ॥ मातुकौशल्याकरतआरती, आनंद
उरनसमावैरी ॥ ७ ॥ रामसेवकजीकेप्रभुसुखसागर, च
रणकमलचितलावैरी ॥ ८ ॥ ११ ॥

सोसुखउमाकहांलगिबरणौं, सीतारामजीअयोध्या
आयेरी।टेक॥बनमेंजायअसुरसंहारे, देवसबैसुखपाये
री ॥ १ ॥ विश्वामित्रकोयज्ञसुफलकियो, काटेपापशिला
केरी ॥ २ ॥ जायजनकपुरधनुषउठायो, भूपसबैमुरझा
येरी ॥ ३ ॥ जानकीहाथलियेवरमाला, रघुवरउपर
हिरायेरी ॥ ४ ॥ सीताब्याहिअवधपुरआए, घरघरबज
तबधाईरी ॥ ५ ॥ लंकाजायकैरावणमान्यो, राजबिभी
षणपायोरी ॥ ६ ॥ पुष्पविमानचढ़ेरघुनंदन, नगरनि
कटहारिआएरी ॥ ७ ॥ सुरनरमुनिब्रह्मादिदेवता, पुष्प
नकीझरिलायेरी ॥ ८ ॥ वर्षतपुष्पदेवमुनिहर्षे, आनंदमं

गलगायेरी ॥ ९ ॥ सीतासहितसिंहासनबैठे, भरत
जीचँवरदुरायेरी ॥ १० ॥ मातकौशल्याकरतआरती,
आनंदउरनसमायेरी ॥ ११ ॥ तुलसिदासहरिरूपनि
हारें, चरणकमलचितलायेरी ॥ १२ ॥ १२ ॥

दशरथसुतअरुजनकनंदिनी, चितवनमेंचितचोरेंरी ॥
॥ टेक ॥ नान्हीनान्हीबूंदपवनपुरवाई, वर्षहिथोरेथो
रेरी ॥ १ ॥ हरिहरिभूमिघटाङ्गुकिआई, सरजूलेतहि
लोरेरी ॥ २ ॥ उपवनबागविहंगमबोले, दादुरमोरच
कोरेरी ॥ ३ ॥ हयदलपयदलगजदलरथदल, कोटिब
नेचहुँओरेरी ॥ ४ ॥ बाजततालमृदंगझांझडफ, शंख
नकीघनघोरेरी ॥ ५ ॥ नागरिनामलियावैपियको, सि
याजीहँसीमुखमोरेरी ॥ ६ ॥ अग्रदासहरिरूपनिहारे
चरणकमलबलिहारी ॥ ७ ॥ १३ ॥

छयछलबीलेराजादशरथजीके राजकुँवरदोउबांकेरी
॥ टेक ॥ क्रीटमुकुटमकराकृतकुंडल, तापरकलंगीरा
खेरी ॥ १ ॥ विश्वामित्रकोयज्ञसुफलकियो, असुरमा
रसुरराखेरी ॥ २ ॥ मारिचमारसुबाहूमारे, काटेपाप
शिलाकेरी ॥ ३ ॥ सखीसयानीमिथिलापुरकी, भाग
उदयभयेवाकेरी ॥ ४ ॥ चारोंकुवरविवाहेराजादशर
थ, अबधपुरीरथहांकेरी ॥ ५ ॥ रामसेवकजीकेप्रभुसु
खसागर, उपमावेदनभाखेरी ॥ ६ ॥ १४ ॥

बांकीचालश्रीराघोजीकी, बांकीचितवनपरबलिहारी

॥टेक॥ बांकीशिरजरकसकीपगिया, बांकीकलुंगीकी
छबिन्यारी ॥ १ ॥ बांकीभालतिलकशिरसोहै, बांकी
अलकैघुंघुरवारी ॥ २ ॥ बांकेहारगलेमोतियनके, बां
कीकुंडलकीछबिन्यारी ॥ ३ ॥ बांकेधनुषबाणकरराजे,
बांकीकछनीमोहिलगेप्यारी ॥ ४ ॥ बांकीचरणकमलकी
शोभा, बांकीनूपुरकीछबिभारी ॥ ५ ॥ रामसेवकजीके
प्रभुसुखसागर, बांकेलक्षमणमोहेनरनारी ॥ ६ ॥ १५ ॥

इति सोमवारके मंगल समाप्त ।

अथ मंगलवारके मंगल ।

रामकृष्णकहियेउठिभोर ॥टेक ॥ ओहिअवधेशओही
व्रजजीवन, धनुषधरनअरुमाखनचोर ॥ १ ॥ इतमेंअ
योध्यानिरमलसरजू, उतयमुनाजलकरतकिलोल ॥ २ ॥
इतमेंदशरथपुत्रकहाये, उतमेंकहायेबाबानंदकिशोर ॥
॥ ३ ॥ इतमेंकौशल्यामैयागोदखेलावै, उतमेंयशोदा
जीझुलावेहिंडोल ॥ ४ ॥ इतमेंक्रीटमुकुटशिरराजे, उ
तमेंमोरमुकुटकोओर ॥ ५ ॥ इतमेंधनुषबाणकरराजे,
उतमुरलीधरेमुखकीओर ॥ ६ ॥ इतमेंचरणअहल्या
तारी, उतकुब्जासेकियोहैकलोल ॥ ७ ॥ इतमेंजानकी
बांयेविराजे, उतराधेसंगयुगलकिशोर ॥ ८ ॥ इतमें
सागरशिलाउतराने, उतगिरिवरधरेनखकीओर ॥ ९ ॥
रावणकेदशमस्तकछेदे, कंसकोमारिकियोझकझोर ॥
॥ १० ॥ इतमेंराजविभीषणदीनो, उग्रसेनकियोअप

नीओर ॥ ११ ॥ नंददासजीकेयेदोउठाकुर, दशरथ
सुतबावानंदकिशोर ॥ १२ ॥ १ ॥

आयेहोसियारघुनंदनआये, अवधपुरीसुखदेनरामर
घुनंदनआये॥टेक ॥ सीतासहितसुमित्रानंदन, औसु
ग्रीवसोहाये॥जामवंतहनुमाननीलनल, औअंगदमन
भाये॥१॥हनुमतआयभरतसोंभेंटे, समाचारसुनिपा
ये॥रावणमारिअसुरसबमारे, राजविभीषणपाये ॥२॥
श्रवणनसुनतभरतउठिधाये, दर्शनपावनपाये॥पाँवन
परतअनुजदोउभेंटे, हरिहँसिकंठलगाये ॥ ३ ॥ पुष्प
विमानदूरतेदेख्यो, एकटकध्यानलगाये॥नौतमनारि
अयोध्यापुरकी, कंचनकलशभराये ॥ ४ ॥ वर्षतपुष्प
देवमुनिहर्षे, गुरुकेआश्रमआये ॥सुरनरमुनिब्रह्मादिदे
वता, नभहुंभुभीबजाये ॥ ५ ॥ पुनिगृहआयमिलेमात
नसों, मोतियनचौकपुराये ॥गृहगृहकेमाणिकबहुबनि
ता, मंगलगावतआये ॥ ६ ॥ मंदिरभीरभईबहुतेरी,
आनँदउरनसमाये ॥ फूलेफिरतअयोध्याबासी, घरघ
रबजतबधाये ॥ ७ ॥ बहुमेवापकवानमिठाई, सीतारा
मकोभोगलगाये॥मातकौशल्याकरतआरती, मनवां
छितफलपाये ॥ ८ ॥ सीतासहितसिंहासनबैठे, भरत
जीचँवरदुराये ॥ तुलसिदासतिहुँलोकअनँदभये, चार
वेदयशगाये ॥ ९ ॥ २ ॥

आयेअवधपुरीअभिराम, रामनिजधामपधारे॥टेक॥

पुण्यपुंजपावनयहनगरी, निरखतहृदयजुड़ाये ॥ जरा
मरणदुखमिटतपलकमें, रामदरशजबपाये ॥ १ ॥ रा
मभक्तिउपजोयहमनमें, दिनदिनआनंदहोई ॥ सुरमु
निसंतताहिपरशंसत, महिमालखेनकोई ॥ २ ॥ कोटिन
अधमगयेहरिपुरको, अवधपुरीतजिदेहा ॥ फेरिकबहुँ
भवजालनआवै, रामचरणपरनेहा ॥ ३ ॥ तुलसीभ
क्तिमुक्तिजोचाहे, अवधकरेसोइबासा ॥ परमधामबै
कुंठ नगरमें, होइहैतासुनिवासा ॥ ४ ॥ ३ ॥

आयेहोकृष्णयदुनंदनआये, मथुरापरीसुखदेन ॥ टंक ॥
गोपनसहितरोहिणीनंदन, औअक्रूरसोहाये ॥ सखामं
डलीराजतमोहन, नटवरभेसबनाये ॥ १ ॥ रथपरबैठच
लेयदुनंदन, सखितनमदनजगाये ॥ विलपतरुदननय
नजलवरसे, विरहअनलतनछाये ॥ २ ॥ गोपीग्वालक
रतकोलाहल, यमुनातटप्रभुआये ॥ सुफलकसुतजबमं
जनकीन्हो, जलविचरूपदिखाये ॥ ३ ॥ उतरतपारब
सनहरिलीन्है, सबहिआपपहिराये ॥ शिरकेतलेतलेके
ऊपर, अद्भुतरूपबनाये ॥ ४ ॥ कुब्जातोचंदनधिसिलाई
चर्चितरुचिरबनाये ॥ परसतचरणरूपभयोअद्भुतरवि
शशिकोटिलजाये ॥ ५ ॥ गजकेदंतउस्वारिकृपानिधि,
दशविधरूपदिखाये ॥ मुष्टिकचाणूरयुगलगहिमारे,
मृगपतिठवनिलजाये ॥ ६ ॥ केशपकरहरिकंसपछारे,
देवनदुंदुभिबजाये ॥ विपुलसुभगशिवनारदशारद, जय

जयकारमनाये ॥ ७ ॥ उग्रसेनकोराजतिलकदियो, यहु
 वर अधिकसोहाये ॥ घुरतनिशानभेरिसहनाई, घरघर
 बजतबधाई ॥ ८ ॥ पुनिगृहआयमिलेजननीपितु, कर
 जोरे शिरनाये ॥ सुरनरवृंदविमलयशगावें, सखियन
 मंगल गाये ॥ ९ ॥ शिवसनकादिआदिब्रह्मादिक,
 अहिपतिपारनपाये ॥ चेतनदासधन्यव्रजदूलह, चार
 वेदयशगाये ॥ १० ॥ ४ ॥

आयेमथुरापुरीसुखदेन, कृष्णअघमोचनआये ॥ टेक ॥
 नंदभवनआनंदभयोहै, निरखतमुखनंदलाला ॥ घरघ
 रगोकुलबजतबधाई, जन्मैमदनगोपाला ॥ १ ॥ यशुमाति
 गौदलियेवनमाली, मंगलगावतनारी ॥ देतअशोसचूंव
 मुखभामिनि, मोहनमदनमुरारी ॥ २ ॥ जाकीदृष्टिप
 रबैनवारी, तेहिनहिभवनसोहाये ॥ देखिसुरासुरपलक
 नटारें, रहेचरणलपटायै ॥ ३ ॥ माधवसमयजानिब्र
 ह्मादिक, गोकुलआयेहैधायै ॥ सुरनरमुनिइंद्रादिदेव
 ता, अस्तुतिकरतबनाये ॥ ४ ॥ ५ ॥

आयेश्यामसुंदररघुनाथ, रामफुलवारीमेंआये ॥ टेक ॥
 विश्वामित्रकोयज्ञसुफलकियो, ऋषिपत्नीमनभाये ॥
 सुरसरिकथाबूझिकौशिकसे, जनकनगरहरिआये ॥ १ ॥
 जयजयकारभयेसुरपुरमें, देवनदुंदुभिबजाये ॥ गुरुअनु
 शासनपायकृपानिधि, तुलसीलेनसिधायै ॥ २ ॥ ते
 हिअवसरसियसखिनसंगलै, सरमंजनकरवाये ॥ हर्ष

समेतपूजिगिरिजाको, मनवांछितफलपाये ॥३॥ एक
 सखीसियसँगसेबिछुरी, रघुनंदनलखिपाये ॥ देखतु
 रूपमगनभईतेहिछिन, आनंदउरनसमाये ॥४॥ तेहि
 पुनिआइकहीसखियनसेदरसलागिअकुलाये।तुलसि
 दासप्रभुसियहिलखाये, सियाजीपरमसुखपाये ॥५६॥
 आयेएकसखीहर्षायकही, दोउनृपसुतआयेआयेहो
 सखीदोउ०।टेकाश्यामगौरकिमिकहौबखानी, कोटि
 मनोजलजाये।क्रीटमुकुटमकराकृतकुंडल, माथेतिल
 कबनाये ॥ १ ॥ सुंदरअधरकपोलनासिका, भृकुटीकु
 टिलसोहाये ॥ सुभगग्रीवमोतियनछबिछाये, धनुषबा
 णमनभाये ॥ २ ॥ उरभृगुलतामनोहरराजे, कटिकिं
 किणीसोहाये ॥ उदररेखत्रिभुवनछबिछाये, चरणनेह
 अनुहारे ॥ ३ ॥ अवतरेरेजगमंगलहेतु, निरखिकैचंद्र
 सुमानभये ॥ हरीदासछबिकहँलगिबरणौं, शेषपारन
 हिपाये ॥ ४ ॥ ७ ॥

आयेमिथिलापुरीसुखदेन, रामकौशिकसँगआये ॥ टे
 क ॥ क्रीटमुकुटमकराकृतकुंडल, उरबनमालसोहाये ॥
 प्रगटतदुरतकरतमगकौतुककौशिकतपनिधिआये १
 मारगचलतताडकामारी, गौतमनारिउधारी ॥ केवट
 तारिसुरसरीउतरे, मगवासिनसुखपाये ॥ २ ॥ मुनिप
 दपूजिराउसन्माने, कौशिककुँवरबोलाये ॥ बालमरा
 लसमानबंधुदोउ, निरखिविदेहपरमसुखपाये ॥ ३ ॥

श्यामवरणसुंदरतनुशोभा, कटितूणीरसोहाये ॥ पीछे
 गौरमनोहरबंधू, शरदइंदुछबिछाये ॥ ४ ॥ केहरिठव
 निचलतदोउढोटा, बीथिनसुगंधसिंचाये ॥ सुनिनर
 नारिहर्षिउठिधाये, निरखिपरमसुखपाये ॥ ५ ॥ मुनि
 अनुशासनपाइबंधुदोउ, सुमनवाटिकाआये ॥ जनक
 सुताबिलोकिरघुवरछवि, गौरीसेवरपाये ॥ ६ ॥ सबभू
 पनकोमानमथनकियो, धनुसर्मापप्रभुआये ॥ तोरेउ
 धनुषभूपसबहारे, देवसुमनझरिलाये ॥ ७ ॥ बाजतताल
 सृदंगझांझडफ, मंजीरासहनाये ॥ जानकीहाथलियेव
 रमाला, रघुवरउरपहिराये ॥ ८ ॥ तोरेउधनुषशब्दभ
 योभारी, भृगुनायकचलिआये ॥ टूटपिनाकदेखितेहि
 अवसर, शुकुटीकुटिलबनाये ॥ ९ ॥ मधुरवचनलक्ष्मण
 परितापे, अनलआहुतीपाये ॥ देतहिधनुषआपुचदिग
 यऊ, बदरीबिपिनसिधाये ॥ १० ॥ मुनिअनुशासनपा
 यजनकनृप, दूतनअवधपठाये ॥ दूतवचनसुनिदशरथ
 हर्षे, नगरनिसानबजाये ॥ ११ ॥ दूतवचनसबभुरतसुना
 ये, पुनिउठिगुरुगृहआये ॥ दूतवचनसबगुरुहिसुनाये,
 पुनिपुरबजतजनाये ॥ १२ ॥ गुरुअनुशासनपायस
 चिवसब, तुरतबरातबनाये ॥ गुरुसमेतदशरथरथचदि
 कै, जनकनगरनियराये ॥ १३ ॥ भरिभरिथारहेमभरि
 भामिनि, रघुबंधिनपहँआये ॥ गावतगीतमनोहरबा
 नी, कोकिलकंठलजाये ॥ १४ ॥ गजमोतियनकेचौक

पुराये, पुष्पनमंडपछाये ॥ रामजानकीफिरतभांवरी,
सखियनमंगलगाये ॥ १५ ॥ रघुवरलक्ष्मणभरतशत्रुहन
चारोंकुँवरबिबाहे ॥ दायजभूरिजनकनृपदीन्हो, दशुर
थबिदाकराये ॥ १६ ॥ मंगलगानकरतनरनारी, आनंद
उरनसमाये ॥ बधुनसमेतबिलोकतजननी, विप्रनदा
नदिवाये ॥ १७ ॥ मातुकौशल्याकरतआरती, त्रिभु
वनमंगलगाये ॥ गिरिधरदासआसरघुवरकी, चारिवेद
यशगाये ॥ १८ ॥ ८ ॥

होयानचढ़ेरघुनंदनआये, हनुमतचँवरदुरायोरी ॥ टेका
जामवंतसुग्रवीवबिभीषण, अरुअंगदमनभायोरी ॥ १ ॥
करतपुनीतदेवसबहर्षे, दंडकबनप्रभुआयोरी ॥ २ ॥ देखि
सियादंडकबनशोभा, ऋषिविचरेभयत्यागेरी ॥ ३ ॥
चरितपुनीतकियेरघुनंदन, अवधनिकटहरिआयोरी
॥ ४ ॥ उतरेपुष्पनिकटसरजूके, रघुपतिआज्ञापाईरी ॥
॥ ५ ॥ चलततृषितअतिगयेसकुचमानो, मरुतसजल
जलआयोरी ॥ ६ ॥ व्याकुलअंधअवधजेहिकारण, उ
दितअरुणहोइआयोरी ॥ ७ ॥ होतअवधआनंदबधा
ई, सुखियनमंगलगायोरी ॥ ८ ॥ सुखअवलोलिलोक
जिहिलाजै, रघुपतिपुरीसुहायोरी ॥ ९ ॥ चरअरुअच
रहर्षयुतजहंतह, रघुपतिकीरतिगायोरी ॥ १० ॥ द्विज
नसहितआयेनृपद्वारे, अग्रदासगुणगायोरी ॥ ११ ॥ ९ ॥
लंकाजीतिरघुनंदनआये, हनुमतदासकहायोरी ॥ टेका ॥

अंजनिनंदनसबजगबंदन,तीनलोकयशगायोरी॥१॥
 बागउजारिसमुद्रविचडारे,जनकसुतासुधिल्यायोरी
 ॥ २ ॥ जोसागरकोगर्वकरतहै,तापरशिलउतरायोरी
 ॥३॥ सेतुबांधिउतरेरघुनंदन,कपिदलकियेसहायोरी
 ॥ ४ ॥ रावणकेदशमस्तकछेदे,राजविभीषणपायोरी
 ॥५॥ पुष्पबिमानचढेरघुनंदन,अवधनगरनियरायोरी
 ॥६॥ नरनारीसबसुकृतमनाएं,रामसियाघरआयोरी
 ॥७॥ सिंहासनसियबैठिरामसंग,द्विजनदानबहुपायो
 री ॥ ८ ॥ तुलसिदासकोभक्तिदानदियो, दीनजानि
 मनभायोरी ॥ ९ ॥ १० ॥

देखोरीदोउदशरथनंदन,नगरअयोध्याआयोरी॥टे
 का॥पुष्पबिमानचढेरघुनंदन,भक्तविभीषणसाथेरी ॥
 ॥ १ ॥ लक्ष्मणसहितअयोध्याआये,जानकीबांयेअं
 गेरी ॥ २ ॥ हनूमानसेपायकजिनके,लंकाजीतिघर
 आयेरी ॥ ३ ॥ चरणधोयचरणामृतलीनो,सिंहासन
 बैठायेरी ॥ ४ ॥ सीतासहितसिंहासनबैठे,भरतजीचँ
 वरदुरावैरी ॥५॥ सुरनरमुनिब्रह्मादिदेवता,पुष्पनकी
 झरिलयेरी ॥ ६ ॥ नगरअयोध्याहोतकोलाहल,शो
 रभयोअतिभारीरी ॥ ७ ॥ बिप्रनकोबहुदानदियोहै,
 अखिलभँडारलुटायोरी ॥ ८ ॥ फूलेभरतशत्रुहनभाई,
 फूलीकौशल्यामाईरी ॥ ९ ॥ माधवदाससंतजनफूले,
 आनंदउरनसमाईरी ॥ १० ॥ ११ ॥

जलकैसेभरूसरजूगहिरी, सन्मुखराजारामजीखडे ॥
 टेका। अवधनगरसेचलीमेरीसजनी, हाथघड़ाशिरपर
 डूँडुरी ॥ १ ॥ अपनेअपनेभवनतेनिकसीं, कौउश्यामल
 कौउहैगोरी ॥ २ ॥ ठाढ़ेभरोंमोहिलाजलगतिहै, बैठिभरों
 भीजेचुनरी ॥ ३ ॥ रघुवरलक्ष्मणभरतशत्रुहन, सन्मुख
 हैहनुमानबली ॥ ४ ॥ धीरेचलोंमोहिंवारलगतहै, ठुमक
 चलोंछलकेगगरी ॥ ५ ॥ रामसेवकजीकेप्रभुसुखसा
 गर, चेरीहोकेचरणपरी ॥ ६ ॥ १२ ॥

सखीरामजीअयोध्याआये, आजमहामंगलकोसलपु
 र ॥ टेक ॥ पुष्पविमानचढ़ेरघुनंदन, भक्तबिभीषणसा
 थे ॥ १ ॥ नगरअयोध्याहीतकोलाहल, घरघरबजतब
 धाई ॥ २ ॥ हनुमानसेपायकउनके, लंकाजीतघरआ
 ये ॥ विप्रनकोबहुदानदेतहै, अखिलभंडारलुटाये ॥ ४ ॥
 फूलेभरतशत्रुहनफूले, फूलीकौशल्यामाई ॥ ५ ॥ सी
 तासहितासिंहासनबैठे, भरतजीचँवरदुराये ॥ ६ ॥ मा
 धवदाससंतसबफूले, आनंदउरनसमाये ॥ ७ ॥ १३ ॥
 लंकाजीतिघरआये, रघुपतिरणधीर ॥ टेक ॥ साखजी
 मवंतसुग्रीवहैनल, अंगदहनुमतवीर ॥ अवधनगरआ
 नंदभये, सरजूनिर्मलनीर ॥ १ ॥ सखीसुवरनकलश
 सँवारिये, पुरजनकीबहुभीर ॥ सखियनमिलिमंगलगा
 इये, सुंदरसुभगशरीर ॥ २ ॥ सखीरत्नसिंहासनसोह
 हों, सुखसागरक्षीर ॥ बामेंअंगजयजानकी, दहिनेल

क्षमणवीर ॥ ३ ॥ सखीसुरनरमुनिजयजयकारकरें,
सबवर्षसुरबरफूल ॥ सरजूदासशरणगये, सुमिरेश्रीर
घुवीर ॥ ४ ॥ १४ ॥

इति मंगलवारके मंगल समाप्त ।

अथ बुधवारके मंगल ।

राधामोहनरूपनिहारो ॥टेक॥ छोटेभैयाकृष्णबड़ेबल
दाऊ, चंद्रवंशउजियारो ॥ १ ॥ मोरमुकुटमकराकृतिकुं
डल, पीतांबरपटवारो ॥ २ ॥ हलधरगिरिधरमदनमनो
हर, यशुमतिनंददुलारो ॥ ३ ॥ शंखचक्रगदापद्मवि
राजें, असुरनभंजनहारो ॥ ४ ॥ यमुनाकेनोरेतीरेधेनु
चरावें, ओढ़ेकामरकारो ॥ ५ ॥ निर्मलजलयमुनाजीको
कीन्हो, नागनाथलियोकारो ॥ ६ ॥ इंद्रहुकोपचढ़योत्र
जऊपर, नखपरगिरिवरधारो ॥ ७ ॥ कनकासहासनय
दुवरबैठे, कोटिभानुउजियारो ॥ ८ ॥ मातयशोदाक
रतआरती, बारबारबलिहारो ॥ ९ ॥ सूरदासहरिरूप
निहारो, जीवनप्राणहमारो ॥ १० ॥ १ ॥

परमधामगोलोकछोड़िकै, बृंदावनहरिआयोरी ॥टेक॥
कृष्णजन्मवसुदेवदेवकी, नंदभवनपहुँचायोरी ॥ १ ॥
धनिबड़िभाग्यनंदयशुमतिके, जासुपरमसुखपायोरी
॥ २ ॥ फूलेफिरतसकलव्रजवासी, आनंदउरनसमायो
री ॥ ३ ॥ खबरभईजबकंसरायको, पुतनाबेगिपठायोरी
॥ ४ ॥ मारनआईआपुनसाई, जननीकीगतिपायो

री ॥ ५ ॥ शिवसनकादिआदिब्रह्मादिक, देवनदुंदुभि
बजायोरी ॥ ६ ॥ चंद्रसखीभजुबालकृष्णछवि, हरिके
चरणसुखदाईरी ॥ ७ ॥ २ ॥

आजुसखीनंदनंदनप्रगटे, गोकुलबजतबधाईरी ॥ टेक
रोहिणिनक्षत्रमासभादोंकी, योगलग्नतिथिआईरी ॥

॥ १ ॥ गृहगृहसेसबबनिताबनिकै, मंगलगावतआईरी ॥

॥ २ ॥ जोजैसेतैसेउठिधाई, आनंदउरनसमाईरी ॥ ३ ॥

चौवाचंदनऔरअरगजा, दधिकोकीचमचाईरी ॥ ४ ॥ य

मलाअर्जुनवृक्षउपारे, यशुमतिसुतउरलाईरी ॥ ५ ॥ बंदी

जनगंध्रबगुणगावैं, शोभावरणिनजाईरी ॥ ६ ॥ चंद्रस

खीभजुबालकृष्णछवि, चरणकमलचितलाईरी ॥ ७ ॥ ३

आजुमहामंगलगोकुलमें, कृष्णचंद्रहरिजन्मालियेटेक

मथुरामेंहरिजन्मालियोहै, जगतपहरुवासोइगये ॥ १ ॥

जननीजायेजलअन्हवाये, लैबसुदेवकीगोददये ॥ २ ॥

लैबसुदेवचलेगोकुलको, उमगिकैयमुनाचरणलये ॥ ३ ॥

भादोंमासरैनिअंधियारी, शेषनागफनफेरिरहे ॥ ४ ॥

लैबसुदेवपौरभयेठाढ़े, हर्षियशोदामैयागोदलये ॥ ५ ॥

उलटीरीतिभईगोकुलमें, कन्यादेकेपुत्रलये ॥ ६ ॥ सूर

दासहरिरूपनिहारे, नंदकेघरआनंदभये ॥ ७ ॥ ४ ॥

आजुमहामंगलगोकुलमें, कृष्णचंद्रअवतारलियेटेक

गृहगृहसेसबगोपीआई, मधुरेसुरसेगानकिये ॥ १ ॥ मार

णकारणचलीपूतना, दूधपियतहरिप्राणलिये ॥ २ ॥ अ

घासुरमारिबकासुरमारे, दावानलकोपालकिये ॥३॥ य
मलाअर्जुनवृक्षउपारे, यादवकुलकोतारिलिये ॥ ४ ॥
पैठिपतालकालियानाथे, फणपरनृत्यकरायलिये ॥५॥
सातदिवसगिरिनखपरधारे, इंद्रहुकोमदमारिलिये ॥६॥
केशपकरिहरिकंसपछारे, उग्रसेनकोराजदिये ॥ ७ ॥
चंद्रसखीभञ्जुवालकृष्णलुबि, चरणकमलचितलाय
लिये ॥ ८ ॥ ५ ॥

आञ्जुसखीश्रीनंदमहरघर, आनंदबजतबधाईरी।टेक
प्रगटभयेगोपाललालजी, संतनकेसुखदाईरी ॥१॥ गृह
गृहसेसबगोपग्वालिनी, मंगलगावतआईरी ॥ २ ॥ बा
जाबिविधनंदगृहबाजे, ढोलमृदंगसहनआईरी ॥ ३ ॥
दधिद्वारोचनफलफूला, केशरकीचमचाईरी ॥ ४ ॥
जयजयकारभयोसुरपुरमें, इंद्रपुष्पझरिलाईरी ॥ ५ ॥
शिवब्रह्माजाकोपारनपावैं, नारदध्यानलगाईरी ॥६॥
सूरदासहरिरूपनिहारे, बेदविमलयशगाईरी ॥७॥ ६॥
आञ्जुमहामंगलगोकुलमें, पुत्रयशोमतिजायोहो।टेक।
पूजेसकलमनोरथमनके, भयोआनंदमनभायोहो ॥
गावतचलीसकलव्रजबनिता, नंदभवनचलिआयो
हो ॥ १॥ पांयलागिउठिआदरकीन्हो, यशुदानिकट
बुलायोहो ॥ नामकरणशुभधरोगर्गजू, रोचनद्रव्यमँ
गायोहो ॥ २ ॥ गुरुजनपुरजनसकलसंतजन, सबको
सीसनवायोहो ॥ घरीनक्षत्रभरेशुभनीके, यासुनिसब

अनुरागेहो ॥ ३ ॥ धन्यधन्यनरनारिगोपकहि, नंदप
 रमबड़भागीहो ॥ वासुदेवभगवानकृष्णजू, नामतुम्हा
 रोगायोहो ॥ ४ ॥ नामअनंतकहांलगिबरणौं, वर्णत
 पारनपायोहों ॥ नाचतगोपकुलाहलपुरमें, भीरनका
 हुसमायोहो ॥ ५ ॥ देखतअमरविमाननचढ़िचढ़ि, आंग
 नबजतबधाईहो ॥ यासुनिमुनिनविरतिविसराई, हम
 नभयेव्रजवासीहो ॥ ६ ॥ जाकारणहमजपतपकीन्हो
 प्रगटभयेअविनासीहोदेतअसोसपसारतअंचलचिरं
 जीवनंदलालाहो ॥ ७ ॥ कंसवधेभूभारउतारे, तीनलोक
 सुखदाईहो ॥ मानदासप्रभुकेगुणगावे, बारबारबलि
 हारीहो ॥ ८ ॥ ७ ॥

आजुमहामंगलगोकुलमें, ढोटायशुमतिजायोरी ॥ टेक
 जाकोध्यानधरतब्रह्मादिक, नंदमहरघरआयोरी ॥ १ ॥
 बाजाबिबिधनंदगृहबाजें, घरघरशब्दसुनायोरी ॥ सु
 निमुनिनगरनारिनरधाये, तनमनअतिपुलकायोरी ॥
 ॥ २ ॥ वरवरविप्रबोलसबलीने, जन्मकर्मकरवायोरी ॥
 विधिवतकरिनवग्रहकीपूजा, देवनसबनमनायोरी ॥ ३ ॥
 दधिदूर्वारोचनफलफूला, केसरकीचमचायोरी ॥ जय
 जयकारभयोसुरपुरमें, इंद्रपुष्पझरिलायोरी ॥ ४ ॥ शि
 वब्रह्माजाकोपारनपावैं, नारदध्यानलगायोरी ॥ सूर
 दासहरिरूपनिहारे, बेदबिमलयशगायोरी ॥ ५ ॥ ८ ॥
 आजुकहांतेयागोकुलमें, अद्भुतवर्षाआईरी ॥ टेक ॥

मणिगणहारहेमकीधारा, ब्रजपतिअतिउरलाईरी ॥ १ ॥
 वाणीविमलपद्मद्विजद्वारे, होयहर्षअधिकआईरी ॥ २ ॥
 दधिघृतक्षीरनीरनानारँग, बहिचलपारपनारेरी ॥ ३ ॥
 घुमरिनिशानभेरिसहनई, महागरजकीघोरेरी ॥ ४ ॥
 मागधसूतबंदीजनचातक, बोलतबंदीभोरेरी ॥ ५ ॥ आ
 नंदभरेनचहिनरनारी, पहिरिरंगरँगसारीरी ॥ ६ ॥ ब
 रनबरनबादरदलबैठे, विघुटतन्यारीन्यारीरी ॥ ७ ॥
 भूषणवसनअमौलनंदजू, नरनारिनपहिरायोरी ॥ ८ ॥
 शाखादलफलफूलनिआने, उपवनझालरिआईरी ॥ ९ ॥
 दारिददवनमिलोहैसवनको, याचकसरवरपूरेरी ॥ १० ॥
 बादीसुभगसुयशकीसरिता, दुरिततीरतरुचेरेरी ११ उ
 रलख्योमालबालपकमोती, भयोसवनभनफूलेरी १२
 दायाहितअकुलातगदाधर, ताकेचरणकेभूलेरी १३ १
 मदनमोहनजीसेलगनलगीहै, यातनडारुंमैवारी टेक
 करुणासिंधूहैजगबंधू, संतनकेहितकारी ॥ १ ॥ मोर
 मुकुटपीतांबरसोहै, कुंडलकीछबिन्यारी ॥ २ ॥ गलेसोहै
 बैजंतीमाला, निरखतराधाप्यारी ॥ ३ ॥ यमुनाकेनी
 रतीरेधेनुचरावैं, ओढैंकामरिकारी ॥ ४ ॥ पैठिपताल
 कालियानाथ्यो, निरतकरतगिरिधारी ॥ ५ ॥ इंद्रहुकोपि
 चढ़ेब्रजऊपर, नखपरगिरिवरधारी ॥ ६ ॥ वृंदावनकीकुं
 जगलिनमैं, मोहननिरतैगिरिधारी ॥ ७ ॥ चंद्रसखीभ
 जुबालकृष्णछबि, चरणकमलबलिहारी ॥ ८ ॥ १० ॥

सुंदरबदनकुँवरिकाहूकी, नितदधिबेंचनआवै॥टेक॥
 कबहुँकआवैदहीलुटावै, कबहुँकमुखलपटावै ॥ १ ॥
 कबहुँकमुसलीछीनलेतहै, कबहुँकआपुबजावै ॥ २ ॥
 कबहुँपीताम्बरछीनलेतहै, कबहुँकआनिओढावै॥३॥
 चंद्रसखीभजुबालकृष्णछवि, यहलीलामोहिँभावै ॥
 ॥ ४ ॥ ११ ॥

चलोसखीवृंदावनचलिये, मोहनबेणुबजावेरी ॥टेक॥
 बेणुसुनतब्रह्मादिकमोहे, बेदपदननहिँपायेरी ॥२॥ बे
 णुसुनतशिवशंकरमोहे, ध्यानधरननहिँपायेरी ॥२॥बे
 णुसुनतइंद्रादिकमोहे, राजकरननहिँपायेरी ॥३॥बेणु
 सुनतसुरनरमुनिमोहे, भजनकरननहिँपायेरी ॥ ४ ॥
 बेणुसुनतयमुनाजीमोहीं, नीरबहननहिँपायेरी ॥ ५ ॥
 बेणुसुनतगौबछरामोहे, दूधपियननहिँपायेरी ॥६॥ बे
 णुसुनतव्रजवनितामोहीं, झुंडझुंडउठिधायेरी ॥७॥बे
 णुसुनतसबगोपीमोहीं, घरअंगनानसुहायेरी ॥ ८॥बे
 णुसुनतखगपंछीमोहे, चुगाचुगननहिँपायेरी ॥९॥चंद्र
 सखीभजुबालकृष्णछवि, हरिचरणनचितलायेरी ॥
 ॥ १० ॥ १२ ॥

मोरमुकुटबंसीवारेने, मनमेरोहरिलीनो ॥टेक॥मंदिर
 सेयकसुंदरिनिकसी, ओढ़िपीतांबरझीनो ॥रत्नजडि
 तसिरइँडरोसोहै, यमुनामारगलीनो ॥१॥ मैयमुनाज
 लभरनजातती, बीचमिलोरँगभीनो ॥ मोहिँदेखिमुस

कातसांवरो, चितवनमें कछुकीन्हो ॥२॥ विमनभई ज
लभरनबिसरिगई, घड़ाधरणिधरिदीनो ॥ लोकलाजकु
लकीमरजादा, तनमनअर्पणकीनो ॥३॥ वृंदावनकी
कुंजगलिनमें, ग्वालिनिसगराकीनो ॥ ग्लालवालसव
सखाकृष्णके, दानदहीकोलीने ॥४॥ कृपासखीभईरू
पदिवानी, प्रेमसुधारसपीनो ॥ श्रीगोपालहृदयमहँध
रिकै, जन्मसुफलकरिलीनो ॥ ५ ॥ १३ ॥

गागरियाजिनफोरौलालजी, मैतोहिदँउंगीगारी।टेक
हमयमुनाजलभरनजातरही, बीचमिलेगिरिधारी १॥
गगरीफोरीवैयांमरोरी, मोतियनकोलरतोरी ॥२॥ले
करचीरकदमचढ़बैठै, हमजलमांझउधारी ॥ ३ ॥ चीर
तुम्हारीजबहमदेगै, जलसेहोजावन्यारी ॥४॥ जलसे
न्यारीकैसेहोगी, तुमहोपुरुषहमनारी ॥५॥ पुरइनिपात्र
पहिरिराधानिकसी, कृष्णहसेदेतारी ॥ ६ ॥ मथुराके
सबलोगहँसतहैं गोकुलकीब्रजनारी ॥७॥ तुमतोढो
टानंदरायके, हमवृषभानुदुलारी ॥८॥ जायपुकारों
कंसरायसे, भूलजावोचतुराई ॥९॥ चंद्रसखीभजुवा
लकृष्णछवि, तुमजीतेहमहारी ॥ १० ॥ १४ ॥

इति बुधवारके मंगल समाप्त

जैवनकी गारी (राजभोग) प्रारंभः ।

प्यारीप्रेमलुभानी, प्रियाजीपरमसुखपाइयां ॥ टेक॥
आज्ञाप्रभुपाऊं, रुचिकरिबिंजनबनाइयां ॥१॥ हलुआ

सरससुहारी, मूंगभातफुलकारियां ॥ २ ॥ घृतकरपाक
 मिठाई, खाझाखुरमाजलेबियां ॥ ३ ॥ दूधदहीलेआऊं,
 भाजीअनेककटोरियां ॥ ४ ॥ रुचिरथारसँवारूँ, आ
 नधरौंप्रभुआगियां ॥ ५ ॥ जेंओप्रभुप्यारे, देतसखीस
 बगारियां ॥ ६ ॥ निर्मलजलसरजू, रत्नजड़ावकीझा
 रियां ॥ ७ ॥ आचमनप्रभुकीजे, रंगमहलपगधारियां ॥
 ८ ॥ रुचिरसेजसवारूँ, रत्नजड़ावकीसेजियां ॥ ९ ॥
 जापरहरिपौदावूँ, करगहिविजनाडोलइयां ॥ १० ॥
 चापूपांवलालके, हितकरिबिरियांपाइयां ॥ ११ ॥ हँसि
 बोलेप्रीतमप्यारे, नैनसेनैनमिलाइयां ॥ १२ ॥ जबनि
 द्राड्युकिआई, ब्रह्माविष्णुमहेशियां ॥ १३ ॥ जागेसोई
 पावे, मुकुंददासबलिजाइयां ॥ १४ ॥ १ ॥
 चरणकमलबलिहारी, रघुनाथकुंवरकी ॥ टेक ॥ दशरथ
 सहितऔरनृपबैठे, आदरचरणपखारी ॥ १ ॥ जैवन
 बैठेराजादशरथ, बामेदहिनेसुतचारी ॥ २ ॥ रत्नजड़ि
 तमणिकनककटोरा, षट्सभोगलागाये ॥ ३ ॥ छविं
 निहारिरनिवासमुदितभये, देतपरस्परगारी ॥ ४ ॥ ती
 नसौसाठमातुरघुवरकी, सोवाहिकनकअटारी ॥ ५ ॥
 सत्यसुकृतकैसेकरिनिबहै, वर्षदिननकीबारी ॥ ६ ॥
 तीनसौसाठमातुरघुवरके एकपुरुषकीनारी ॥ ७ ॥ ता
 मेएकजनकजीकीदीजे, होइहैसुयशतुम्हारी ॥ ८ ॥ जब
 बोलेदशरथपुरोहित, सुनहुजनकजीकीनारी ॥ ९ ॥ गा

रीकैसेदेहुमेरेरामजीललाको, बोलहुबचनसँवारी १०।
 जोचाहोसोलेहुपरीक्षा, राखहुअपनीअटारी ॥ ११ ॥ नि
 र्मलजलसरजूजीकोअँचवन, रत्नजड़ावकीझारी ॥ १२
 करिअँचवनसिंहासनबैठे, राजतअवधविहारी १३।
 हितकरिवीराजानकीलाई, देतहैंहाथपसारी ॥ १४ ॥ तु
 लसिदासऐसीछबिरघुबर, हर्षितगातनिहारी १५। २
 मिलिजैवतजानकीरामजी, सखीहरखेनिरखेमिथि
 लापुरकी ॥ टेक ॥ पंचशब्दबाजंत्रबजावें, गारीगावतपं
 चमसुरकी ॥ १ ॥ जनकभवनमेंडारिडुलीचा, ओटकरी
 पीतांबरकी ॥ २ ॥ कुँवरिकुँवरगारीदेत, परनारीहँसीनृ
 पकेकुलकी ॥ ३ ॥ श्रीलालजीमंदमंदमुसक्याने, सिया
 लाड़िलीघुंघटमेंमुसकी ॥ ४ ॥ जोउरझेसुरझेनपरेंआ
 ली, मोहनिदृष्टिपरीउनकी ॥ ५ ॥ हासविनोदसुधारस
 सींचत, आनंदबेलबढीउनकी ॥ ६ ॥ चारोंभैयामिलिजै
 वनबैठे, रायजनकजोरीनिरखी ॥ ७ ॥ क्रीटमुकुटमक
 राकृतिकुंडल, श्यामघटाबिजुलीचमकी ॥ ८ ॥ रत्नसिं
 हासनरघुवरबैठे, मोतियनकीकलंगीझलकी ॥ ९ ॥ ग
 रुड़विमानचढ़ेंसुरहर्षे, पुष्पनकीवरषाबरसी ॥ १० ॥
 अग्रदासबलिजातसुनयना, बारबारसीतावरकी ॥
 ॥ ११ ॥ ३ ॥

भोजनसमयजानिमिथिलापति, दशरथबोलिपठाये
 जू ॥ टेक ॥ सुतनसमेतसंगप्रियपरिजन, द्विजनसहितनु

पआयेजू॥ सहितसनेहजनकनृपभेंटे, नृपमंदिरलैआये
 जू॥ कनककलशभरिलियेगंगाजल, निजकरपांवपखा
 रेजू ॥ चंदनचौकीसुठिसुंदर, तापरनृपवैठायेजू ॥
 जनजनप्रतिकंचनकीथारी, जनप्रतिविपुलकटोरैजू ॥
 व्यंजनविबिधपरोसनलागे, चतुरसुआरनथोरैजू॥ खा
 झाखुरमातपतजलेबी, पापरपुआसोहारीजू ॥ खोवा
 खांडचिरौंजीपेड़ादूधदहीलैआयेजू॥ झुमकिझुमकिप
 रसतदोउओरी, झुंकिझुंकिझांकतनारीजू॥ भोजनचा
 रिप्रकारसुधारे, षट्सस्वादसोहायेजू ॥ पंचकवरकरि
 जैवनलागे, देतनारिसबगारीजू ॥ उमारमाशारदब्रह्मा
 णी, सुरबनितापुरनारीजू॥ निरखिराममुखकमलमहा
 सुख, पावतगारीगायेजू ॥ लैलैनामपुरुषमिथिलापुर,
 अवधपुरीकीनारीजू॥ लैलैनामजनकराजाके, नृपदश
 रथकीनारीजू ॥ गारीतुमहिंसुनाईभूपति, गारीपरम
 सोहाईजू ॥ सुनिमहिपालबिलगजिनिमानो, कहियेबा
 तबनाईजू ॥ सुंदरिसुखदसुशीलसुलोचनि, सुरपतिना
 रिपियारीजू॥ तुमगोरेकौशलयागोरी, श्यामकुंवरकैसे
 जायेजू॥ तरुणीबैसनहींसुतउपजे, मखहितमुनिहिंबो
 लायेजू॥ भीतरभवनमहामुनिराखे, तिनऐसेसुतजाये
 जू॥ रामजीकीमातुभरतजीकीजननी, दोउमुनिनयन
 लगायेजू॥ पतिदेवतासुमित्रारानी, तिनकेबालकगोरे
 जूयद्यपितुमसमरथसबलायक, सुरपतिसखाकहायेजू

जनकरायजीकीकन्याव्याही, ऐगुनसकलदुरायेजू॥स
 हितसमाजहँसतनृपदशरथ, रसरसभोजनपायेजू॥स
 हितरामसुनिबचनव्यंगयुत, प्रेमसुधारससानेजू॥हास
 बिलासपरस्परसुनिसुनि, बिनुगथमोलविकायेजू॥भो
 जनकरिउठिअँचवनकीन्हो, पानसुभगशुचिपायेजू॥
 द्वौजनप्रीतिपुनीतदेखिकै, तुलसिदाससुखपायेजू ४।४
 जादिनरामजनकपुरआये, देखनधाईसबसखियाजू॥
 ॥टेक॥कोउसखिठाढीकोउसखिवैठी, कोउसखिफिर
 तादिवानीजू॥१॥ अशनबसनसबभूलिगईहैं, उरजकि
 रहींचितवनियाजू॥माथेमुकुटगलेबैजंती, विप्रचरण
 सोहनियाजू॥जनकभवनमेंकनकबेदिका, बीचहिरा
 खिचमनियाजूजेंवनबैठेहैंचौभाई, पियरिपहिरिपरद
 नियाजू।पीतांबरकेओढ़ेदुपाटा, हाथनपंचरतनिआजू
 कदलीखंभकलशगंगाजलदीपकधरेकमनियाजू।कटि
 केहरिऐसेपतरीकमरीनाभीगहिरिगुमनियनाजूसुआ
 कीसीचोंचनासिकासोहै, रत्नजडावझुलनियाजू।सीस
 फूलमुक्ताकीशोभा, बैदीगूंथीहैनगिनियाजू॥सारीसबु
 जकुसुमकेलहिँगा, अँगियाकेसरतनियाजू।दुइदुइचबि
 चौतनियासोहैं, मंदरचीहैअँगुसियाजू॥अम्मधवरस
 मपहुँचीसोहै, बाजाअधिकलवनियाजू॥अष्टरतनकी
 डोरीसोहैं, घूँघुरअधिकबजनियाजू॥गारीगावैप्रेमपि
 यारी, सारीसरहजिनियाजू॥श्रीरामललाजीकीमातु

कौशल्या, सबरनियानशिरोमनियाजू॥ लषनलालजी
कीमातुसुमित्रा, कोकहिसकैबखनियाजू ॥ भरतलाल
जीकीमातुकैकेई, उनपटतरनहिरनियाजू॥ तीनसैसा
ठिराममातुतुम्हारे, एकपुरुषकीरनियाजू॥ नितप्रतिध
र्मरहतहैकैसेबरिसदिवसकीपरियाजू॥ तामें एकजनक
जीकोदीजे, सेवाकरनहँसनियाजू॥ तबउठिकैउपरोहि
तबोलेसुनहुजनकजीकीरनियाजू॥ राजादशरथजीकी
लेहुपरीक्षा, राखोअपनीमहलियाजू॥ भोजनकरिउठि
अँचवनकीन्होपानसुभगशुचिपायेजू । तुलसिदासआ
सीससियाबर, भक्तिसुरहैनिधनियाजू ॥ ५ ॥ ५ ॥

आरोगोरघुवीरमहाप्रभु, आरोगो० ॥ टेक ॥ प्रफुलितहो
यपरोसेजननी, ढोरतशीतलसमीर ॥ १ ॥ कनकथारम
णिजड़ितकटोरा, मेवामिठाईअरुखीर ॥ २ ॥ छुप्पन
भोगछतीसोव्यंजन, नानाविधिकोसीर ॥ ३ ॥ रघुवर
लक्ष्मणभरतशत्रुहन, राजतचारीवीर ॥ ४ ॥ जनकसु
ताझारीभरिलाई, सरजूकोनिर्मलनीर ॥ ५ ॥ चोवाचंद
नमिलिकेसरघोरी, चरच्योश्यामशरीर ॥ ६ ॥ अचवन
करकेबीरीलीजे, गावतदासकबीर ॥ ७ ॥ ६ ॥

आरोगोनरसिंहमहाप्रभु, आ० ॥ टेक ॥ नारदमुनिपन
वारोल्याये, जनभरिल्यायेश्रीगंग ॥ १ ॥ लक्ष्मीजी
भोजनआपसुधारे, मनमेंकरतअनंद ॥ २ ॥ छुप्पनभो
गछत्तिसोव्यंजन, नानाविधिकेरंग ॥ ३ ॥ भावप्रीति

करिभोजनकीजे, तुममेरोप्रानआनंद ॥४॥ अंतरघट
केअंतरजामी, सबविधिजाननहार ॥५॥ आरतिसाज
इंद्रलैआवे, खोलदियोपटद्वार ॥ ६ ॥ सनकसनंदनचँ
वरदुरावैं, गारीगावतदासअनंद ॥७॥ ७॥

मिलिजेंवतलाडिलिलालदोऊषटव्यंजनचारसबैसर
से॥टेक॥मनमेंरसकीरुचिजोउपजै, सखीमाधुरीकुंज
सुधावरसे ॥१॥ हटकेमनमोहनहाररहे, बटहाथजिमा
वतकोतरसे ॥ २ ॥ करकंपतबीचहिछटिपरे, कवहूंगर
सासुखलौंपरसे ॥ ३ ॥ सखिसौजलियेचहुँओरखड़ी,
हरखेंनिरखेंदरसेपरसे॥४॥सुखसिंधुअपारकह्योनपेर,
अवशेषसखीहरिबंशलसें ॥ ५ ॥ ८ ॥

मिलिजेंवतरामजनकमंदिरमें, सबमिलिनारिजिमावें
जू॥टेक॥चरोवीरथारमिलिएकै, कवरलेतसुखपावेंजू
॥ १ ॥ नवलबंधुनवनेहनेहसों, कुलबधुसबैजुरिआवेंजू
॥ २ ॥ कुंवरनिनिरखतअतिमनहरखत, रसभरिगारी
गावेंजू ॥ ३ ॥ शेषमहेशनिगमनारदमुनि, उनहुकेध्या
ननआवेंजू ॥ ४ ॥ जनहरियात्रियाधन्यजनकपुर, हँसि
हँसिलाडलड़ावेंजू ॥ ५ ॥ ९ ॥

बैठेलालाकुंजनमें, जोपावोश्यामाश्याम॥भावतिजो
रीअपनेहाथजिमावो ॥टेक॥दूधपकान्नमिठाईमेवा,
रुचिरुचिभोगलगावो ॥ १ ॥ सखासहितहरिजेंवनबै
ठे, बेदविमलयशगावो ॥ २ ॥ चंदनचर्चीपुष्पकीमाला

हरखिनिरखिपहिरावो ॥ ३ ॥ श्रीभटदेतपानकीबीरी
युगलचरणचितलावो ॥ ४ ॥ १० ॥

नंदनंदनजीको, भोगलगे ॥टेक॥ महाशंखध्वनिघंटा
बाजे ॥ १ ॥ अमृतभोक्ताश्रीयदुराई, छप्पनभोगश्रील
क्ष्मीजीलाई ॥२॥ सत्यभामाजीनेवताकीन्हो, हरिहल
धरजीकोनेवतादीन्हो ॥३॥ चंदनकेजलभवनीसंचाये,
सखासहितहरिजैवनआये ॥४॥ दूधदहीपकान्नमिठाई,
छप्पनभोगजीमेंदोउभाई ॥ ५ ॥ छप्पनभोगछतीसो
व्यंजन, रुचिरुचिसोंजैवैयदुनंदन ॥ ६ ॥ सागपात
जोजिनकेहोई, अमृतकरिजैवैहरिसोई ॥७॥ हरिजैवैह
रिजनयशगावै, ललिताविशाखाचँवरदुरावै ॥८॥ जन
नामदेवद्वारेयशगावै, सोहरिकोपनवारोपावै ॥९॥ ११॥
भोजनकीजेसीताराम, सारग्राहीभावग्राहीप्रीतग्राही
राम ॥टेक॥ दक्षिणलक्ष्मणअनुजशोभित, जनकसुता
लियेवाम ॥ १ ॥ पवनसुततोसन्मुखबिराजे, रटतनि
शिदिननाम ॥ १ ॥ चारौविधिसोंभोजनलीजे, रुचि
रुचिअभिराम ॥ ३ ॥ मेवामिसिरीपाँपचावल, खोवा
द्राखबदाम ॥ ४ ॥ भक्तहेतुआरोगियेप्रभु, सकलपू
रनकाम ॥ ५ ॥ दासविठ्ठलदर्शनपावै, परमकरुणा
धाम ॥ ६ ॥ १२ ॥

रामजीप्रसादीपावोपवनसुत, रामजी० ॥टेक॥ पूरब
पश्चिमउत्तरदक्षिण, चारोदिशासेआवो ॥ १ ॥ जहज

हँभोगलगेरघुवरको, श्रवणसुनतउठिधावो ॥ २ ॥ शि
 वसनकादिआदिब्रह्मादिक, सबमिलिकेवरतावो ॥ ३ ॥
 खट्टेमीठेऔरचरपरे, रुचिरुचिभोगलगायो ॥ ४ ॥ ले
 लेनामसकलव्यंजनको, आपनमेंवरतायो ॥ ५ ॥ जो
 कनिकाकोब्रह्मादिकललचें, शंकरध्यानलगावें ॥ ६ ॥
 श्रुतकीरतिउभिलामांडवी, सरजूजलअँचवावें ॥ ७ ॥
 जनकसुताअपनेबालमको, शीतलपवनदुरावें ॥ ८ ॥
 तुलसिदासछविदेखिमगनभये, चरणकमलचित
 लावें ॥ ९ ॥ १३ ॥

इति जेवनकी गारी समाप्त ।

अथ आचमनप्रारंभः ।

अँचवनकरत, किशोरकिशोरी ॥ टेक ॥ कोउसखीप्रभु
 कोझारीभरिलाई, कोउखरिकलैदौरी ॥ १ ॥ कोउसखि
 पानदानलियेठाढ़ी, कोउदर्पणलैदौरी ॥ कोउसखिप्रभु
 जीकोबागोलैआवै, सियाजीकीपीतपिछौरी ॥ ३ ॥ को
 उसखीप्रभुकीछविनिरखत, कोउहँसेमुखमोरी ॥ ४ ॥
 करिअँचवनसिंहासनबैठे, भलीबनीयहजोरी ॥ ५ ॥ से
 वासखीयुगलछविनिरखे, बीरादेतकरजोरी ॥ ६ ॥ १ ॥
 अँचवनकरतसियारघुराई ॥ टेक ॥ कंचनझारीजलसर
 जूको, सखीसुशीलालाई ॥ १ ॥ चंद्रकलासखीदेतअँ
 गौछा, रतिखिरचालैआई ॥ २ ॥ सुधासुखीसखिविरि
 यापवावै, लावैअतरसुखदाई ॥ ३ ॥ रूपशीलशोभानिधि

जोरी, निरखतदृगनअघाई ॥४॥ रामसेवकजीकेप्रभु
सुखसागर, शेषप्रसादीपाई ॥ ५ ॥ २ ॥

युगलकिशोरी, अँचवतयुगलकिशोरी॥भोजनकरबैठे
सिंहासन, मिलियेविराजतजोरी॥ टेक ॥कोउसखिच
रणपछालतिठादी, कोउसखिकरतनिहोरी ॥ कोउस
खिलाईकुंपनखरिचा, युगलचरणहितजोरी॥१॥कोउ
सखिप्यारेजीकोबागोलाई, कोईराधेजीकीसुरँगपटो
री॥एकसखीदर्पणलैआई, एकदेतबीरीभरझोरी ॥ २ ॥

निजमंदिरबैठेपियाप्यारी कोउडारततृणतोरी॥सेवा
सखिश्रीवल्लभजीकी जूठनलैकैकरतनिहोरी ॥३॥३॥

अँचवनकीजे, अवधविहारी।शीतलसुंदरजलसरजूको
निकटधरीभरिकंचनझारी ॥ टेक॥खांसाझीनाअमल

अँगोछा, लियेठादीहैजनकदुलारी ॥ सोलैकैकरवदन
अँगोछो, वचनकहँनिजमातुउचारी ॥१॥ कत्थाचूनो

लौंगइलाची, लखणलगायेंपानसुपारी ॥ पाइपानपाँदें
त्रिभुवनपति, रामसेवककेप्रभुसुखकारी ॥ २ ॥ ४ ॥

अँचवनकीजेकृपानिधान ॥ टेक ॥ जलझारीललिता
दिकल्याई, खिरचाविशाखापान ॥ १ ॥ कत्थासुपारी

लौंगइलायची, बीरीचतुरसुजान ॥ २ ॥ श्रीभटदेतपा
नकीबीरी, महिमाव्यासवखान ॥ ३ ॥ ५ ॥

अँचवनकीजे, कृपानिधान ॥ टेक ॥ जलझारीब्रह्मादि
कल्याये, खिरचालायेइंद्रसुजान ॥१॥जयविजयलाये

लौंगइलाची, नारदलायेपान ॥ २ ॥ पनवारोसंतनको
उत्तम, गावतजनभगवान ॥ ६ ॥ ६ ॥

इति आचमन समाप्त ।

अथ पानकी बीरी और चौपड़ प्रारंभः ।

सिंधुसुतामहरानी, खवावतसिंधुसुतामहरानी ॥ पानपु
रानमसालनसंयुत, सांचिसुगंधसुजानी ॥ टेक ॥ जगन्ना
थमुसकातखातहैं, प्यारीलखिमुसकानी ॥ परमानंदअ
पारपरस्पर, कासोंजातबखानी ॥ १ ॥ बलदेवजीकोदे
तरैवती, सुभद्राजीकोबानी ॥ सूदरशनकोसखियांख
वावें, चारोंसुखकीखानी ॥ २ ॥ पूगीफलगिरिलौंगजाय
फल, कपूरकीअरघानी ॥ पीकदानरत्नमयकरलिये,
वल्लभसखियसयानी ॥ ३ ॥ १ ॥

खेलतहैंपियाप्यारी, पांसाखेलतहैंपियाप्यारी ॥ रत्न
जड़ितचौकीपरठारत, हँसतकरतकिलकारी ॥ टेक ॥ प
हिलोदांवपन्योश्यामाको, पीतपिछौरीहारी ॥ अबकी
बेरपियामुरलीलगावो, तौखेलौंगिरिधारी ॥ १ ॥ जानत
होछलबलकरछटो, कहोलालहरिहारी ॥ परमानंददास
केठाकुर, जीतीवृषभानुदुलारी ॥ २ ॥ २ ॥

खवावतकरकरबीरीपान, खवावतकरकरबीरी ॥ यक
टकहोमोहनमुखनिरखत, देतपरस्परचीरी ॥ टेक ॥ हँ
सतनिहारतवदनश्यामको, तनुकीसुधिविसरीरी ॥ र
सिकरायमोहनकेअँगअँग, करछतियापरसीरी ॥ १ ॥ ३ ॥

बीरीलैवो, मेरेकरसों, रंगीलैलाल ॥ नागबेलऔसुगंध
सुपारीतुमहींकोलाईघरसों ॥ टेक ॥ मुक्ताकोचूनोक
त्थालाई, लौंगइलाचीभरके ॥ संतनकोदीजेउधारप्रभु
विनतीकरतहूंडरके ॥ १ ॥ ४ ॥

पानखवावतमोहन, प्यारीजीकोपानखवावतमोह
न ॥ सुंदरमुखसुखदेखोइचाहत, नंदनंदनपियसोहन ॥
॥ टेक ॥ यदपिकरतलनलेतलाड़िली, करतविनयपद
गोहन ॥ श्रीभटनिपटदीनतनदेखत, मुसकिमुसकि
दियोठोहन ॥ १ ॥ ५ ॥

बीरीदेतब्रजनारी, लालजीकोबीरीदेतब्रजनारी ॥ पान
सुपारीकत्थागुलाबी, लौंगनखीलसवांरी ॥ टेक ॥ मृग
नयनीखंजनसीठादी, कंचनबेलसवांरी ॥ कमलकरन
विचलैलैबीरी, ठादीकरतमनुहारी ॥ १ ॥ कहतलाड़ि
लीबीरील्योप्रभु, श्यामसुंदरशुभकारी ॥ कृष्णदास
गिरिधरआरोगो, श्रीवल्लभप्राणअधारी ॥ २ ॥ ६ ॥

पानकीपानकीपानकी, बीरीदेऊंगीबनायरसपानकी
॥ टेक ॥ आवोकृष्णमिलिचौपरखेलें, बाजीवनीदिल
जानकी ॥ १ ॥ कत्थाचूनालौंगइलायची, ऐसीदेऊंअनु
मानकी ॥ २ ॥ तेरीबंसीनेकान्हासबजगमोह्यो, बेटी
मोहीवृषभानकी ॥ ३ ॥ कृष्णजीवनलछीरामकेप्रभु,
प्यारेजोड़ीवनीराधेश्यामकी ॥ ४ ॥ ७ ॥

इति पानकी बीरी समाप्त ।

अथ पंगतकी धुनप्रारंभः ।

अवधसोहावनअतिमनभावन, तलेबहैसरजूनीर ॥ सु
 मिरोमनजैजैजैरघुवीर ॥ टिक ॥ रघुवरलक्ष्मणभरतशत्रु
 हन, संगसखनकीभीर ॥ १ ॥ क्रीटमुकुटमराकृतकुं
 डल, गलेबिचमुक्ताहीर ॥ २ ॥ शारंगधनुषवाणकररा
 जे, पहिरेपीतांबरचीर ॥ ३ ॥ शंखचक्रगदापद्मविराजे
 सोहतश्यामशरीर ॥ ४ ॥ संगसखासरजूतटविहरें, रा
 मलक्ष्मणदोउबीर ॥ ५ ॥ बामेअंगजानकीविराजे, दहि
 नेश्रीलक्ष्मणवीर ॥ ६ ॥ रूपनिहारिचकितभएरतिपति,
 शारदशेषमतिधीर ॥ ७ ॥ नामप्रतापतरेजलथलमें, गी
 धव्याधकपिकीर ॥ ८ ॥ जिनचरणनकोध्यानधरतहैं,
 हरतसंतजनपीर ॥ ९ ॥ जनबालानंदरघुवरजीकेशरणै,
 गावतगुणगंभीर ॥ १० ॥ १ ॥

नगरअवधपुरकंचनराजै, बिहरतकमलाधीश।सुमि
 रो मनजयजयजयअवधेश ॥ १ ॥ भालतिलकगलेहीरा
 सोहै, शिरघूंघुरवालेकेश ॥ २ ॥ कटिपरपीतपितांबरबां
 धे, रूपधरेनृपभैस ॥ ३ ॥ सुरनरमुनिजयशब्दउच्चारें, व
 र्षतपुष्पनमेघ ॥ ४ ॥ शुकसनकादिनारदमुनिगावैं, से
 वतशंभुगणेश ॥ ५ ॥ रामचरणजलदाससुदर्शन, मीनम
 नोपरवेश ॥ ६ ॥ ३ ॥

सुमिरुमन, जयजयजयब्रजराज ॥ टिक ॥ मथुरामैहरि

जन्मलियोहै, भक्तवत्सलमहाराज १ मथुरासेहरिगोकु
लआये, कंसकोभईहैअवाज ॥ २ ॥ केशीमारैकंसपछारे,
उग्रसेनकोदियोहैराज ॥ ३ ॥ दावानलकोपानकियोहै,
नाथ्योहैकालीनाग ॥ ४ ॥ डूबतसेब्रजराखिलियोहै, न
खपरगिरवरधारी ॥ ५ ॥ पांडुनप्राणदानयदुनंदन, रा
खीहैद्रोपदीकीलाज ॥ ६ ॥ जलडूबतगजराजउबारे,
चक्रसुदर्शनधार ॥ ७ ॥ जनब्रजानंदगोपालजीकेशर
णै, जन्मसुफलभयोआज ॥ ८ ॥ ४ ॥

सुमिरुमन, रामसच्चिनंद ॥ टेक ॥ जोसुमिरेत्रयता
पहरतहै, परतनयमकैफंद ॥ १ ॥ ऋषिमखराखिनिशा
चरमारै, अभयकियेमुनिवृंद ॥ २ ॥ पदरजपरसिशि
लाभईसुंदरि, धायेउबारगजेंद्र ॥ ३ ॥ जनकस्वयंब
रपावनकीनो, तोरोहैधनुषप्रचंड ॥ ४ ॥ सियाविबाहि
अवधपुरआये, घरघरभयोहैअनंद ॥ ५ ॥ मातको
शलयाकरतआरती, निरखतपूरणचंद ॥ ६ ॥ जैजैका
रभयोसुरपुरमें, गावतश्रीबालानंद ॥ ७ ॥ ५ ॥

सुमिरोमन, जयबंकटबलबीर ॥ टेक ॥ ऊंचैसेपर्वत
कोयलबिराजे, झांडीहैगहिरगंभीर ॥ १ ॥ त्रिपतीमें
सीतारामजीबिराजै, चौकीहैलक्ष्मणबीर ॥ २ ॥ शेषा
चलपरआपबिराजै, चौकीहैहनुमतबीर ॥ ३ ॥ जय
औविजयदोउपौरियाबिराजै, दिगपुष्करिणीनीर ॥

॥ ४ ॥ शंखचक्रगदापद्मविराजै, शोभतश्यामशरीर ॥

॥ ५ ॥ क्रीटमुकुटमकराकृतकुंडल, गलेविचमुक्ताहीर ॥

॥ ६ ॥ शेषवाहनअसवारीसोहै, सँगसंतनकीभीर ॥

॥ ७ ॥ जनहाथीरामबंकटजीकेशरणै, गावतगुणगं
भीर ॥ ८ ॥ ६ ॥

अच्छेरामजीललाकौशल्यानंद, सुरनरमुनिगावेंजय

जयजगवंदन ॥ टेका ॥ पुरीअयोध्यासरजूतीर, हरिवाल

लीलाखेलैरघुबीर ॥ १ ॥ क्रीटमुकुटकुंडलवनमाला,

हरिभालतिलकसोहैनैनविशाला ॥ ३ ॥ कटिकिंकिणि

पीतांबरराजे, हरिचारुनिगमधुनिनूपुरबाजे ॥ ३ ॥

ब्रह्मादिकजाकोपारनपावैहरिताहिकौशल्यारानीगो

दखेलवै ॥ ४ ॥ तोतरिबानीअधिकसोहोवै, हरिनिर

खिकृपासखिबलिबलिजावै ॥ ५ ॥ ७ ॥

भजोहोमनसीताराम, मिटेदुखद्वंदना ॥ टेका ॥ जाकीभा

या, जगतभुलाया, ताताथेईनननना ॥ ब्रह्माजाको

पारनपावै, गावैसनकसनंदना ॥ १ ॥ देवकीकेगृह

आये, जैसेपूरणचंद्रमा ॥ सुरनरमुनिजाकोध्यानधरत

हैं, साधुकरैवंदना ॥ २ ॥ हिरणाकुशनखउदरविदान्यो,

प्रल्हादकोराखना ॥ बलिराजाकेद्वारपधारे, भैखधरेबा

मना ॥ ३ ॥ मथुरामेंहरिकंसपछारे, लंकापतिरावना ॥

दुपदसुताकोचीरबढ़ायो, कालीनागनाथना ॥ ४ ॥

औरनकोहरियेढेढेढे, नंदजीकेलालना ॥ साधुनकोह
रिऐसेलागें, जैसेशीतलचंद्रमा ॥ ५ ॥ भनतनामदेव
सुनोहोत्रिलोचन, जोसाधुनकीनिंदाकरेताहिकोनि
कंदना ॥ ६ ॥ ८ ॥

इति पंगतकी धुन समाप्त ।

अथ सर्वतीर्थसहित चारों धामकी

महाजयप्रारंभः ।

जेवतसंत, हरिहरकरैं ॥ धनपुरुषनकीभाग ॥ जिनकेगृ
हपावनभये, संतपधारेआय ॥ बोलियोमधुरीसीबानी
प्रेमसेहरे ॥ श्रीमन्नारायणकीजय ॥ ज्योतिस्वरूपनारा
यणकी ॥ स्वयंब्रह्मनारायणकी ॥ सच्चिदानंदनारायण
की ॥ अव्ययपुरुषनारायणकी ॥ लक्ष्मीनारायणकी ॥
अवधपुरीकी ॥ अवधसरजूकी ॥ रामसरजूकी ॥ आदि
सरजूकी ॥ १० ॥ सरजूबिरजाकी ॥ जन्मस्थानकी ॥
रामकोटकी ॥ रंगमहलकी ॥ रंगभवनकी ॥ रत्नसिं
हासनकी ॥ कनकसिंहासनकी ॥ कनककोटकी ॥ सप्त
सागरकी ॥ हनुमानजीमहाराजकी ॥ २० ॥ सुग्रीव
टिलाकी ॥ अंगदटिलाकी ॥ क्षीरसागरकी ॥ वसिष्ठ
मुनिकी ॥ वसिष्ठकुंडकी ॥ धनंजयतीर्थकी ॥ चक्रती
र्थकी ॥ ब्रह्मघाटकी ॥ राजघाटकी ॥ लक्ष्मणघाटकी

॥ ३० ॥ स्वर्गद्वारीघाटकी ॥ अहल्याघाटकी ॥ वा
 सुदेवघाटकी ॥ जानकीघाटकी ॥ रामघाटकी ॥ हनु
 मानकुंडकी ॥ स्वनखरकुंडकी ॥ अनीकुंडकी ॥ साती
 कुंडकी ॥ विद्याकुंडकी ॥ ४० ॥ त्रिलोकगंगाकी ॥ मणि
 पर्वतकी ॥ सञ्जुहाकुंडकी ॥ सूर्यकुंडकी ॥ सूर्यनारा
 यणकी ॥ कल्पवृक्षकी ॥ बिलहरघाटकी ॥ भरतकूपकी ॥
 नंदिग्रामकी ॥ निर्मलीकुंडकी ॥ ५० ॥ गुप्तरघाटकी ॥
 जमथलातीर्थकी ॥ दाशरथीरामकी ॥ दशरथनंदन
 की ॥ कौशल्यानंदनकी ॥ केकईनंदनकी ॥ सुमित्रानं
 दनकी ॥ रघुवंशमणिकी ॥ रघुवंशकुलभूषणकी ॥ र
 घुवंशभूषणरामरघुनाथकी ॥ रघुवंशदुलारेरामरघुनाथ
 की ॥ ६० ॥ दाशरथीरामरघुनाथकी ॥ रघुवंशकुलराम
 रघुनाथकी ॥ दशरथनंदनरामरघुनाथकी ॥ कौश
 ल्यानंदनरामरघुनाथकी ॥ केकईनंदनरामरघुनाथ
 की ॥ अवधबिहारीरामरघुनाथकी ॥ अवधेशरामरघुना
 थकी ॥ अवधमंडलरामरघुनाथकी ॥ अवधरमणरघुना
 थकी ॥ ७० ॥ अवधेशकुमाररामरघुनाथकी ॥ जान
 कीपतिरामरघुनाथकी ॥ जानकीरमणरामरघुना
 थकी ॥ जानकीबिहारीरामरघुनाथकी ॥ जानकीबिनो
 दकरामरघुनाथकी ॥ जानकीवल्लभरामरघुनाथकी ॥ गं
 गामनोरामाकी ॥ मुक्तानाथक्षेत्रकी ॥ शालग्रामदेवकी

शालग्रामीगंगाकी ॥ ८० ॥ शालग्रामपरमात्माकी ॥
 जनकपुरक्षेत्रकी ॥ जनकविदेहकी ॥ जनकमहाराज
 की ॥ जनकनंदिनीमहाराणीकी ॥ जनकदुलारीकी ॥
 जनककिशोरीकी ॥ जनकलाडिलीकी ॥ जनकजाम
 हाराणीकी ॥ जनककन्यामहाराणीकी ॥ ९० ॥ जन
 कपावनीमहाराणीकी ॥ जनककेजमाईकी ॥ आदि
 वाराहस्वामीकी ॥ कालियाकंतभगवानकी ॥
 कंतविलासीकी ॥ ब्रह्मपुत्रीकी ॥ चटगामबालवाकुंड
 की ॥ हयग्रीवभगवानकी ॥ हयग्रीवमाधवकी ॥ कपिल
 मुनिभगवानकी ॥ १०० ॥ कपिलमुनिदरियाईकी ॥
 गंगासागरकी ॥ रामकुंडकी ॥ सीताकुंडकी ॥ लक्ष्म
 णकुंडकी ॥ रामानुजस्वामीकी ॥ छालुकामिनीकी ॥
 क्षीरचौराठाकुरकी ॥ साखीगोपालकी ॥ श्रीजगन्नाथ
 धामकी ॥ ११० ॥ श्रीजगन्नाथस्वामीकी ॥ श्रीबलभ
 द्रसुभद्राकी ॥ श्रीमहाप्रसादकी ॥ नीलचक्रकी ॥ सुदर्श
 नचक्रकी ॥ इंद्रद्युम्नतीर्थकी ॥ मार्कण्डेयतीर्थकी ॥ महो
 दधिसागरकी ॥ श्वेतगंगाकी ॥ रोहिणीकुंडकी ॥ १२० ॥
 वटकृष्णभगवानकी ॥ सिद्धहनुमानकी ॥ वीरहनुमा
 नकी ॥ अतुलितबलहनुमानकी ॥ मच्छोद्रीहनुमान
 की ॥ सिंधुउल्लंघनहनुमानकी ॥ सिंहिकासंहारनहनु
 मानकी ॥ मैनाकपावनहनुमानकी ॥ लंकिनीदहन

हनुमानकी ॥ विभीषणप्रबोधकहनुमानकी ॥ १३० ॥
 सीताप्रबोधकहनुमानकी ॥ लंकादहनहनुमानकी ॥
 अक्षयमर्दनहनुमानकी ॥ कालनेमिमर्दनहनुमानकी ॥
 अहिरावणमर्दनहनुमानकी ॥ भरतप्रबोधकहनुमान
 की ॥ गोरखमूर्तिहनुमानकी ॥ शबरीनारायणकी ।
 राजीवलोचनकी ॥ १४० ॥ अमरकंटकपर्वतकी ॥ कू
 र्मधाराकी ॥ सहोद्रीनृसिंहकी ॥ पन्नानृसिंहकी ॥ शे
 षाचलवासीकी ॥ सर्वघटनिवासीकी ॥ प्रसन्नबंकटेश
 की ॥ उग्रबंकटेशकी ॥ वारबंकटेशकी ॥ बंकटेशजीम
 हाराजकी ॥ १५० ॥ चरणकुंडकी ॥ पुष्करिणीगंगाकी ॥
 हनुमानजीमहाराजकी ॥ त्रिपतीनाथमहाराजकी ॥ सी
 तारामजीमहाराजकी ॥ धनुषधारीमहाराजकी ॥ वीर
 राघवमहाराजकी ॥ पक्षीतार्थकी ॥ रामानुजस्वामी
 की ॥ श्रीप्रेममधुरकी ॥ १६० ॥ कांचीपुरीकी ॥ कांची
 ब्रजराजस्वामीकी ॥ वरदराजभगवानकी ॥ श्रीमुष्टी
 स्वामीकी ॥ श्रीरंगनाथधामकी ॥ श्रीरंगस्वामीकी ॥
 श्रीरंगभगवानकी ॥ कावेरीगंगाकी ॥ कावेरीमहारा
 णीकी ॥ दक्षिणद्वारकाकी ॥ १७० ॥ नवपाषाणकी ॥
 श्रीरामनाथधामकी ॥ धनुषतीर्थकी ॥ राममहोलेकी ॥
 द्रव्यसेनभगवानकी ॥ ठीकरनाथस्वामीकी ॥ अलगर्ज
 स्वामीकी ॥ सुंदरबाहुभगवानकी ॥ तोताद्रीनाथकी ॥
 लंबेनारायणकी ॥ १८० ॥ कुमारीकन्याकी ॥ आदि

केशवभगवानकी ॥ पद्मनाभभगवानकी ॥ जनार्दनभ
 गवानकी ॥ देवनारायणभगवानकी ॥ जंगजीतगोपा
 लकी ॥ हेमगोपालकी ॥ मैलकोटापाटकी ॥ श्रीच
 लपलरायभगवानकी ॥ श्रीचलपलस्वामीकी ॥ १९० क
 ल्याणीगंगाकी ॥ पुष्करिणीगंगाकी ॥ श्रीनृसिंहस्वामी
 की ॥ श्रीपंपापुरीकी ॥ वालीसुग्रीवकी ॥ अंगदहनुमा
 नकी ॥ रामलक्ष्मणमहाराजकी ॥ स्फटिकशिलाकी ॥
 गंगातुंगभद्राकी ॥ कृष्णागंगाकी ॥ २०० ॥ परशुराम
 भगवानकी ॥ पंढरीनाथभगवानकी ॥ चंद्रभागागंगा
 की ॥ अगस्तिकुंडकी ॥ सर्वतीर्थकी ॥ मैकलपर्वत
 की ॥ गोदावरीगंगाकी ॥ गंगाद्वारकी ॥ कुशावर्तकी
 ॥ २१० ॥ चक्रतीर्थकी ॥ नाशिकपुरीकी ॥ रामकुंड
 की ॥ पंचवटीनाथकी ॥ सीतारामजीमहाराजकी ॥
 लक्ष्मणजीमहाराजकी ॥ तपोवनकी ॥ लंबेहनुमान
 की ॥ दंडकारण्यकी ॥ लक्ष्मणकुंडकी ॥ २२० ॥ सी
 ताकुंडकी ॥ रामशय्याकी ॥ तापीगंगाकी ॥ गुमानदे
 वमहाराजकी ॥ नर्मदागंगाकी ॥ शुक्लतीर्थकी ॥ शुक्ल
 नारायणकी ॥ शेषनारायणकी ॥ अवंतिकापुरीकी ॥
 महाकालेश्वरकी ॥ २३० ॥ सफरागंगाकी ॥ अंगपातक्षे
 त्रकी ॥ डाकोरनाथस्वामीकी ॥ गोमतीतीर्थकी जय ॥ र
 णछोड़स्वामीकी ॥ तुलसीश्यामकी ॥ माधवप्राचीकी ॥
 आदिप्राचीकी ॥ प्रभासपाटनकी ॥ गिरिना रीध्वजाधा

रीकी ॥ हनुमानधाराकी ॥ २४० ॥ शैपावनकी ॥ पा
 दुकातीर्थकी ॥ रामानुजस्वामीकी ॥ गोमुखीधाराकी ॥
 अंबिकादेवीकी ॥ दत्तात्रेयभगवानकी ॥ दामोदरकुंड
 की ॥ सुदामापुरीकी ॥ गोमतीसंगमकी ॥ संगमनारा
 यणकी ॥ २५० ॥ द्वारिकानाथधामकी ॥ रणछोड़टी
 कमकी ॥ कुंवरकल्याणकी ॥ माधवपुरुषोत्तमकी ॥ रु
 किमणीमहाराणीकी ॥ सत्यभामामहाराणीकी ॥ जाम्ब
 वतीमहाराणीकी ॥ शैब्यामहाराणीकी ॥ नागकन्याम
 हाराणीकी ॥ तुलसीमहाराणीकी ॥ २६० ॥ यमुनामहा
 राणीकी ॥ वृंदामहाराणीकी ॥ शंखनारायणकी ॥ शं
 खोद्धारकी ॥ नारायणक्षेत्रकी ॥ आदिनारायणकी ॥
 चपलेश्वरमहादेवकी ॥ नीलकंठमहादेवकी ॥ कोटेश्व
 रनाथमहादेवकी ॥ धरणीधरभगवानकी ॥ २७० ॥ विं
 दुसरोवरकी ॥ कर्दमऋषिकी ॥ सरस्वतीगंगाकी ॥ गो
 विंदमाधवकी ॥ आबूपर्वतकी ॥ आबूकेसिद्धोंकी ॥
 हृषीकेशभगवानकी ॥ मधुसूदनभगवानकी ॥ वसिष्ठ
 मुनिकी ॥ ब्रह्मखंडकी ॥ २८० ॥ नक्षीतलावकी ॥ रूप
 चतुर्भुजठाकुरकी ॥ लोहागरपुष्करकी ॥ प्रहादजीमहा
 राजकी ॥ प्रहादपुरीकी ॥ प्रहादपर्वतकी ॥ श्रीनृसिंह
 स्वामीकी ॥ नृसिंहपहारकी ॥ नृसिंहकटाक्षकी ॥ शि
 लोदकागंगाकी ॥ २९० ॥ नागार्जुनकी ॥ त्रिकूटादेवी
 की ॥ मणिकर्णिकाकी ॥ त्रिलोकीनाथ ठाकुरकी ॥ अ

स्रातीर्थकी ॥ रेवालसरतीर्थकी ॥ हरिद्वारपुरीकी ॥
 गंगाभागीरथीकी ॥ हृषीकेशभगवानकी ॥ केदारना
 थकी ॥ ३०० ॥ अमरनाथकी ॥ बदरीनाथधामकी ॥ ब
 दरीविलासकी ॥ योगध्यानीबालाकी ॥ तप्तकुंडकी ॥
 नारदकुंडकी ॥ अलकनंदागंगाकी ॥ कूर्मधाराकी ॥
 नंदप्रयागकी ॥ करणप्रयागकी ॥ ३१० ॥ ब्रह्मप्रयाग
 की ॥ महाप्रयागकी ॥ नरनारायणकी ॥ त्रियुगनारा
 यणकी ॥ कौसल्यागंगाकी ॥ रामगंगाकी ॥ वृंदावन
 चंद्रकी ॥ वृंदावनविहारकी ॥ वृंदावनरक्षपालकी ॥ वृं
 दावनपालनकी ॥ ३२० ॥ वृंदावनपावनकी ॥ वृंदावन
 धीरसमीरकी ॥ यमुनामहाराणीकी ॥ कालिंदीमहा
 राणीकी ॥ गोविंदजीमहाराजकी ॥ कुंजबिहारीभग
 वानकी ॥ धेनुचारीभगवानकी ॥ राधामाधवभगवान
 की ॥ राधारमणभगवानकी ॥ राधाबिहारीभगवानकी
 ॥ २३० ॥ राधावल्लभभगवानकी ॥ राधाविनोदभगवान
 की ॥ राधासुखधामभगवानकी ॥ राधाआनंदभगवान
 की ॥ राधिकापतिभगवानकी ॥ राधारमणभगवान
 की ॥ गोपबिहारीभगवानकी ॥ गोपरक्षणभगवान
 की ॥ गोक्रीडाभगवानकी ॥ गोपहास्यभगवानकी ॥
 ॥ ३४० ॥ गोपीवल्लभभगवानकी ॥ गोपीरमणभगवा
 नकी ॥ गोपिकानंदनकी ॥ गोपांगनापावनभगवान
 की ॥ गोकुलापुरीकी ॥ नंदनंदनकी ॥ यशोदानंदनकी ॥

वसुदेवनंदनकी ॥ देवकीनंदनकी ॥ रोहिणीनंदन
 की ॥ कृष्णबलदेवकी ॥ ३५० ॥ वृषभानुदुलारीकी ॥
 वृषभानुकिशोरीकी ॥ वृषभानुलाडिलीकी ॥ वृषभानु
 कन्याकी ॥ वृषभानुकेजमाईकी ॥ माखनचोरकी ॥ द
 धिचोरकी ॥ नंदकिशोरकी ॥ कालीदमनकी ॥ ३६० ॥
 कालीमर्दनकी ॥ कालमदमोचनकी ॥ कालीनवनकी ॥
 मदनमोहनभगवानकी ॥ मदनगोपालकी ॥ बंसीवट
 धीरसमीरकी ॥ गोवर्धनधारीकी ॥ गोवर्धनपर्वतकी ॥
 गिरिराजमहाराजकी ॥ मानसीगंगाकी ॥ ३७० ॥ म
 थुरापुरीकी ॥ मथुरामुष्टिकमर्दनकी ॥ चाणूरमर्दनकी ॥
 कंसमर्दनकी ॥ कंसशत्रुकी ॥ कंसमोक्षणकी ॥ केशी
 मर्दनकी ॥ केशीउद्धारणकी ॥ कुब्जापावनकी ॥ वांके
 विहारीकी ॥ ३८० ॥ छैलविहारीकी ॥ छैलचिकनि
 याकी ॥ चिकनियाठाकुरकी ॥ मोरमुकुटधारीकी ॥
 श्रीधरभगवानकी ॥ अटलविहारीकी ॥ लीलापुरुषोत्त
 मभगवानकी ॥ यदुवंशमणिभगवानकी ॥ यदुवंशभू
 षणभगवानकी ॥ यदुवंशदीपकभगवानकी ॥ ३९० ॥
 यदुवंशउजागरभगवानकी ॥ वासुदेवभगवानकी ॥ सं
 कर्षणभगवानकी ॥ प्रद्युम्नभगवानकी ॥ अनिरुद्धभग
 वानकी ॥ चतुर्व्यूहकभगवानकी ॥ यमुनामहाराणी
 की ॥ वामघाटकी ॥ कंसानलाकी ॥ नैमिषारण्यमिश्रि
 खकी ॥ ४०० ॥ धेनुमतीगंगाकी ॥ कुशावर्तकी ॥ ग

यागदाधरभगवानकी ॥ फल्गूगंगाकी ॥ गयापुरीकी ॥
 काशीपुरीकी ॥ काशीविश्वेश्वरनाथकी ॥ मणिकर्णिका
 घाटकी ॥ अन्नपूर्णादेवीकी ॥ गंगाभागीरथीकी ॥
 ॥४१०॥ प्रयागराजकी ॥ तीर्थराजमहाराजकी ॥ मा
 धवत्रिवेणीकी ॥ सरस्वतीगंगाकी ॥ भरद्वाजमुनिकी ॥
 अक्षयवटकी ॥ संकटमोचनहनुमानकी ॥ श्रीचित्रकूट
 केनाथकी ॥ कामदनाथकी ॥ ४२० ॥ मुखारविंदकी ॥
 अनसूयामाताकी ॥ अनसूयाआश्रमकी ॥ लक्ष्मणटेक
 रीकी ॥ भरतकूपकी ॥ हनुमानधाराकी ॥ देवांगनाकी ॥
 दधिकुल्याकी ॥ ४३० ॥ मधुकुल्याकी ॥ घृतकुल्याकी ॥
 सर्वतीर्थकी ॥ श्रीसीतारामआश्रमकी ॥ श्रीसीताराम
 वनविहारीकी ॥ लक्ष्मणवनविहारीकी ॥ स्फटिक
 शिलाकी ॥ गंगामंदाकिनीकी ॥ राघवेंद्रकी ॥ ध्रुव
 यादवेंद्रकी ॥ ४४० ॥ प्रहादइंद्रकी ॥ इंद्रपुरीन्द्रकी ॥
 बलीइंद्रकी ॥ छलीइंद्रकी ॥ श्रीनृसिंहदेवकी ॥ हनु
 मानदेवकी ॥ गरुडदेवकी ॥ चारधामकी ॥
 चारसंप्रदायकी ॥ बावनद्वारेकी ॥ ४५० ॥ अनंतकोट
 वैष्णवनकी ॥ दाताभोक्ताकी ॥ स्थानपुरुषकी ॥ अ
 पनेअपनेगुरुगोविंदकी ॥ श्रीरामकृष्णदेवकी ॥ श्री
 महाप्रसादकी ॥

दोहा-रामकहेसुखऊपजे, कृष्णकहेदुखजाय ॥ महिमा

महाप्रसादकी, पावोप्रीतिलगाय ॥ १ ॥ बोलियोमधु
रीसीबानीहरे ॥

इति सर्वतीर्थसहित चारों धामकी महाजय संपूर्ण ।

अथ गुरुवारकी गौरीप्रारंभः ।

देवातेरीभक्तिनछांङ्गमुक्तिनमाँगूं हरियशसुनहुँसुनाऊं
॥टेक ॥ रामकृष्णअवतारमनोहर, जन्मजन्मयशगा
ऊं ॥ १ ॥ गंगाजलअसनानकराऊं, पीतांबरपहिराऊं ॥
तुलसीआनिगोपालहिपूजाँ, चंदनसरसचढ़ाऊं ॥२॥
चुनिचुनिकलियांमैंहारवनाऊं, रघुवरउरपहिराऊं ॥धू
पदीपनैवेद्यआरती, यहिविधिलाड़लड़ाऊं ॥३॥ हरखि
निरखिहरिकेगुणगाऊं, हाथनतालबजाऊं ॥भनतना
मदेवसुनहुत्रिलोचन, यहिविधिदासकहाऊं ॥ ४ ॥ १ ॥
अयोध्याआजसनाथभईहै ॥ टेक ॥ राजादशरथगृह
रामजन्मलियो, रत्ननभूमिछईहै ॥ हीरालाललगेपल
नामैं, झूलतरामसहीहै ॥ १ ॥ कंचनमहलबनेदशरथ
के, सरजूनिकटबहीहै ॥ राजादशरथगृहनौबतबाजे, लं
कामैंखबरभईहै ॥ २ ॥ सबसखियनमिलिसंगलगाये,
गावतरागसहीहै ॥ राजादशरथजीकेचारपुत्रहैं, लक्ष्म
णरामजीसहीहै ॥ ३ ॥ गुरुवसिष्ठकुलपूज्यहमारै, मांग
तदानसहीहै ॥ तुलसिदासधनिधनिकौसल्या, मनसा
सुफलभईहै ॥ ४ ॥ २ ॥

अंगनामें, खेलतचारौभाईश्रीअ० ॥टेक॥ राजादशर
 थजीकेचारिपुत्रहैं चारोकुँवरकन्हार्डारघुवरलक्ष्मणभ
 रतशत्रुहन,शोभावरणिनजाई ॥१॥ चारोरतनकोखे
 लरच्योहै,फूलनगेंदबनाई ॥तीनलोककीसकलसंपदा
 अवधपुरीचलिआई ॥२॥ठौरठौरमुनिजनकेआसन,
 बैठेध्यानलगाई ॥राजादशरथगृहनौबतबाजे,घरघर
 बजतबधाई॥६॥ कल्पवृक्षतलेरत्नसिंहासन, जहँबैठे
 रघुराई मातकौसल्याकरतआरती,आनँदउरनसमा
 ई॥४॥ शिवसनकादिआदिब्रह्मादिकशेषसहसमुखगा
 ई ॥क्रीटमुकुटकरधनुषविराजै, दशरथसुतरघुराई॥
 ॥५॥ सरजूकेतीरअयोध्यानगरी,अपनेहाथबनाई ॥
 तुलसीदासधन्यकौसल्या, भाग्यबड़ेजिनपाई॥६॥३॥
 श्रीअंगनामें, खेलतदूनौभाई॥टेक॥श्रीहलधरजीनेखे
 लरचोहै, बर्णतशेषलजाई॥सुरनरमुनिब्रह्मादिदेवता,
 चढ़िविमानतहँआई ॥१॥ आसपाससबग्वालमंडली,
 बीचमेंखेलबनाई ॥एकओरबलदाऊभैया, एकओरकुँ
 वरकन्हार्डारइतमथुराउतगोकुलनगरी,बीचमेंयमुना
 आई॥स्वर्गलोकपाताललोककी,संपतितहँचलिआई।
 ॥३॥नितउत्साहहोतव्रजमंडल,निगमनेतियशगाईगो
 कुलदासधन्यव्रजजीवन, भाग्यबड़ेजिनपाई॥४॥४॥
 बोलनकीबलिजैहौँलाल,इनबोलनकी० ॥टेक ॥छोटे
 छोटेचरणअधरतलसुंदर,ठुमकिठुमकिचलिजैहौँ॥क

टिकिंकिणिपगनूपुरबाजे, मधुरेशब्दसुनैहों ॥ १ ॥ सब
 बालकरघुवरछविनिरखत, प्रेमप्रीतिलपटैहों। घूंघुरवा
 रेअलकबदनपर, मंदहसनसुखदैहों ॥ २ ॥ जाकोध्यान
 धरतब्रह्मादिक, शारदगानकरैहों ॥ गोदराखिपय
 पानकरावत, दशरथलेतबलैयाहों ॥ ३ ॥ यहछविदेखि
 मगनभयेसुरमुनि, रविशशिकोटिलजैहों ॥ ४ ॥ शिवस
 नकादिआदिब्रह्मादिक, निगमनेतियशगैहों ॥ अग्रदा
 सभजोदशरथनंदन, दिनप्रतिदिनअधिकैहों ॥ ५ ॥ ५ ॥
 श्रीराघवजीको, दूधपियावतरानी ॥ टेक ॥ कौशल्याके
 कईसुमित्रा, ढिगढिगबैठिसयानी ॥ १ ॥ कौतुककरतल
 लितसुतचारो, बोलततोतरिवानी ॥ लेतमँगाइजोइम
 नभावै, मातुदेतहितमानी ॥ २ ॥ अवधनारिस्वारथर
 तआवै, रघुवररूपलुभानी ॥ रामसेवकजीकेप्रभुसुख
 सागर, गावतसुरपुरबानी ॥ ३ ॥ ६ ॥

अयोध्याविमलपुरीहमजानी ॥ टेक ॥ विमलापुरीविम
 लसरजूजल, विमलरामराजधानी ॥ १ ॥ विविधधा
 ममणिश्यामअरुणसित, हेमपंकटचितटानी ॥ हरित
 मणिनकेखंभजगमगत, हेरतदिशाभुलानी ॥ २ ॥ तोर
 णकेतुपताकध्वजाधन, गलियनकोटनवानी ॥ सुरतरु
 कामधेनुचिंतामणि, मनबांछितफलदानी ॥ ३ ॥ भूपभ
 वनसबभांतिअलौकिक, केहिविधिजातबरवानी मरक
 तमणिमयअजिरसोहावन, विहरतशारंगपानी ॥ ४ ॥

फूलेनीलफूलसरजूके, सोहैसरितबरपानी ॥ मानहुँवि
 पुलबसेसरजूतट, हरिरमाशंभुभवानी ॥ ५ ॥ गुंजतम
 धुपप्रागरसमाते, काहेस्वादवखानी ॥ मानहुँरामरसि
 करसछाके, गद्गदरसरतिसानी ॥ ६ ॥ सरजूसलिलसुधा
 शीतलशुचि, सकलसुखनकीखानी ॥ मानहुँभक्तिधार
 भवतरणी, प्रभुपुरनिकटबहानी ॥ ७ ॥ सहिनसकतत
 रुमारफूलफल, लूमभूमिनियरानी ॥ देतबोलायपथि
 कजनुकरगहि, देखतदेहमुलानी ॥ ८ ॥ केकीहंसकपो
 तकोकिला, मिलिझुंडनहर्षानी ॥ निरखतमुदितमंड
 लीजहतह, युवाबालवृधअवसानी ॥ ९ ॥ निरखिनारि
 नरअवधनगरके, मोहतरूपलुभानी ॥ कोकहिसकैरूप
 अतिसुंदर, उपमासुरमुनिशेषवखानी ॥ १० ॥ धन्यसर
 जूसाकेतनगरते, धन्यसेवकसिवकानी ॥ धन्यधन्यनृप
 दशरथराजा, धन्यकौशल्यारानी ॥ ११ ॥ कृपानिवास
 विमलकंचनपुरि, गुंजतसकलमनमानी ॥ बिहरतसरजू
 पुलिननलिनमिलि, लालललीगहिपानी ॥ १२ ॥ ७ ॥
 कहनलागेरघुबर, मैयामैया ॥ टेक ॥ राजादशरथजी
 कोबाबाबाबा, लक्ष्मणजीकोमैया ॥ मातुकौशल्याभा
 गिसराहै, मेरेरघुबरबलिजैया ॥ १ ॥ दूरिखेलनजनिजा
 वोप्यारे, रघुबरखेलहुघरअँगनैया ॥ रंगमहलचढिटेरै
 कौशल्या, लेलेनामरमैया ॥ २ ॥ क्रीटमुकुटमकराकृत
 कुंडल, उरवनमालसोहैया ॥ मातुकौशल्याकरतआर

ती, आनंद उरनसमैया ॥३॥ खेलत फिरत सकल सरजू
तट, करलिये बाणधनुहिँया ॥ रामललाजीकीयहछवि
ऊपर, तुलसिदासबलिजैया ॥ ४ ॥ ८ ॥

कहनलागेमोहनमैयामैया ॥टेका॥नंदरायजीकोबाबा
बाबा, बलदाऊजीकोभैया ॥ मातुयशोदाभागिसरा
हैं,मैमोहनबलिजैया ॥१॥ दूरिखेलनजनिजावोप्यारे
ललना,मारेगीकाहूकीगैया ॥सिंहपौरचढिटेरेयशोदा
लेलेनामकन्हैया ॥२॥ मोरमुकुटमकराकृतकुंडल,उ
रबनमालसोहैया ॥मातुयशोदाकरतआरतीआनंदउ
रनसमैया ॥ ३ ॥ खेलत फिरत सकलगोकुलमें, घरघर
बजतबधैया ॥ मदनमोहनजीकीयहछविऊपर,सूर
दासबलिजैया ॥ ४ ॥ ९ ॥

देखोसखिराजतअवधविहारी।टेकामणिमंडपमेंरत्न
सिंहासन,कोटिभानुउजियारी ॥१॥ रत्नजडितशिर
क्रीटविराजे,कुंडलकीछविन्यारी ॥ भालविशालतिल
कअतिसोहै,तीनलोकउजियारी ॥ २ ॥ भृकुटिविशा
लमनोहरनासा,चंद्रबदनद्युतिकारी ॥नवराजीवनयन
कीशोभा,मंदहसनअतिप्यारी ॥३॥ उरमणिमालहा
रमुक्ताछवि,मनहर्षतउजियारी ॥ बाहुविशालविभूष
णसोहैं,रुचिरपीतांबरधारी ॥४॥ रुमकञ्जुमकपगनूपु
रबाजें,मोहतमदननिहारी ॥ ५॥रूपानिवासकहांलगि
वरणों,शोभासिंधुखरारी ॥ ५ ॥ १० ॥

बागहुतेआवतराजदुलारो ॥टेक ॥ फूलनकीकलंगोफूल
लनकेजामा, औरफूलनगलेहारो ॥ क्रीटमुकुटमकरा
कृतकुंडल, धनुषबाणकरधारो ॥१॥ नीलेरामसुरंगरंग
लक्ष्मण, आवतअवधमँझारो अवधपुरीनरनारिनिहा
रै, झुँकझुँककरतजुहारो ॥२॥ सुंदरबदनकमलदललोच
न, कोटिकामछबिवारो ॥ तुलसीदासधन्यकौशल्या,
आरतिसाजउतारो ॥ ३ ॥ ११ ॥

श्रीवनहुँसे आवतअवधबिहारी ॥टेक॥ रघुवंशीबाल
कसँगलीन्हे, गजरथकीअसवारी ॥ चीराकलितललि
तजरकसको, करगहिकंजसँवारी ॥१॥ श्यामबदनशु
तिअधिकजगमगे, पीतांबरछबिप्यारी ॥ भाथातूणल
लितकटिऊपर, क्रीटमुकुटछबिन्यारी ॥२॥ बनहुँसे
आवततुरंगनचावत, मोहेसुरपुरनरनारी ॥ बाजकुही
बहुजातिसंगलिये, दारुणजीवसिकारी ॥३॥ खेलतफिर
तविपिनकुंजनवन, संगसखालियेसारी ॥ मातकौश
ल्याकरतआरती, बालअलीबलिहारी ॥ ४ ॥ १२ ॥
देखोसखिआवत, रासबिहारी ॥ टेक ॥ सरजूतीरसिं
गारविपिनमें, अतिअनूपछबिभारी ॥ १ ॥ संगसखी
सोहैंअलबेलीवनीठनीछबिन्यारी सुमनसिंगारकियो
नखशिखलौं, निजकरश्यामसवारी ॥२॥ प्रभुआगेस
खिखेलतआवें, फूलनगेंदउछारी ॥ झुँकिझुँकिलेतपर
स्परफेंकत, अतिआनँदपियप्यारी ॥३॥ सीताराममनो

हरजोरी, चितवनकीबलिहारी कुंडलअलकनझलकबु
लाकी, दलकतहृदयहमारी ॥ ४ ॥ आयेदंपतिरामचर
णसखि, भूषणवसनउतारी ॥ नखसिखमणिभूषणसिं
गारकरी, सिंहासनवैठारी ॥ ५ ॥ १३ ॥

देखोसखी, कोउयकनवलशिकारी ॥ टेक ॥ सरजूतीर
प्रमोदविपिनमें, श्यामवरणअनुहारी ॥ १ ॥ कछनीहरि
तहरितचंदनमें, हरितवसनतनुधारी ॥ हरितवसनके
ओटछिपतही, होतलताअनुहारी ॥ २ ॥ बाननतेमारत
मृगराजन, नयननतेनरनारी ॥ रामसखेपियलवनि
तकनिपर, कोटिमदनरतिवारी ॥ ३ ॥ १४ ॥

श्रीराघवजीकी, आजुसजीअसवारी ॥ टेक ॥ दश
रथराजकुमारलाडिले, शोभान्यारीन्यारी ॥ १ ॥
सजेतुरंगरंगराजनके, भीरगजेंद्रनभारी ॥ जगम
गझूलजरीकीसोहै, रत्नजड़ावअमारी ॥ २ ॥ घूम
गरजसोभरतजीआए, श्रीरघुनाथनिहारी ॥ होतकु
लाहललखनलालकी, रिपुसूदनछविन्यारी ॥ ३ ॥ ह
र्षदेवसुमनबहुवर्षे, जयजयकारउचारी ॥ ब्रह्मादिकद
र्शनकोआये, मोहतबदननिहारी ॥ ४ ॥ रविशाशिको
तिबदनकिशोभा, चंद्रकलाउजियारी ॥ अग्रअलीप्र
भुकीछविनिरखे, चरणकमलबलिहारी ॥ ५ ॥ १५ ॥
भजुमनजानकिजीवनरामा ॥ टेक ॥ सुषमासदनस
कलसुखसागर, मधुरमनोहरश्यामा ॥ १ ॥ कामकोटि

शोभातनुबिलसे, निरखतलाजैकामा ॥ वामअंगसोह
 तिसियसुंदरि, दक्षिणलखनललामा ॥ २ ॥ मनक्रमब
 चनजासुउरअंतरसियप्रियप्रेमनजामा ॥ सोशिरधुनि
 पछितायनिरंतर, दुखपावैपरिणामा ॥ ३ ॥ सोईमम
 स्वामीसेवतजेहिहनुमत, जासुजपतहरनामा ॥ बीन
 बजायगाययशनारद, लहतसकलविश्रामा ॥ ४ ॥ कर
 सरोजकोछांहजोपावै, सोसबविधिसुखधामा ॥ सकल
 पापत्रयतापनशावै, तेहिलागतनहिंधामा ॥ ५ ॥ सब
 लायकसुखदायकमेरो, सोइसुखसागररामा ॥ रामकृ
 पानिरखतछबिजाकी, चेरीभईबिनुदामा ॥ ६ ॥ १६ ॥
 श्रीरघुनाथ दयानिधिदानी ॥ टेक ॥ सियपियप्रेमसक
 लसुखदायक, जपतपयोगकहानी ॥ १ ॥ कोउजपयो
 गकरतसहिशंकट, कोसुनिवरबिज्ञानी ॥ कोउतपतीर
 थकरिसुखचाहत, कोउसुकर्मअभिमानी ॥ २ ॥ कारणर
 हितकृपालुसुयशसुनि, रामकृपासखिस्यानी सकलभ
 रोसबिहायकपटतजि, सियपियहाथबिकानी ॥ ३ ॥ १७ ॥
 भजुमन, सरजूअवधबिहारी ॥ टेक ॥ संगसखासरजूत
 टबिहरें, सुंदरअवधबिहारी ॥ १ ॥ नीलकलेवरपीतझंगु
 लिया, बाहुसघनजिसतारे ॥ घूंघुरवारेअलकबदनपर
 मानहुँभँवरगुँजारे ॥ २ ॥ कम्बुकंठअतिचिबुकसोहा
 ये, आननमदनछबिछाये ॥ कटिकिंकिणिनूपुरछविरा
 जे, भृगुलक्षणछबिछाये ॥ ३ ॥ क्रीटमुकुटमकराकृत

कुंडल, उरबनमालसोहावै ॥ शेषसहसमुखरटतनिरंतर,
 सोवाकोपारनपावै ॥ ४ ॥ शिवसनकादिआदिब्र
 ह्मादिक, निगमनेतियशगावै ॥ रामानंदप्रभुकीछवि
 निरखै, चरणकमलचितलावै ॥ ५ ॥ १८ ॥

मनरे तूसरजूतीरकरुबासा ॥ टेक ॥ मानसरोवरप्रग
 टीबशीटी, अवधपुरीपरकासा ॥ १ ॥ जहँबिहरैरघुना
 थरमापति, जगवल्लभसुखदासा ॥ जाकेदर्शपर्शसुख
 उपजे, कलिमलहोईसबनासा ॥ २ ॥ निर्मलजलअस
 नानपानकरु, मेटतयमकेत्रासा ॥ ब्रह्मादिकजाकोपार
 नपावै, सेवतहरिकेदासा ॥ ३ ॥ रामघाटअस्नानकर
 नको, अंतरामपुरबासा ॥ श्रीरघुनाथशरणमोहिलीजै,
 गावततुलसीदासा ॥ ४ ॥ १९ ॥

कहनलगेरघुबर, तोतरिबाता ॥ टेक ॥ श्रीमहाराजक
 हतदशरथजीसों, कौशल्याजीसोंमाता ॥ सुनिमुनिव
 चनप्रेमपरिपूरण, आनंदउरनसमाता ॥ १ ॥ कुंचितके
 शलसतधुंधुवारै, श्यामसुंदरमृदुगाता ॥ सुंदरवदनकम
 लदललोचन, छबिवरणीनहिंजाता ॥ २ ॥ रघुबरलक्ष्म
 णभरतशत्रुहन, खेलतचारौभ्राता ॥ बिहरतसरजूनी
 रसखनसंग, भक्तजननसुखदाता ॥ ३ ॥ लखचौरासी
 जीवचराचर, सबकेगुरुपितुमाता ॥ जनरघुवीरअवध
 पुरप्रगटे, दीनजननकेत्राता ॥ ४ ॥ २० ॥

बसीछबिनयनन, रामजीललाकी ॥ टेक ॥ क्रीटमुकुट

मकराकृतकुंडल,कोटिभानुछबिजनकललाकी ॥१॥
 धनुषबाणकरकंकणसोहत, पीतलसतअतिवांकी ॥
 ॥ २ ॥ लखिलखिश्यामवदनकीशोभा, रतिपतिग
 तिमतिथाकी ॥ ३ ॥ कहैरघुवीरदासत्रिभुवनमें, उप
 मादीजैकाकी ॥ ४ ॥ २१ ॥

रुनझुनरुनझुन, रामजीललाआवैं ॥ हाथधनुषकरबा
 णचलावैं ॥टेक॥ कनकचौकबिचखेलतललना, संग
 सखाबहुबालसुहावैं ॥ १ ॥ क्रीटमुकुटपरकलंगीराजे,
 मधुरहासमनमोदबढ़ावैं ॥२॥ श्यामवदनपरपीतझंगु
 लिया,अरुणचरणवनमालसोहावैं ॥ ३ ॥ उभयभुजा
 परशारंगराजे, कटिपरकिंकिणिअधिकसुहावैं ॥४॥
 कौसल्याकेकयीसुमित्रा, रामजीललाजीकोटेरबोला
 वैं ॥ ५ ॥ भरतशत्रुहनसंगलियेललना, लक्ष्मणकुंवरजी
 चँवरदुरावैं ॥६॥ मातकौशल्याकरतआरती, सुरनरमु
 नियशगावैं ॥ ७ ॥ ब्रह्मदासललामाधुरिमूरति, तीन
 लोकमेंनाचनचावैं ॥ ८ ॥ २२ ॥

श्रीआवतशारंगपाणी,श्रीवनहुसेआ० ॥टेक॥ संगस
 खासबसोहतनीके, बहुविधिशोभाखानी ॥ १ ॥ रघुव
 रलक्ष्मणभरतशत्रुहन,रूपराशिगुणखानी ॥निरखिम
 धुरलखियेलखिकैकोउ, सखिसबपरमसयानी ॥२॥
 हाथपातफलफूललियेसब,सुमनगलेगुथयानी ॥ होत
 कोलाहलसुनिनपरतकछु, बातजातनहिंजानी ॥ ३ ॥

तुरंगनचावत आवत छवि सों, सैन्य अधिक अभिरामी
संतदास मृगराज पकड़ प्रभु, आये बड़े समानी ॥४॥२३॥

इति गुरुवारकी गौरी समाप्त ।

अथ शुक्रवारकी गौरी प्रारंभः ।

भजु मन रामानुज सुखदाई ॥ टेक ॥ श्रीफणिपति पूरणपु
रुषोत्तम, संतनके सुखदाई ॥ श्रीरघुवीर चरण अनुरागी,
दशरथ सुधन सोहाई ॥ १ ॥ क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल,
करमेंधनुष सुहाई ॥ तरकसकटि पीतांबरराजे, मृगमद
तिलक सुहाई ॥ २ ॥ अरुणकंजलोचन अतिराजे, भृकु
टीबिकट सुहाई ॥ चारुकपोलनासिका सुंदर, अलक
नभंवर लुभाई ॥ ३ ॥ असुरसंहारन भक्त उधारन, सुरनर
मुनि सुखदाई ॥ युद्ध विरुद्ध कुद्ध श्रीलक्ष्मण, मेघनादग
तिपाई ॥ ४ ॥ जाको नाम लिये छटत भव, जन्ममरण
दुखदाई ॥ रामचरण परकरी कृपा अब, देहु भक्ति सुख
दाई ॥ ५ ॥ १ ॥

भजो मन लखन चरण सुखदाई ॥ टेक ॥ श्रीफणिपति
अवतार लियो है, संतनके हित लाई ॥ सूर्यवंश परशंसत
सुरमुनि, वेदपुराण नगाई ॥ १ ॥ रघुकुलमणि परकाशदि
वाकर, तिनके अनुज कहाई ॥ २ ॥ गौरकिशोर बदन अ
ति सुंदर, भृकुटीबिकट सोहाई ॥ बाहुबिशाल बिभूषण
सुंदर, कांधेधनुष सोहाई ॥ ३ ॥ शिरपर क्रीट श्रवणमणि
कुंडल, मेचक अधिक बनाई ॥ भालबिशाल तिलक शिर

सोहै, भृकुटीबिकटसुहाई ४शारंगधनुषबाणकरराजै,
 शोभावरणिनजाई। फूलनकीवनमालविराजे, सबअंग
 सुंदरताई ५तीनलोकऔंभुवनचतुर्दश, जानतसबप्रभु
 ताई ॥ शिवब्रह्माजाकोपारनपावैं, नेतिनेतिकहगाई
 ॥६॥ असुरनिकंदनहोदुखभंजन, हैजगविदितबड़ाई॥
 सरजू दासपरकिरपाकीजे, देहुभक्तिसुखदाई ॥१॥२॥
 श्रीबालाजीको, आजुवनोरथनीको श्री०॥टेक॥चोवा
 चंदनऔरअरगजा, मोतियनचौकपुराये ॥ बंद
 नवारेबांधेरुचिरुचि, विचविचदलतुलसीके ॥ १ ॥
 चारौखंभवनेकंचनके, ऊपरकामजरीको ॥ रत्नसिं
 हासनआपुबिराजे, मुकुटधरेतुलसीको ॥ २ ॥ क
 म्बुकंठकौस्तुभमणिराजे, उरबनमालसोहाई। जयऔ
 बिजयदोउपौरियाबिराजैं, सन्मुखसुतअंजनीको ।३।
 शिवसनकादिआदिब्रह्मादिक, निगमनेतियशगावैं ॥
 जनहाथीरामबंकटजीकेशरणै, मनमोहतसबहीको।४
 श्रीबालाजीकी, आजुवनीछविभारी।टेक।त्रिपतीमेंसी
 तारामजीबिराजैं, शेषनागकीछाया॥ लक्ष्मीकमलाच
 रणपलोटै, छविनहिंजातबखानी ॥ १ ॥ शेषाचलपर
 आपुबिराजे, सनकादिकऋषिचारी।आसपासगिरिव
 रकीशोभा, बीचमेंकोयलभारी॥२॥क्रीटमुकुटमकरा
 कृतकुंडल, उरबनमालसोहाई ॥ बाहुविशालविभूषण
 सोहैं, करगहिशारंगधारी॥३॥चंदनचर्चितअंगमनोह

र, भृगुलक्षणछविछाई ॥ जनहाथीरामबंकटजीके
शरणै, गावतसुरपुरनारी ॥ ४ ॥ ४ ॥

श्रीलक्ष्मण, सांचेदीनदयाला ॥ टेका ॥ शेषाचलपरवनो
देवाला, कंचनकलशसोहाई ॥ त्रिपतीमेंसीतारामजी
विराजै, चौकीलक्ष्मणबाला ॥ १ ॥ रामानुजअवतारमनो
हर, राजादशरथजीकेलाला ॥ जयऔविजयदोउपौरि
याविराजै, विजयघंटझनकारा २ आठपहरफूलनकेजा
मा, ऊपरमौजदुसाला ॥ क्रीटमुकुटमकराकृतकुंडल, उ
रबैजंतीमाला ॥ ३ ॥ शंखचक्रगदापद्मविराजे, बांकेनय
नविशाला ॥ आशानंदकहेकरजोरे, मिटिगयेदुःखजं
जाला ॥ ४ ॥ ५ ॥

देखोमाई, नवलकुँवरदशरथको ॥ टेक ॥ मणिमयज
डितक्रीटअतिसुंदर, शिरमहँकेशकोटीकोअम्बुजनय
ननासिकासुंदर, कुंडलझलकतनीको ॥ १ ॥ मणिम
यजडितहारअतिसुंदर, हीरामाणिनकनीको ॥ कलित
ललितजरकसकेजामा, आभूषणपुष्पनको ॥ २ ॥ उर
सोहैमोतियनकीमाला, भृगुलक्षणछविनीको ॥ करकंक
णबाजूबँदसोहै, धनुषविराजतनीको ॥ ३ ॥ कटितूणीर
बाणकरराजे, कमलफिरावतनीको ॥ आशानंदकहेक
रजोरे, मनमोहतसबहीको ॥ ४ ॥ ६ ॥

देखोसखी, लखनललाधनुधारी ॥ टेक ॥ दशरथनंद
नचढ़ेतुरंगन, गजरथकीअसवारी ॥ हीराकलितललित

जरकसको, जामाकरगहिकंजसुधारी ॥ १ ॥ गौरवर्णद्यु
तिजोतिजगमगी, कोटिमदनछबिवारी ॥ भाथातूणल
लितकटिऊपर, पीताम्बरछबिप्यारी ॥ २ ॥ बनहुँसेआ
वततुरँगनचावत, मोहेपुरनरनारी ॥ कूहीस्वाजश्वान
बहुजातिन, संगलियेजीवसिकारी ॥ ६ ॥ खेलतफिरतवि
पिनकुंजनमें, संगसखालियेसारी ॥ मातुकौशलयाकर
तआरती, बालअलीबलिहारी ॥ ४ ॥ ७ ॥

देखोसखी, दशरथराजदुलारे ॥ टेक ॥ गौरेबरनबदन
अतिसुंदर, पीताम्बरपटवारे ॥ हीरालालजवाहिरमो
ती, मणिमालाउरडारे ॥ १ ॥ शिरचौतनियाटोपीसो
है, कुंचितकेशसवारे ॥ श्रवणकुंडलअतिबहुछबिछावै,
मनहुँगगनबिचतारे ॥ २ ॥ करमेंबाजूबंदबिजायठ, शारं
गबाणसुधारे ॥ नवलसखासबसंगमेंखेलन, चलेजातहै
सकलसिकारे ॥ ३ ॥ चढ़ेतुरँगनचलेउमंगन, पुरनरनारि
निहारे ॥ रामसखेपुरबाहेरठाढ़े, दर्शनदेप्रभुप्यारे ॥ ४ ॥
सुनोमन, रामशरणहितकारी ॥ टेक ॥ भजनभरोसा
नहिंहियमोरे, पातकबलमोहिभारी ॥ १ ॥ पापकर
तगणिकाभइपावन, कहतपुराणपुकारी ॥ चढ़िबिमा
नगइगगनअहल्या, अस्तुतिकरततुम्हारी ॥ २ ॥ व्याध
अजामिलगीधतरेसब, रहेसकलअघकारी ॥ पातकस
बकीबातसुधारी, बिदितबातयहसारी ॥ ३ ॥ ज्ञानविराग
योगजपसाधन, मोरीसुरतिविसारी ॥ लखिआचरण

शौचहियभारी, सबप्रकारमैहारी ॥ ४ ॥ ममहितविन
 यकरतअतिपातक, भवभयविकलविचारी ॥ पातकमो
 रमनावततोहिँकहँ, पातककोबलिहारी ॥ ५ ॥ पतितपु
 नीतशरणसुखदायक, रघुपतिअवधविहारी ॥ वेदवि
 दितनिजविरदसम्हारहु, रामकृपाअघटारी ॥ ६ ॥ ९ ॥
 सुनोमन, दीनदुसहदुखहारी ॥ टेक ॥ तनकभरोसोमो
 हियनाहीं, निजआचरणनिहारी ॥ १ ॥ कहतसिराहिँ
 नपातकमोरे, मैअतिदीनदुखारी ॥ दोशकोशअघअव
 गुणराजा, सबविधिभजनभिखारी ॥ २ ॥ निजअपरा
 धविपतिअतिदारुण, कहौँकहाविस्तारी ॥ रघुनंदनउ
 रअंतरयामी, जानतपीरहमारी ॥ ३ ॥ आगमनिगमपु
 राणबखानत, परमकृपालुखरारी ॥ शरणसुखदप्रण
 तारतिभंजन, कहतप्रचारिप्रचारी ॥ ४ ॥ त्रिभुवनतारण
 अधमउधारण, निरखहुनयनउघारी ॥ विरदलाजराख
 हुकरिमोपर, करुणानिजअनुहारी ॥ ५ ॥ तजिविलं
 बलखिआरतिमोरी, सबअपराधविसारी ॥ तारसक
 हुतोतारहुरघुवर, रामकृपाहियधारी ॥ ६ ॥ १० ॥
 सुनुमन, शरणसुखदहितकारी ॥ टेक ॥ रघुनंदनरघुप
 तिरघुराई, दशरथअजिरविहारी ॥ १ ॥ नाथहाथहित
 अनहितमोरा, मोकहँआसतुम्हारी ॥ तुमतजिअपरदे
 वनाहिँजानौँ, पुनिपुनिकहौँपुकारी ॥ २ ॥ तुमविनुत्रिभुव
 नकौँनकहावत, विनकारणहितकारी ॥ मोसमकहहुक

हाकेहिभावत, कुरकुटिलकुविचारी ॥ ३ ॥ यद्यपिपो
 चशोचहियनाहीं, सुनहुँकृपालुखरारी । सियस्वामिनि
 सियपियममस्वामी, सोइअवलम्बविचारी ॥ ४ ॥ स
 जिसरोषनिजसेनप्रबलअति, कठिनकृपाणसम्हारी ॥
 कलिकरालचाहतमोहिँघालन, दशनपीशिललकारी ॥
 ॥ ५ ॥ शरणसुखदकरुणानिधिदोऊ, रघुपतिजनकदु
 लारी ॥ रामकृपाक्षणक्षणगुणगावत, कलिभयभीति
 बिसारी ॥ ६ ॥ ११ ॥

सुनसियराम, बिपतिअतिमोरी ॥ टिक ॥ संतनगुणभा
 वतहियतोरे, मैंअबअवगुणबोरी ॥ १ ॥ आरतबचन
 कहौकरजोरे, सत्यशपथकरितोरी ॥ अपरभरोसनहीं
 हियमोरे, नाथहाथगतिमोरी ॥ २ ॥ सबविधिमेंसियपिय
 सियचेरी, ममहियआशनथोरी ॥ जानकिजीवनजीव
 नमोरे, जानकिजनककिशोरी ॥ ३ ॥ रामकृपामांगतर
 घुनंदन, सजलनयनकरजोरी ॥ यहवरदेहुबिनयबल
 मोकहँ, जन्मजन्ममैंतोरी ॥ ४ ॥ १२ ॥

आजबनीछविभारी, श्रीबालाजीकी ॥ टिक ॥ रत्नसिं
 हासनआपविराजत, देतहैंशोभाप्यारी ॥ १ ॥ क्रीटमुकु
 टमकराकृतकुंडल मोतियनकीछविभारी ॥ बैजयंती
 मालाअतिसोहै, पीतांबरकटिन्यारी ॥ २ ॥ किंकिणिदेखि
 अधिकमनमोहै, क्षुद्रघंटिकाभारी ॥ नूपुरघुनिसुनिमु
 निमनमोहै, ध्यानधरतत्रिपुरारी ॥ ३ ॥ यहछविदेखिसुम

नसुरबर्षे, कहँलगिवरणोंप्यारी ॥ जयजयकारकरतशो
 भापर, हाथीरामबलिहारी ॥ ४ ॥ १३ ॥
 ऐसेराम, दीनहितकारी ॥ टेक ॥ अतिकोमलकरुणा
 निधानप्रभु, बिनुकारणउपकारी ॥ १ ॥ साधनहीनदी
 ननिजअघबश, शिलाभईमुनिनारी ॥ गृहतेगवनिपर
 सिपदपावन, घोरशापतेतारी ॥ २ ॥ हिंसारतनिषाद
 तामसबश, पशुसमानवनचारी ॥ भैंटोहृदयलगायप्रेम
 बश, नहींकुलजातिविचारी ॥ ३ ॥ यद्यपिद्रोहकियोसु
 रपतिसुत, कहिनजायअतिभारी ॥ सकललोकअवलौ
 किकहतसो, शरणभयेभयटारी ॥ ४ ॥ बिहगयोनिआ
 मिषअहारबश, गिद्धकवनव्रतधारी ॥ जनकसमानक्रि
 याताकीनिज, करसबबातसँवारी ॥ ५ ॥ अधमजातिसेव
 रीयोंषितशठ, लोकबैदतेन्यारी ॥ जानिप्रीतिदेदर्शकृ
 पानिधि, सोरघुनाथउधारी ॥ ६ ॥ कपिसुग्रीवबंधुभ
 यव्याकुल, आयोशरणपुकारी ॥ सहिनसकेदारुणदुख
 जनको, हत्योबालिसहिगारी ॥ ७ ॥ रिपुकोबंधुविभी
 षणनिशिचर, कौनभजनअधिकारी ॥ शरणगयेआगे
 होइलीन्हो; भैंटयोभुजापसारी ॥ ८ ॥ अशुभहोइजिन्ह
 केसुमिरनते, बानरऋक्षविकारी ॥ वेदविदितपावनकि
 यतेसब, महिमानाथतुम्हारी ॥ ९ ॥ कहँलगिकहौंदीनअ
 गणितमैं, जिनजिनकीतुमबिपतिनिवारी ॥ कलिमलग्र
 सितदासतुलसीपर, काहेकृपाबिसारी ॥ १० ॥ १४ ॥

बोलतमधुरीबानी, रघुवरबोलत ॥ टेक ॥ क्रीटमुकुट
मकराकृतकुंडल, छविनिहिंजातबखानी ॥ हमसरजूज
लभरनजातरही, बीचरामरससानी ॥ १ ॥ बानकमान
केलोचनमारत, तकितकितोरनतानी ॥ घुंघुटमेरोछूट
गयोहै, लाज छोंड़िसुकानी ॥ २ ॥ अमरनारिनरमिले
अवधके, ये सबफिरतहैसानी ॥ लोककुटुमअबमोहिन
भावे, दशरथसुतरससानी ॥ ३ ॥ रघुवरलक्ष्मणभ
रतशत्रुहन, दशरथराजदुलारी ॥ रामसखेकोसलपुरजी
वन, रघुवरहाथबिकानी ॥ ४ ॥ १५ ॥

अवधपुरीबसभाई, मनरेतू ॥ टेक ॥ सप्तपुरीमेंश्रेष्ठअयो
ध्या, तहँबैठेरघुराई ॥ सरजूपापनकीहैहरनी, आयेब
सिष्ठजीलाई ॥ १ ॥ जाकेदर्शपर्शअघनाशे, वेदपुराण
बखानी ॥ अवधपुरीदेवनकोदुर्लभ, अपनेहाथबना
ई ॥ २ ॥ ब्रह्माशिवसनकादिदेवता, सेवतनितमनलाई ॥
वाल्मीकिनारदघटयोनी, सीखसुनीमनलाई ॥ ३ ॥ की
टपतंगसुनतगतिपावै, रामरूपहोइजाई ॥ स्वर्गलोकअ
पवर्गविभूती, अवधपुरीचलिआई ॥ ४ ॥ सहलक्ष्मणरघु
नाथजानकी, तहँविहरतसबभाई ॥ अवधपुरीकोध्या
नधरतही, भक्तिमुक्तिफलपाई ॥ ५ ॥ चारिखानिजग
जीवचराचर, अवधबसेगतिपाई ॥ रामदासभजोनवल
सियावर, भवसागरमिटजाई ॥ ६ ॥ १६ ॥
जिनकेप्रियनरामबैदेही ॥ टेकातजियेतिनहिंकोटिबैरी

सम, यद्यपि परमसनेही । १ । तजेउ पिता प्रहाद विभीषण
 बंधु भरत सहतारी । बलि गुरु तजेउ, कंत ब्रज बनिता, भये
 जगमंगलकारी ॥ २ ॥ नातोने हरामसोंकी जै, शीलसनेह
 जहांलौं अंजन कहा आंखि जो फूटै; बहुतक कही कहांलौं
 ॥ ३ ॥ सोइ सज्जन सोइ हितू हमारो, प्राण नहूते प्यारो ॥ जा
 सँग बढत सनेहुरामपद, तुलसीमतो हमारो ॥ ४ ॥ १७ ॥
 भजु मन, सरजू अवध बिहारी ॥ टेक ॥ जाको नाम लेत
 अधनाशत, आवागमन निवारी ॥ १ ॥ सरजू तीर कल्प
 तरु छैयां, जहाँ सिंहासन भारी । १ । लखि प्रकाशर विरथम
 गथाको, यकट करहे निहारी । २ । बैठेराम वामसिय सोहैं,
 अति सिंगार शुभकारी ॥ ३ ॥ सीताराम मनोहर जोरी,
 चितवनकी बलिहारी ॥ कुंडल झलकत झलकन बुलाक
 की, दमकत हृदय हमारो ॥ ४ ॥ सुरंगी टोपी शिरपर सोहैं
 कच घुंघुर वारी ॥ भाल विशाल तिलक शिर सोहैं, श्रवण
 नकुंडल भारी ॥ ५ ॥ नख शिखसेवन माल बिराजत, कौ
 स्तुभमणि शुभकारी ॥ ताऊपर गुंजा वलिकंठा, भृगुलक्ष
 ण शुभकारी ॥ ६ ॥ क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल, करस्व
 रूप उपकारी ॥ शारंगधनुष बाण करराजै, नटवर छवि
 वपुधारी ॥ ७ ॥ शिवसनकादि आदि ब्रह्मादिक, बिन
 तीकरत न्यारी न्यारी ॥ रामदास युगल छवि निरखत,
 चरण कमल बलिहारी ॥ ८ ॥ १८ ॥

इति शुक्रवारकी गौरी समाप्त ।

॥ अथशनिवारकीगौरीप्रारंभः ॥

ऐसोसियरघुवरिभरोसो॥टेक॥ बारिनबोरिसकैप्रह्ला
दहिं,पावकनाहिंजरोसो॥ गिरिऊपरसेडारिदियो है,
भूमिपरेउबरोसो॥१॥ हिरनाकुसप्रह्लादभक्तसां, हठि
हठिबैरकरोसो ॥ मारनचहतदासनरहरिको, आप
हिदुष्टमरोसो॥ २ ॥ लंकाजारिअंजनीनंदन,देखतपु
रसगरोसो॥ ताकेमध्यविभीषणकोगृह,रामकृपाउब
रोसो॥३॥ रावणसभाकठिनप्रणअंगद,हियधरिहरि
सुमिरोसो॥मेघनादसेकोटिनयोद्धा,टारेपगनटरोसो
॥४॥ दुपदसुताकोचीरदुशासन,राजसभापकरोसो॥
खैचतखैचतदोउभुजहारि,नेकनअंगउघरोसो॥५॥म
हाभारतभरुहीकेअंडा,छोहनिदलबटुरोसो॥६॥ राम
नामजबपंछीटेरे,घंटादूटिपरोसो॥७॥ मीराकेमारन
केकारन,दीन्होजहरखरोसो॥रामकृपासांअमृतहोय
गयो,हर्षितपानकरोसो॥ ८ ॥ गजअरुग्राहलडैजल
भीतर,गजकोग्राहगहोसो॥ गरुडछोडिहरिप्यादेधा
ये,डूबतगजउबरोसो॥ ९ ॥ विप्रसुदामाफिरतदुखि
तहोय,कबहुँनउदरभरोसो॥ रामकृपाकंचनगृहपाये
हयगजबाजिखरोसो॥१०॥ तुलसिदासबिश्वासराम
पद,जोनरनारिकरोसो॥ औरबिभूतिकहांलगिबर
णोंतेहियमराजडरोसो॥ ११ ॥ १ ॥

ऐसोराधाकृष्णभरोसो ॥ टेक पालाआनिपन्योत्रजऊ
 पर, इंद्रनेकोपकरोसो ॥ सातदिवसगिरिनखपरधारे,
 भूमिकोभारहरोसो ॥ ३ ॥ दावानलकोपानकियोहै, व
 त्सासुरजारोसो ॥ अघासुरमारिवकासुरमान्यो, वृषभा
 सुरमारोसो २ संगसखासबकहतकृष्णसों, सबकोदुःख
 हरोसो ॥ पौठिपतालकालियानाथ्यो, फणपरनृत्यकरो
 सो ॥ ३ ॥ अंतर्ध्यानभयेगोपियनमें, राधाध्यानधरो
 सो ॥ ब्रजवनितनकोसंगछोंडिकै, यदुवरनामधरोसो ॥
 ॥ ४ ॥ दुःशासनबलवंतजानिकै, द्रौपदिचीरगहोसो ॥
 कृष्णकृष्णकहिद्रुपदिपुकारे, अंबरजातवढोसो ॥ ५ ॥
 गजकीटेरसुनीहरिशरणै, बाहनछांड़िचलोसो ॥ विप्र
 सुदामाहरिपदभैटेउ, कंचनमहलखरोसो ॥ ६ ॥ पांडव
 केदुखहरबेकारण, कौरवनाशकरोसो ॥ कहतकवीरा
 सुनोभाईसाधो, निर्भयध्यानधरोसो ॥ ७ ॥ ॥ २ ॥

प्रगटेनरहरि, जनसुखदायक ॥ टेक ॥ खंभफोरिअद्र
 भुतवपुधारे, कियेसकलसुरपायक ॥ १ ॥ कटकटवाजत
 उग्रदंतावरि, भाजिगयेसबपायक ॥ लियोगोदप्रह्लादभ
 क्तको, भक्तबत्सलखलघायक ॥ २ ॥ उदरविदारिपहि
 रिअंत्रावलि, सिंहनादकरिभारी ॥ मथतसिंधुशोभित
 मरालइव, दधिकैकुंडमचावत ॥ ३ ॥ भवभंजनभंज
 नमहिभारा, प्रणतारतिभवहंता ॥ शांतिस्वरूपगोविंद
 चरणलखि, चारपदारथपावत ॥ ४ ॥ सुरगंधर्वयक्ष

किन्नरमुनि, जयजयकारउचारत ॥तुलसीदासआस
नरहरिकी भक्तिदानवरपावत ॥ ५ ॥ ३ ॥

जिनकेरामसदारखबारे ॥ टेक ॥ जलसेराखिअनलहु
सेराखे, गिरितेगिरतउबारे ॥खंभफोरिहिरनाकुसमा
रे, नखसेउदरबिदारे ॥१॥ रावणरारिकरीहरिजनसे,
रणचदायतेहिमारै। नहिराखेउकुलदीपधरनको, तिल
कविभीषणसारै ॥२॥ पाराशरहुर्बासाऋषिको, चक्रसुद
र्शनजारै ॥ नहिराखेहरिजनकोद्रोही, दासहिचक्रनि
वारै ॥३॥ कंसकुमतिकीन्होहरिजनसों, करगहिकंसप
छारे ॥ कुंतीपुत्रबंधुभयव्याकुल, आपुहिजायनिवारै ॥
॥४॥ जहँजहँभीरपरीसंतनके, तहँतहँआपुसिधारे ॥ तु
लसीदासआसरघुबरकी, दारुणविपतिनिवारै ॥५॥ ४॥
श्रीराघवजीकीभक्तिसदासुखदाई ॥ टेक ॥ सदासुलभ
सुखहितचिंतामणि, बेदपुराणबखानी ॥ १ ॥ महारा
जरघुबरदशरथके, जनकसुतामहारानी ॥ सेवतसंतवि
मलयशगावत, अवधपुरीरजधानी ॥२॥ सुंदरश्याम
रामरघुनंदन, राजतअवधबिहारी ॥ क्रीटमुकुटमकरा
कृतकुंडल, करगहिकमलसुधारी ॥३॥ शिवनारदप्रह्ला
दविभीषण, हनूमानउरआनी ॥ कृपारामभजुजान
किवल्लभ, संतहृदयजेहिआनी ॥ ४ ॥ ५ ॥

ऐसीभक्तिमोहिंभावे, उधोजी ॥ टेक ॥ सर्वसत्यागि
मगनहोयनाचै, जन्मकर्मगुणगावै ॥ १ ॥ कथनीकथै

निरंतरमेरी, चरणकमलचितलावै ॥ मुखहै मुरलीनय
नजलधारा, करसौं तालबजावै ॥ २ ॥ जहंजहं चरणदंत
जनमेरो, सकलतीर्थचलिआवै ॥ उनकेपदरजअंगल
गावै, कोटिजन्मसुखपावै ॥ ३ ॥ उनकीसूरतिमेरेह
दयबसतिहै, मेरीसुरतिलगावै ॥ बलिवलिजाऊंश्रीसु
खबानी, सूरदासबलिजावै ॥ ४ ॥ ६ ॥

सर्वसभगवद्गीता, हमारेधनसर्व ॥ टेक ॥ गायगायर
सनाकोरिझाऊं, हरिजनहरिरसपीता ॥ १ ॥ जोनरगी
तापठनकरतहैं, जगमैरहतउजीता ॥ उनकोकहासुक्ति
कोसंशय, तारेकुटुमसहीता ॥ २ ॥ श्रीमुखवचनसुन
तकुंतीसुत, मनआयोपरतीता ॥ यागीताकेपराक्रमहिं
सौं, दुर्योधनदलजीता ॥ ३ ॥ तीनलोकअरुसुवनचतु
र्दश श्रुतिपुराणमतगीता ॥ हृषीकेशस्वामीअघझोच
न, सहुरुदियोहैपलीता ॥ ४ ॥ ७ ॥

जबतबरामनामनिस्तारो ॥ टेक ॥ साठिधरोसैएकधरी
भजु, सोउसकलअघजारो ॥ १ ॥ काशीपुरीबसतगौरीप
तिनिशिदिननामउचारो ॥ कीटपतंगसुनतगतिपाये,
रघुकुलयशबिस्तारो ॥ २ ॥ अजामीलगणिकागृहवासी
सुतहितनामउचारो ॥ गजअरुगीधतरेहरिसुमिरत,
महिमाब्यासबरवाने ॥ ३ ॥ परमपुनीतनामरघुबरको,
हरिजनहरिव्रतधारे ॥ नामदेवसोइभक्तशिरोमणि,
चितसेपलनबिसारे ॥ ४ ॥ ८ ॥

निरखतजातजटायूरथकोनि०टेक विप्ररूपजबधरेउ
 निशाचर,जयजयकारसुनाई ॥लेकरभिक्षानिकसिजा
 नकीरथपरलेतचढ़ाई ॥ १ ॥रथऊपरसेबोलीजानकी,
 शरणशरणरघुराई ॥ हैकोइयोधातीनलोकमें, हमको
 लेतछोड़ाई ॥२॥यतनासुनिखगपतिउठिधाये,हांकदे
 तनियराई ॥ कौनकिहोतुमपरमसुंदरी, कौनहरेलिये
 जाई ॥ ३ ॥ अवधनगरराजानृपदशरथ,उनकेसुतरघु
 राई ॥ तिनकीप्रियाममनाभजानकी,हरेनिशाचरजाई
 ॥४ ॥ इतनासुनिखगपतिउठिधायो, राख्योरथबिल
 माई ॥ जाननपैहैमहाजड़मूरुख, जोहरिहोतसहाई ॥
 ॥ ५ ॥ चोंचनमारिमहाजुधकीन्हो, रथसेदियोगिरा
 ई ॥ अग्निबाणजबहनेउनिशाचर,धरणिगिरेउमुरझाई
 ॥ ६ ॥ देतअशीशजानकीमाता,प्राणराखुघटमांही ॥
 तुलसिदासरघुवरजबऐहैं, कह्योकथासमुझाई ॥७॥९॥
 हरिसौंलागिरहोमेरेभाई ॥ टेक ॥ ऐसोयत्नकरोमनमे
 रे,रामबिसारिजनिजाई ॥ १ ॥ लागेध्रुवप्रह्लादविभी
 षण, गणिकासधनकसाइ ॥ नामदेवरयदासकबीरा,
 पीपामीराबाई ॥ २ ॥ लंकालागेबंकालागे, लागेसैना
 नाई ॥ कहौंकहासेवरीकीमहिमा, मोसेवरणिनजाई ॥
 ॥ ३ ॥ निपटसनेहकरोसाधुनसे,छांडिकपटचतुराई ॥
 दयाधर्महृदयेबिचराखो,सहजमिलेरघुराई ॥४॥ जोह
 रिध्यानधरोघटभीतर,औरनआनंदउपाई रामकृपा

भजुजानकिबल्लभ, तीनोलोकबड़ाई ॥५॥ १० ॥
 हरितुम, बहुतअनुग्रहकीनो ॥ टेक ॥ साधनधामविबु
 धदुर्लभतनु, मोहिंकृपाकरिदीनो ॥ १ ॥ कोटिहुमुख
 कहिजायनप्रभुको, एकएकउपकारो ॥ तदपिनाथकछु
 औरमांगिहौं, दीजैपरमउदारो ॥ २ ॥ विषयवारिमन
 भिन्नभिन्ननिहिं, होतकबहुँपलएक ॥ तातेसाहियविपति
 अतिदारुण, जन्मतयोनिअनेक ॥ ३ ॥ कृपाडोरिवं
 सीपदअंकुश, परमप्रेममृदुचारोयहिविधिबेधिहरहुमे
 रोदुख, कौतुकरामतुम्हारो ॥ ४ ॥ हैश्रुतिविदितउपाय
 सकलसुर, केहिनादीननिहारो ॥ तुलसिदासयकजीव
 मोहरजू, जोइबांध्योसोइछोरो ॥ ५ ॥ ११ ॥
 काहेनरसनारामहिंगावहि ॥ टेक ॥ निशिदिनपरअप
 बादवृथाकित, रटिरटिबादबढ़ावहि ॥ १ ॥ नरसुखसुंद
 रमंदिरपावन, बसिजिननाहि लजावहि ॥ शशिसमी
 परहित्यागिसुधाकत, रबिकरजलकहँधावहि ॥ २ ॥
 कामकथाकलिकैरवचंदिनि, सुनतश्रवणदैभावहि ॥ ति
 नहिंहटकीकहिहरिकलकीरति, करणकलंकनशावहि
 ॥ ३ ॥ जातरूपमतियुवतिरुचिरमणि, रबिरचिहारव
 नावहि ॥ शरणसुखदरबिकुलसरोजरवि, रामनृपाहिंप
 हिरावहि ॥ ४ ॥ बादविवादखेदतजिभजिहरि,
 सरलचरितचितलावहि ॥ तुलसिदासभवतरिहितिहूं
 पुर, तेहिपुनीतयशगावहि ॥ ५ ॥ १२ ॥

जानकीजीवनकीबलिजैहैं ॥ टेक ॥ चितकहैरामसि
यापदपरिहरि, अबनकहंचलिजैहैं ॥१॥उपजीउरप्र
तीतिसपनेहुसुख, प्रभुपदाविमुखनपैहैं।मनसमेतएहन
तनबासी,इहैसिखावनदैहैं ॥२॥ श्रवणनिऔरकथान
हिंसुनिहैं, रसनाऔरनगैहैं॥रांकिहैंनयनविलोकत
औरहिं, शीशईशपदनैहैं॥३ ॥ नातेनेहनाथसांकारि
सब, नातेनेहनिबैहैं ॥ यहछरभारताहितुलसीजग,
जाकोदासकहैहैं ॥ ४ ॥ १३ ॥

केशवकहिनजाय, काकहिये ॥ टेक ॥ देखततवरचना
विचित्रअति, समुझिमनहिंमनराहिये ॥ १ ॥ शून्यभी
तिपरचित्ररंगनहिं, विनुकरलिखतचितेरो॥धोयेमितै
नमरेभीतिदुख, पाइययहतनहेरो॥२ ॥रविकरनिकर
बसतअतिदारुण, मकररूपतेहिमाहीं ॥बदनहीनसोग्र
सेचराचर, पानकरनजेहिजाहीं ॥३॥कोउकहेसत्यझूं
ठकहेकोऊ, युगलप्रबलकरिमानो ॥ तुलसिदासपरिह
रहितीनभ्रम, तब आपनपहंचानो ॥ ४ ॥ १४ ॥

मनपछतैहोअवसरबीते ॥टेक॥ दुर्लभदेहपाइनरहरि
भजु, करमबचनमनहीते॥१ ॥सहसबाहुदशबदनआ
दिनृप, बचेनकालबलीते॥हमहमकरिधनधामसवारै
अंतचलेउठिरीते ॥२॥ सुतबनितादिजानस्वारथरत,
नकरनेहउनहीते ॥ अंतहितोहितजैगेपामर,तूनतजै
अवहीते ॥ ३ ॥ अबनाथहिंअनुरागजागजड़, त्याग

दुराशाजीते ॥ बुझहिनकामअग्नि तुलसीके, विषय
भोगरसघीते ॥ ४ ॥ १५ ॥

ऐसोकोउदारजगमाहीं ॥टेक॥ विनसेवाजोद्रवतदीन
पर, रामसरिसकोउनाहीं ॥१॥ जोगतियोगविरागय
त्नकरि, नाहिंपावतमुनिज्ञानी ॥ सोगतिदीनगिद्धसेव
रीको, रामअधिककरिजानी ॥ २ ॥ जोलंकादशशीस
अर्पिकै, रावणशिवपहँलीन्ही ॥ सोसंपदाविभीषण
जनको, सकुचसहितप्रभुदीनी ॥ ३ ॥ तुलसिदाससब
भांतिसकलसुख, जोचाहैमनमेरो ॥ तौभजरामकाम
प्रदपूरण, करहिंकृपानिधितेरो ॥ ४ ॥ १६ ॥

भजुमनरामचरणदिनराती ॥टेक॥ रसनाकसनभजो
तुमहरियश, नामलेतअलसाती ॥ १ ॥ जाकोनामलेत
दारुणदुख, सुनित्रयतापबुझाती ॥ रामचंद्रकोनामअ
मीरस, सोरसकाहेनखाती ॥२॥ श्रोतासुमति सुशील
सोहरिजन, देतसलाहसोहाती ॥ लियोसनेहसुयशरघु
पतिको, सुनजुड़ातहियछाती ॥ ३ ॥ संवतसोलहसैए
कतीसा, ज्येठमासछाठिस्वाती ॥ तुलसिदासप्रभुवि
नयलिखतहै, राममिलनकीपाती ॥ ४ ॥ १७ ॥

कौनकुटिलखलकामी, मोसमकौन ॥ टेक ॥ तुमसे
काहछिपीकरुणानिधि, तुमउरअंतरयामी ॥ १ ॥ भरि
भरिउदरविषयरसपीवत, जैसेसूकरग्रामी ॥ जोतनदि
योताहिबिसरायों, ऐसोनिमकहरामी ॥ २ ॥ जहँसतसं

गतितहँअतिआलस,विषयिनसँगविश्रामी ॥ श्रीहरि
 चरणछांड़िऔरनकी, निशिदिनकरतगुलामी ॥३॥ पा
 पीपतितअधमपरनिंदक,सबपतितनमेंनामी ॥ कीजे
 कृपादासतुलसीपर, सुनियोश्रीपतिस्वामी ॥४॥ १८॥
 मनरेतूरामचरितसुनकाना ॥टेक ॥सनकसनंदनसन
 तकुमार, नारदयहीबखाना ॥ १ ॥ येहीचरितउमाप
 तिगायो, गुप्तप्रगटसोबखाना ॥ याज्ञवल्क्यकहेभरदा
 जसों, तीरथराजसुथाना ॥ २ ॥ बालापनमेंगयेध्रुवरा
 जा,सुनिनारदकोज्ञाना ॥ रामनामकीयहप्रभुताई,ग
 णिकाचढ़ीबिमाना ॥३॥काकभुशुंडिकहेखगपतिसों,
 निश्चयनिर्णयठाना ॥कामक्रोधमदलोभनिवारण,आ
 लसउरनहिआना ॥ ४ ॥ ऋषिकीकृपासेशबरीगायो
 आगमप्रभुकोजाना ॥ प्रेमसहितवाकेफलपाये, पहुँ
 चायेनिजधामा ॥ ५ ॥ यहीचरित्रविभीषणगायो,वैर
 बंधुसोंठाना ॥ लंकातजिभजिसीतापतिको, मिल्यो
 रामसोंआना ॥ ६ ॥ रामनामकीमहिमामोटी, मन
 मेरेअनुमाना ॥ तुलसीदासधन्ययहसाधू, गावेवेदपु
 राना ॥ ७ ॥ १९ ॥

जिनकीरहनिरामसेनाहीं ॥ टेक ॥ तेनरखरकूकरसू
 करसम, वृथाजियतजगमाहीं ॥ १ ॥ कामक्रोधमदलो
 भमोहमहँ, भूखप्याससबहीको ॥मानुषतनुसुरसाधुस
 राहत, सोतोनेहसियपीको ॥ २ ॥ शूरासुजनसुनिपु

णसुलक्षण, गुणियतगुणगुरुआई ॥ विनहरिभजननसु
नकेफूलत, जातनाहिकरुवाई ॥ ३ ॥ कीरतिकुलकरतू
तिहुनीकी, शीलस्वरूपसलोने ॥ तुलसिदासप्रभुरागर
हितज्यों, व्यंजनसागअलोने ॥ ४ ॥ २० ॥

रघुवर, मोहिसंगकरलीजे ॥ टेक ॥ बारबारपुरजान
नाथकहि, कारणआयसुदीजे ॥ १ ॥ यद्यपिहौंअति
अधमकुटिलमति, अपराधिनकोजायों ॥ प्रणतपाल
कोमलस्वभावजिय, जानिशरणतकिआयों ॥ २ ॥ जोमे
रेतजिचरणआनमति, कहौंहृदयकछुराखी ॥ तोपरि
हरहृदयालुदीनहित, प्रभुअभ्यंतरसाखी ॥ ३ ॥ ताते
नाथकहतमैंपुनिपुनि, प्रभुपितुमातुगुसाई ॥ भजनही
ननरदेहवृथाकरि, श्वानभेषकेनाई ॥ ४ ॥ बंधुवचनसु
निस्रवतनयनजल, राजिवनैनभरिआये ॥ तुलसिदास
प्रभुपरमकृपागहि बांहभरतउरलाये ॥ ५ ॥ २१ ॥

हिलमिलगोविंदगावें, आवोसाधूहो ॥ टेक ॥ प्रेमभक्ति
कीरीतसमझके, हितसौरामरिझावें ॥ १ ॥ सेवासुभिर
नबंधनअर्चन, नवधारासंचितलावें ॥ तालपखावजझां
झमँजीरा, सुरलीशंखबजावें ॥ २ ॥ सतसंगतिनिशि
बासरकरिके, ममतामदहिबहावें ॥ चरणदाससुकदे
वकहतहैं, उरआनंदमनावें ॥ ३ ॥ २२ ॥

॥ इतिशनिवारकीगौरीसमाप्त ॥

॥ अथ रविवारकीगौरीप्रारंभः ॥

श्रीराघवजीकी, आजुबनीछविभारी ॥ टेक ॥ सहित
जानकीरत्नसिंहासन, राजतअवधविहारी ॥ १ ॥ क्री
टमुकुटमकराकृतकुंडल, तिलकपटलद्युतिकारी। बदन
नमयंकतापत्रयमोचन, मंदहसनअतिप्यारी ॥ २ ॥ चं
दनचर्चितअंगमनोहर, उरबनमालसोहाई ॥ बाहुवि
शालविभूषणसोहै, करगहिशारंगधारी ॥ ३ ॥ कटिपर
पीतवसनकीशोभा, मोहतमदननिहारी ॥ सुरनरमुनि
जनचरणसरोरुह, ध्यानधरतत्रिपुरारी ॥ ४ ॥ चतुरस
खीमिलिकरतआरती, भरिकंचनकीथारी ॥ रामसखे
प्रभुकीछविनिरखै, गावतसुरपुरनारी ॥ ५ ॥ १ ॥
देखोमाईरामजीललाकैसेआवैं ॥ टेक ॥ रघुवंसीवाल
कसंगलीने, गजरथतुरगनचावैं ॥ हर्षदेवसुमनवहुवर्षे,
बंदीसुयशसुनावैं ॥ १ ॥ क्रीटमुकुटमकराकृतराजे, क
रगहिकमलफिरावैं ॥ बहुविधिसाजवनेराजनके, कोउ
लियेबाजउड़ावैं ॥ २ ॥ कोउलियेहरीछरीफूलनकी, को
उगलेहारपैरावैं ॥ कोउकोउललितलवंगलतातरु, हर्षि
निरखिगुणगावैं ॥ ३ ॥ अवधपुरीकुलवधूनिहारैं, निर
खिपरमसुखपावैं ॥ जानकिवल्लभआयेअवधमें, अग्र
दासबलिजावैं ॥ ४ ॥ २

श्रीरघुबर, बंधुसखालैसिधारे ॥ टेक ॥ संध्यासमयमंजु
मंडपमहँ, खेलतआपुसिधारे १ सिकराबाजकुहीसुकर

नपर, चपलतुरंगसवारै ॥ होतकोलाहलसुधिनहिंपा
 वै, श्रीपतिसखानिहारै ॥ २ ॥ भरतशत्रुहनलक्ष्मणरा
 जें, राघवप्राणपियारै ॥ रघुवरकेशिरछत्रविराजे, सो
 हतन्यारैन्यारै ॥ ३ ॥ श्रमजलविंदुबदनपरराजै, मनहुँस
 घनदिशितारै ॥ पीतांबरदामिनिद्युतिदमके, कीटमुकु
 टउजियारै ॥ ४ ॥ रघुबरमुखनिरखतकौशल्या, सुंदर
 रूपनिहारै ॥ रामानंदप्रभुकीछविनिरखे, आरतिसाजि
 उतारै ॥ ५ ॥ ३ ॥

देखोमाई, आवतअवधबिहारी ॥ टेक ॥ पागसुरंगीपें
 चकलंगी, श्रवणकुंडलझलकारी ॥ १ ॥ कंठाकलितल
 लितहीरनको, उरबनमालसोहावै ॥ तुरगनचावतकुवँ
 रमनोहर, आपुगजनअसवारी ॥ २ ॥ बहरीबाजकुही
 निजकरमा, चित्ताश्वानसिकारी ॥ तखतनपरनटनिर
 तकरतहैं, निरखतपुरनरनारी ॥ ३ ॥ अँटाचढीसबछटा
 निहारें, निरखिपरममुखपावैं ॥ रंगमहलपहुँचेरघुनंदन
 शोभासुखनिधिकारी ॥ ४ ॥ धूपढीपनैवेद्यआरती, स
 खियनसाजिउतारी ॥ कृपासखीसियपियमुखनिरखे,
 बिछुरततपतनवारी ॥ ५ ॥ ४ ॥

श्रीबनहुँसेआवतचारौभाई ॥ टेक ॥ मणिमयहरितविभू
 षणसुंदर, अंगनललितसोहाई ॥ गजरथतुरगबाहिनी
 साजे, राजतसंगसोहाई ॥ १ ॥ खेलतफिरतसकलस
 रजूतट, संगसखासभुदाई ॥ जेसृगरामबाणकेलागत,

पावतगतिसमुदाई ॥२॥शिवसनकादिआदिब्रह्मादि
क, छविबरणीनहिजाई ॥ चढ़िबिमानसुरकौतुकदेखें
पुष्पमालझरिलाई ॥ ३ ॥ कटितूणीरबाणकरलीने, अ
मितकामछविछाई। नारदादिछविदेखिमगनभये, देह
दशाबिसराई ॥४॥ज्ञानविरागयोगजपतपकरि, नहि
पावतमुनिराई ॥ बालअलीकेमनमंदिरमें, बिहरत
श्रीरघुराई ॥ ५ ॥ ५ ॥

श्रीरघुबरलागतहैमोहिंप्यारो ॥टेक ॥ अवधपुरीसरजू
तटबिहरे, दशरथप्राणपियारो ॥१॥क्रीटमुकुटमकरा
कृतकुंडल, पीतांबरपटवारो। नयनविशालमालमोति
यनकी, सखीतुमनेकनिहारो ॥२ ॥ रूपसुरूपअनूपब
नोहै, चितसेटरतनटारो। माधुरिमूरतिनिरखोसजनी
कोटिभानुउजियारो ॥३ ॥ जानकिनायकसबसुखदा
यक, गुणगणरूपअपारो ॥ अग्रअलीप्रभुकीछविनिर
खे, जीवनप्राणहमारो ॥ ४ ॥ ६ ॥

देखोमाईरघुनंदनप्रभुआवैं। टेक ॥ उपवनबागसिकार
खेलिकै, चपलतुरंगनचावैं ॥१॥ क्रीटमुकुटमकराकृ
तकुंडल, उरबनमालसोहावैं। कटिपरलटपटपीतलपे
टे, करगहिवाजउड़ावैं ॥ २ ॥ चतुरंगिणीसैन्यसँगसो
है, पचरंगध्वजाउड़ावैं ॥ घुरतनिसानभेरिसहनाई,
गरदगगनउड़िजावैं ॥ ३ ॥ बंदीजनगंधवगुणगावैं, गा
यगायप्रभुकोरिझावैं ॥ जयजयकारकरतब्रह्मादिक, इं

द्रुपुष्पझरिलावैं ॥ ४ ॥ अवधपुरीकुलवधूनिहारें, निर
खिपरमसुखपावैं ॥ मातुकौशल्याकरतआरती, अग्र
दासबलिजावैं ॥ ५ ॥ ७ ॥

देखोमाई, यदुनंदनप्रभुआवैं ॥ टेक ॥ सांझसमयगौवन
केपीछे, आछेबनिठनिआवैं ॥ १ ॥ मोरमुकुटमकराकृ
तिकुंडल, उरबनमालसोहावैं ॥ रुमकझुमकपगनूपुरवा
जे, करगहिमुरलिबजावैं ॥ २ ॥ उड़िउड़िगोरजलगतग
गनमहँ, गोकुलअतिछबिपावैं ॥ चढ़ेविमानदेवसुरहपें,
सुमनमालबरषावैं ॥ ३ ॥ गोपीगवालकरतकौतूहल, वा
जाबिमलबजावैं ॥ कंचनथालकपृग्कीवार्ता, सजिकर
भामिनिधावैं ॥ ४ ॥ द्वारेभीरभईअतिभारी, राहचलन
नहिंपावैं ॥ सूरदासयदुनंदनकीछबि, निरखिपरमसु
खपावैं ॥ ५ ॥ ८ ॥

श्रीबनहुँसेआवतचारौमैया ॥ टेक ॥ दौउश्यामलदौउ
गौरमनोहर, राजादशरथजीकेछैया ॥ १ ॥ बनहुँसेआ
वततुरगनचावत, करगहिकमलफिरैया ॥ अवधपुरीन
रनारिनिहारें, दौकरलेतबलैया ॥ २ ॥ विविधमांति
आभूषणपहिरे, मंदमंदमुसुकैया ॥ रामललाजीकोरूप
विलोके, कोटिकामछबिछैया ॥ ३ ॥ रघुबरलक्ष्मणभर
तशत्रुहन, शोभावरणिनजैया ॥ अग्रअलीप्रभुकीछबि
निरखै, करतआरतीमैया ॥ ४ ॥ ९ ॥

अयोध्याराजतभूमिकनकी ॥ टेक ॥ रंगभूमिराजतर

घुनंदन, संगलियेसुताजनककी॥रविशशिकोटिउदि
 तहमदेखे,जोरीबनीहैबनतकी ॥ १ ॥ रघुबरलक्ष्मणभ
 रतशत्रुहन, सन्मुखहैहनुमानबली॥मातुकोसल्याक
 तआरती, जयजयजयरघुबरकी ॥ २ ॥ ठुमकठुमकम
 हलनमेंबिहरें, रुमकडुमकपगनूपुरकी ॥ कृपानिवास
 कहांलगिवरणों,महिमाश्रीअवधनगरकी ॥ ३ ॥ १०
 आयेमेरेसीतारामउपासी ॥टेक॥ मुक्तिनाथहरिजन्म
 लियोहै, पूरणब्रह्मअबिनासी ॥ भालतिलकतुलसीकी
 माला, अवधपुरीकेबासी ॥ १ ॥ तीरथबरतसबैकरिआ
 ये, कोटिगयाअरुकाशी ॥ चरणधोइचरणामृतलीनो
 शीतलहोगईछाती ॥ २ ॥ रामनामजाकेहृदयबसतहै
 जगमेंरहतउदासी ॥जितचितवेंउतअभयकरतहैं, क
 टतयमकीफांसी ॥ ३ ॥ रघुबरछोंड़िऔरकोभजिहैं, ते
 नरयमपुरजासी ॥ तुलसिदासरघुबरजीकेशरणों,मिति
 गईलखचौरासी ॥ ४ ॥ ११ ॥

आयेमेरेराधाकृष्णउपासी ॥टेक॥मथुरामेंहरिजन्मलि
 योहै, पूरणब्रह्मअबिनासी॥भालतिलकपुष्पनकी माल
 वृंदावनकेबासी ॥ १ ॥ तीरथबरतसबैकरिआये,ब्रजम
 डलचौरासी ॥ चरणधोइचरणामृतलीनो, निर्मलहो
 गईछाती ॥ २ ॥ कृष्णनामजाकेहृदयबसतहैं, जगसेर
 हतउदासी ॥ जितचितवेंउतअभयकरतहैं, काटतय
 मकीफांसी ॥ ३ ॥ यदुबरछोंड़िअवरकोभजिहैं, तेनर

यमपुरजासी ॥ सूरदासगोपालकेशरणै, मिटिगईलख
चौरासी ॥ ४ ॥ १२ ॥

भजोमनरामचरणसुखदाईटेका जिनचरणनसेनिक
सीसुरसरी, शंकरजटासमाई। जटाशंकरीनामधरोहै,
त्रिभुवनतारणआई ॥ १ ॥ जिनचरणनकीचरणपादुका,
भरतरहेलवलाई ॥ सोकेवटकठरीमेंधोई, लीनोतबह
रिनावचदाई ॥ २ ॥ दंडकबनप्रभुपावनकीन्हो, ऋषि
यनत्रासमिटाई ॥ सोठाकुरतीनोलोककेस्वामी, कपट
मृगासंगघाई ॥ ३ ॥ कपिसुग्रीवबंधुभयब्याकुल, ताशिर
छत्रचदाई ॥ रिपुकोअनुजविभीषणभेटे, परसतलंका
पाई ॥ ४ ॥ शिवसनकादिआदिब्रह्मादिक, शेषसहस
मुखगाई ॥ तुलसिदासमारुतसुतमहिमा, हरिअपनेसु
खगाई ॥ ५ ॥ १३ ॥

भजुमनकृष्णचरणसुखदाई ॥ टेक ॥ जिनचरणनकी
चरणपादुका, सिंधुसुतामनलाई ॥ जयजयकृष्णकम
लदललोचन, दुखमोचनसुखदाई ॥ १ ॥ जिनचरणन
केअरसपरसते, थाहयमुनहोइजाई ॥ नंदभवनमेंजाय
विराजे, यशुमतिकेसुखदाई ॥ २ ॥ सोपूरणबसुदेवदेव
की, निरखिपरमसुखपाई ॥ छूटेबन्दकपाटउघारे, देव
सुमनझरिलाई ॥ ३ ॥ पूतनापरसपरमगतिदीनो, गृहा
देखिविसराई ॥ गोवर्धनव्रजराखिमनोहर, कालिनाग
नथिल्याई ॥ ४ ॥ कुब्जातोचंदनघसिल्याई, परसपरम

पदपाई ॥ उग्रसेनको राजतिलकदियो, जरासिंधुदुखदा
 ई ॥ ५ ॥ कुंतीपुत्रबंधुभयव्याकुल, ताशिरछत्रचढ़ाई ॥ वि
 प्रसुदामाहरिपदभेटे, कंचनपुरीबसाई ॥ ६ ॥ शिवस
 नकादिआदिब्रह्मादिक, निगमनेतियशगाई ॥ चेतन
 दाससंतनकेशरणै, पुलकनयनजलछाई ॥ ७ ॥ १४ ॥
 सांचेमनकेमीता, रघुवर ॥ टेक ॥ कबसेवरीकाशीको
 धाई, कबपढ़िआईगीता ॥ जूठेफलसेवरीकेखाये, नेक
 लाजनहिंकीता ॥ १ ॥ चरणछुवततरिगईअहल्या, गि
 ष्ठराजगतिकीता ॥ लंकापतिकोगर्बहरोहै, राजविभी
 षणदीता ॥ २ ॥ सुग्रीवसखाकियेरघुनंदन, बानरकिये
 पुनीता ॥ सखानिषादकंदफलल्यायो, कीनोअधिकप्र
 तीता ॥ ३ ॥ सुफलयज्ञमुनिजनककोकीनो, सबभूपनब
 लजीता ॥ तुलसिदासछबिनिरखिजानकी, मनवांछि
 तफललीता ॥ ४ ॥ १५ ॥

रामभजासोइजीता, जगमें ॥ टेक ॥ हाथसुमिरनीबगल
 कतरनी, पढेभागवतगीता ॥ हृदयशुद्धकीन्होनाईअ
 बहूँ, कहतसुनतदिनबीता ॥ १ ॥ आनदेवकीलज्जाकी
 नी, हरिसेरहाअलीता ॥ धनयौबनतेरोयोंहीजायगा,
 अंतसमयचलरीता ॥ २ ॥ बावरियानेबावरिलूरीफंद
 जालसबकीता ॥ कहतकबीरकालजोमारे, ज्योंमिरगा
 कोचीता ॥ ३ ॥ १६ ॥

साधोभाईगगनघटाघहरानी ॥ टेक ॥ पश्चिमदिशासे

उठीबदरिया, पूरबओरसेंपानी॥१॥ चंद्रसूर्यदोउईश
 बनाई, जोतिकियोनिरबानी ॥ अपनीअपनीओरसँ
 भारो, बहिनजाययहपानी ॥ २ ॥ शीलसंतोषकीक
 रोबावरी, ज्ञानकिबेललगावो। दूबघासमदुरीउलटावो
 बोवोहरकीधानी ॥३॥ चिंताचेतनदोउचौकमेंबैठे, चू
 कनजायमेरीधानी॥भृकुटीकोबाणहाथकरराखो, गु
 रुगमगोलादानी॥ ४॥उपजाखेतरासघरआई, आनंद
 मंगलखानी ॥राजावासेकबहुँनबोलै, निर्भयभईकिसा
 नी ॥ ५ ॥ जिनकोसतगुरुपूरोमिलोहै, तिनयहमारग
 जानी ॥ कहतकबीरसुनोभाईसाधो, रामनामनिज
 जानी ॥ ६ ॥ १७ ॥

बलिछलिकैकाकीन्हो, हरितुम०॥टेक ॥ बांधनगयेबँ
 धायेआपहि, बड़ीसयानीकीनो ॥ १ ॥ लियेलकुटिया
 द्वारेठाढ़े, निशिवासरआधीनो ॥२॥ तीनपैगवसुधाके
 कारण, बलिकोसर्वसदीनो ॥३॥ सूरदासप्रभुबलिकी
 विनती, हरिचरणनचितदीनो ॥ ४ ॥ १८ ॥

रुमझुमरुमझुमराधवजीआवैं, हाथधनुषकरबाणच
 लावैं ॥ टेक ॥ दूरिखेलनजनिजावोप्यारेरघुबर, सांझ
 परीघरआवोप्यारेरघुबर ॥ १ ॥ कौनकेअँगनामेंतुल
 सीकोबिरवा, कौनकेअँगनामेंखेलेंप्यारेरघुबर ॥२॥
 केकयिकेअँगनामेंतुलसीकोबिरवा, कौशल्युआकेअँग
 नामेंखेलेंप्यारेरघुबर ॥ ३ ॥ कौनकेछैयाकौनकेभै

या, कौनरायजीकेरामजीरमैया ॥ ४ ॥ कौशल्याके
छैयालक्ष्मणजीकेभैया, राजादशरथजीकेरामजीरमैया
॥ ५ ॥ सरजूकेनीरेतीरेतुरगनचावैं, संगसखालिये
बिहरतआवैं ॥ ६ ॥ तुलसिदासजीकेअवनाभवना,
तीनलोकरमिरहेप्यारेरघुवर ॥ ७ ॥ १९ ॥

रुमझुमरुमझुमगौविंदआवैं, हाथलकुटमुखमुरली
बजावैं ॥ टेक ॥ दूरिखेलनजनिजावोप्यारेललना, सां
झभईघरआवोप्यारेललना ॥ १ ॥ कौनकेअँगनामेंतुल
सीकोबिरवा, कौनकेअँगनामेंखेलेंप्यारेललना ॥ २ ॥
देवकीकेअँगनामेंतुलसीकोबिरवा यशुदाकेअँगनामें
खेलेंप्यारेललना ॥ ३ ॥ कौनकेछैयाकृष्णजीकौनकेभै
या, कौनमहरकेकुँवरकन्हैया ॥ ४ ॥ देवकीकेछैयाबलदा
ऊजीकेभैया, नंदमहरकेकुँवरकन्हैया ॥ ५ ॥ यमुनाकेनी
रेतीरेधेनुचरावैं, गौवनकेसँगविहरतआवैं ॥ ६ ॥ कहत
कबीरमेरेअवनाभवना, तीनलोकफिरिआवैंप्यारे
ललना ॥ ७ ॥ २० ॥

मनरे, तूचित्रकूटबसभाई ॥ टेक ॥ जहांरामसुखधाम
जानकी, सँगलक्ष्मणसुखदाई ॥ १ ॥ पयसरणीपापन
कीहरणी, जाकोक्योंननहाई ॥ जोगंगादेवनकोदुर्लभ,
सोअनसूयामाई ॥ २ ॥ जोरजकोब्रह्माशिवनारद,
मुनिखोजतमनलाई ॥ जोपदरेणुसुरनकोदुर्लभ, ले
शिवशीशचदाई ॥ ३ ॥ चित्रकूटदुमगुहाकंदरा, जहँ

विहरतरघुराई ॥ रामकृपाभञ्जुजानकिवल्लभ, औरन
आनउपाई ॥ ४ ॥ २१ ॥

संतचरणचितलाई, मनरेतूसं० ॥ टेक ॥ कलिमल
हरणचरणसंतनके सुमिरतहोतसहाई ॥ १ ॥ गंगाय
मुनाऔरसरस्वती, तीरथसकलचलेन्हाई ॥ जहँजहँच
रणपरतसंतनके, तहँतहँहोतसहाई ॥ २ ॥ संतचरण
देखतजोपावै, सातसमुद्रफिरआई ॥ कामक्रोधमदलो
भविषयवश, इनसोंलेतछोंडाई ॥ ३ ॥ सवमुनींद्रनारदा
दिकवीश्वर, वेदपुराणनगाई ॥ शेषसहसमुखरटतनिरं
तर, महिमातिननहिंपाई ॥ ४ ॥ सूरअग्रसवसंतआदि
ले, तुलसिदासमनलाई ॥ रामदाससंतनकीमहिमा
हरिअपनेमुखगाई ॥ ५ ॥ २२ ॥

संतनकेवशभाई, हरिजीसं० ॥ टेक ॥ जातिवरणकुल
जानतनाहीं, लोगकरैंचतुराई ॥ १ ॥ श्वरीजाति
भिल्लिनीहोती, बेरतोरकेलाई ॥ प्रीतिजानवाकेफलखा
ये, तीनउलोकबड़ाई ॥ २ ॥ कर्माकौनअचानिनिहोती,
हरिसोंप्रीतिलगाई ॥ छुप्पनभोगआरोगेप्रभुतुम, प
हिलेखिचरीखाई ॥ ३ ॥ नामापीपाऔरइदासा, उन
हंसेप्रीतिलगाई ॥ सैनाभक्तकोसंशयमेटो, आपभयेह
रिनाई ॥ ४ ॥ सहसअठासीऋषिमुनिहोते, तबहुँन
शंखबजाई ॥ कहतकबीरश्वपचकेआये, शंखमगनहो
यगाई ॥ ५ ॥ २३ ॥

हरिसौलगेरहोमेरेभाई, ० ॥टेक ॥ ऐसोजतनकरोमन
मेरे, रामबिसरिजिनजाई ॥ १ ॥ लागेध्रुवप्रह्लादबिभी
षण, गणिकासदनकसाई ॥ नामदेवरयदासकबीरा, पी
पामीराबाई ॥ २ ॥ लंकालागेबंकालागे, लागेसैनाना
ई ॥ कहाकहौसेवरीकीमहिमा, मोसेवरणिनजाई ॥ ३ ॥
निपटसनेहकरोसाधुनसे, छांडिकपटचतुराई ॥ दयाध
र्महृदयमेंराखो, सहजमिलेंरघुराई ॥ ४ ॥ जोहठध्यान
धरतघटभीतर, औरनआनउपाई ॥ रामकृपाभज
जानकिवल्लभ, तीनहुँलोकबड़ाई ॥ ५ ॥ २४ ॥

अबतोरामभजनकरभाई, अ० ॥टेक॥ घड़ीघड़ियाल
बाजिरहेबाजा, पहरपहरसहनाई ॥ रामभजनबिनवृ
थाजातहै, कालनिसानबजाई ॥ १ ॥ जाकीआशाकरत
होआगे, मानुषदेहनरपाई ॥ करनीतोकछुबनिनहिँआ
वै, अबकरभजनसवाई ॥ २ ॥ जोयहअवसरचूकेपामर,
फिरकैनहींभलाई ॥ लखचौरासीयोनिकेमाहीं, भट
कतहीमरजाई ॥ ३ ॥ बिनहरिभजनभलानहिँतेरा,
सत्यकहौमैरामदुहाई ॥ रामहिरामरटोनिशिवासर,
अतिशयप्रीतिलगाई ॥ ४ ॥ नानकदासरामभजुभाई,
हितचितसेलौलाई ॥ ऐसेसंतपुकारकहतहैं, दोऊभुजाउ
ठाई ॥ ५ ॥ २५ ॥

इतिरविवारकीगौरीसमाप्त ।

अथ सोमवारकी गौरी प्रारंभः ।

विश्वामित्रअवधपुरआये॥टेक॥ आवनसुनिअतिआ
तुरहोइकै, श्रवणसुनतउठिधाये ॥ १ ॥ चरणधोयबहु
बिधिकरिपूजा, आदरकरिबैठाये॥रामलखनमोहिंमां
गेदीजे, ऐसेबचनुसुनाये ॥ २ ॥ बालकजानिकहोतुम
कैसे, वेदपारनाहिंपाये ॥ विश्वरूपमहिभारउतारन, नर
स्वरूपधरिआये ॥ ३ ॥ कंपिततनगद्गदभइवाणी, प्रा
णरहेयकठाये ॥ तुलसिदासहरिरूपनिहारे, चरणकम
लचितलाये ॥ ४ ॥ १ ॥

राजन, रामलखनमोहिंदीजे ॥ टेक ॥ यशरावरोलाभ
ढोटानहु, मनसनाथसबकीजे ॥ १ ॥ डरपतअवसांचे
सनेहबश, सुतप्रभावबिनजाने ॥ वृद्धियवामदेवअरु
कुलगुरु, तुमपुनिपरमसयाने ॥ १ ॥ रिपुरणदलिमख
राखिकुशलअति, अल्पदिननघरऐहैं ॥ तुलसिदासरघु
वंशतिलककी, कविकुलकीरतिगैहैं ॥ ३ ॥ २ ॥

ऋषिसँग, हर्षिचलेदोउभाई ॥ टेक ॥ पितुपदबंदिसी
सलियोआयसु, सुनिशिषआयसुपाई ॥ १ ॥ नील
पीतपाथोजबरणबपु, वयकिशोरबनिआई ॥ शरधनु
पाणिपीतपटकटितट, कसेनिषंगवनाई ॥ २ ॥ कलित
कंठमणिमालकलेवर, चंदनखौरसोहाई। सुंदरवदनक
मलदललोचन, मुखछबिबरणिनजाई ॥ ३ ॥ पल्लवप
क्षसुमनशिरसोहत, काकहौरूपलोनाई । मनहुँमूरतिध
रिउभयभागभई, त्रिभुवनसुंदरताई ॥ ४ ॥ पैठतसरनि

शिलनिचदिचितवत, खगमृगवनरुचिराई ॥ सादरस
 भयसप्रेमपुलकिमुनि, पुनिपुनिलेतबलाई ॥ ५ ॥ ए
 कतीरतकिहतीताडुका, विद्याविप्रपढाई ॥ राख्योयज्ञ
 जीतिरजनीचर, भैजगविदितबड़ाई ॥ ६ ॥ चरणकमल
 रजपरसिअहल्या, निजपतिलोकसिधाई ॥ तुलसिदा
 सप्रभुकेबूझेमुनि, सुरसरिकथासुनाई ॥ ७ ॥ ३ ॥
 सोहतमगदोउभाई, मुनिसंग ॥ टेक ॥ तरुणतमाल
 चारुचंपकछवि, कबिसुभायकहिजाई ॥ १ ॥ भूषणव
 सनअनुहरतअंगपर, ऊगतसुंदरताई ॥ बदनमनोजस
 रोरुहलोचन, शोभारहीलुनाई ॥ २ ॥ अंशनिधनुशर
 करकमलनकटि, कसेनिषंगवनाई ॥ सकलभुवनशोभा
 सर्वसलघु, लागतनिरषिनिकाई ॥ ३ ॥ महिमृदुपथव
 नछांहसुमनसुर, हर्षिपवनसुखदाई ॥ जलथलरुहफल
 फूलसलिलसब, करतप्रेमपहुनाई ॥ ४ ॥ सकुचसभी
 तविनीतसाथगुरु, बोलनिचलनिसोहाई ॥ खगमृगसु
 भगविलोकतविचविच, लसतललितलरिकाई ॥ ५ ॥
 विद्यादईजानिविद्यानिधि, विद्यहुलह्योबडाई ॥ ख्याल
 हिंदल्योताडुकालखिमुनि, देतअसीसअघाई ॥ ६ ॥
 बूझतप्रभुसुरसरिप्रसंगकहि, निजकुलकथासुनाई ॥ गा
 धिसुवनसनेहसुखसंपति, उरआश्रमनसमाई ॥ ७ ॥ बन
 बासीबटुयतियोगीजन, साधुसिद्धसमुदाई ॥ पूजैपेखि
 प्रीतिपुलकेतन, नयनलाभलुटजाई ॥ ८ ॥ मखराखेखल

दलदलिभुजबल, बाजतबिबुधबधाई ॥ नितपथचरित
 सहिततुलसीचित, बसतलखनरघुराई ॥ ९ ॥ ४ ॥
 येदोउ, दशरथकेहैबारे ॥ टेक ॥ नामरामघनश्यामलप
 णलघु, नखसिखअंगउजियारे ॥ १ ॥ धीरवीरविरुदैत
 बांकुरे, महाबाहुबलभारे ॥ निजहितलागिमांगिआनेमै
 धर्मसेतुरखवारे ॥ २ ॥ एकतीरतकिहतीताडुका, किये
 सुरसाधुसुखारे ॥ यज्ञराखिजगसाखितोपिक्कपि, निद
 रिनिशाचरमारे ॥ ३ ॥ मुनित्रियतारिस्वयंबरदेखन,
 आयेसुनिबचनतुम्हारे ॥ येदोउदेखिपिनाकनेकजेहिं
 नृपतिलाजज्वरजारे ॥ ४ ॥ सुनिसानंदसराहसपरिजन
 बारहिंबारनिहारे ॥ पूजिसप्रेमप्रशंसिकौशिकहिं, भूप
 तिसदनसिधारे ॥ ५ ॥ शौचतअतिसनेहनिशिवासर,
 नृपहिंनखतगयेतारे ॥ पठयेबौलिभोरगुरुकेसंग, रंग
 भूमिपगधारे ॥ ६ ॥ नगरलोगसुधिपाइमुदितसब, नि
 जनिजकाजबिसारे ॥ मनहुंमघाजलउमंगिउदधिरुख,
 चलैमिलननरनारे ॥ ७ ॥ येकिशोरधनुघोरबहुतकरि, बि
 लखिबिलोकिनिहारे ॥ टन्योनचापतीन्हजिन्हसुभट
 न, कौतुककुधरउधारे ॥ येजानेबिनुजनकजानिये, क
 रिप्रणभूपहकारे ॥ नतरुसुधासागरकोपरिहरि, कूपख
 नावतखारे ॥ ९ ॥ सुषमाशीलसनेहकेसाने, मानोरूपविरं
 चिसँवारे ॥ रोमरोमपरशोभाकामशत, कोटिबारफेरि
 डारे ॥ १० ॥ कोउकहतेजप्रतापपुंजये, चितयेनजातनि

हारे ॥ छवतशरासनशलभजरेगो, दिनकरबंशदियां
 १११ ॥ एककहेकछहोइसुफलभये, जीवनजन्महमारे ॥
 वलोकैभरिनयनआजुहो, तुलसीकेप्राणपियारे ॥ १२ ॥
 जातचलेदोउभाई, जनकपुर ॥ टेक ॥ गौरष्यामसुं
 तनराजै, कोटिकामछबिछाई ॥ मंदहासमुसकात
 तहैं, शोभावरणिनजाई ॥ १ ॥ क्रीटमुकुटमकराकृ
 कुंडल, करमेंधनुषसोहाई ॥ जनकपुरीगलियनमेंबि
 मोहैंनरअरुनारी ॥ २ ॥ बालकवृंदबहुतसंगलागे
 चनाबिबिधबनाई ॥ सैनासयनकरतअपसमें, स
 भयेघरआई ॥ ३ ॥ करिपरमोदबालसबफेरे, गु
 रणनशिरनाई ॥ रामसेवकजीकेप्रभुसुखसागर, त
 कीतपनबुझाई ॥ ४ ॥ ६ ॥

भुजनपरआवतधनुषधरे ॥ टेक ॥ कटितूणीरबाण
 राजै, येभूभारहरे ॥ १ ॥ क्रीटमुकुटमकराकृतकुंडल
 रवनमालधरे ॥ इनकेदर्शपर्शपायेते, पापपहारतरे
 ॥ २ ॥ विश्वामित्रकोयज्ञसुफलकरि, गौतमनारितं
 सुंदरश्यामसलोनेसेढोटा, केसरतिलककरे ॥ ३ ॥
 नकस्वयंवरपावनकरिकै, सीतारामजीबरे ॥ तुल
 दासदरबाररामके, मोसेपतिततरे ॥ ४ ॥ ७ ॥
 देखोसखी, मुनिसंगबालककाके ॥ टेक ॥ रविशशि
 टिबदनकीशोभा, गौरश्यामतनजाके ॥ लक्ष्मणर
 कौसल्याकेजाये, दशरथनामपिताके ॥ १ ॥ क्रीट

टमकराकृतिकुंडल, धनुषबाणकरजाके ॥ गौतमऋषि
 कीनारिअहल्या, तारेचरणछुआके ॥ २ ॥ विश्वामित्र
 कोयज्ञसुफलकियो, गृहआयेराजाके ॥ सबकीअहमि
 तिहरिहैरामजी, कारजकरनसियाके ॥ ३ ॥ चतुरस
 खीमिलिचलीहैंजानकी, पूजाकरनउमाके ॥ तुलसिदा
 सबिधिआनिमिलोहै, लेखलिखाविधनाके ॥ ४ ॥ ८ ॥
 तुमऋषिसांचेकहो, ऋषिबोले ॥ टेक ॥ किसकेवालक
 किधरसेआये, जनकनगरऋषिलाये ॥ जनकनगरकी
 नारिपुरुषमिलि, सबहीपूछनधाये ॥ १ ॥ अवधनगर
 मेंदशरथराजा, सरजूउतरसुहाई ॥ रघुवरलक्ष्मणभरत
 शत्रुहनं, तीनलोकपतिराई ॥ २ ॥ क्रीटमुकुटकरधनु
 षविराजै, जगमेंकीरतिभारी ॥ विश्वामित्रकोयज्ञसफ
 करि, चरणअहल्यातारी ॥ ३ ॥ पूर्णब्रह्मसकलघट
 बासी, रामलखनदोउभाई ॥ गौरश्यामदोउसंगहमा
 रे, अवधनगरदूजभोई ॥ ४ ॥ ९ ॥
 सियाजीकेसंग, चतुरसबसखियां ॥ टेक ॥ करतप्रका
 शफिरतफुलवारी, संगलियेसबसखियां ॥ १ ॥ भवन
 समीपतडागबागबर, देखनकोअभिलषियां ॥ रामरमा
 पतिकबहुँकेआये, दोउमिलिभईअभिलषियां ॥ २ ॥
 कहाभयोगौरीकेपूजे, पलकनलागतअखियां ॥ सुंदर
 श्यामरामरघुनंदन, हृदयमध्यधरिरखियां ॥ ३ ॥ शारद
 शेषमहेशजीगावैं, बेदपारनहिंपावैं ॥ कृपानिवासराम
 जीकीमूरति, हृदयमांझलिखिरखियां ॥ ४ ॥ १० ॥

येदोकुँवर, अयोध्यावारे ॥ टेक ॥ बाललीलासरजूत
 दबिहरे, सुंदरराजदुलारे ॥ १ ॥ विश्वामित्रकोयज्ञसुफ
 लकियो असुरमारिसुरथापे ॥ गौतमनारिअहल्यातार
 जनकपुरीपगधारे ॥ २ ॥ राजाजनकजीकेयज्ञमेंठाढ़े,
 शोभितराजदुलारे ॥ मानहुँसिंहपेरगजदलमें, नृपनके
 यूथबिदारे ॥ ३ ॥ लक्ष्मणकहेंसुनुहुँप्रभुमेरे, विश्वकेपा
 लनहारे ॥ कोटिकोटिब्रह्मांडकेकर्ताकेतिकधनुषबिचा
 रे ॥ ४ ॥ बांयेचरणचापगहिलीन्हो, खंडखंडकरिडारे ॥
 देखतहीदुरिगईसभासब, सूर्यउदयजिमितारे ॥ ५ ॥
 बाजाबाजेबिनाबजाये, सोहतन्यारेन्यारे ॥ नचहिंनव
 लअप्सरामुदितमन, बंदीवेदउचारे ॥ ६ ॥ शिवसन
 कादिआदिब्रह्मादिक, निगमनेतियशगावैं ॥ तुलसीदा
 सआशरघुवरकी, लैसंतनउरधारे ॥ ७ ॥ ११ ॥
 शंभुजीको, तोन्योधनुषरघुराई ॥ टेक ॥ रघुवरचलेज
 नकपुरव्याहन, लक्ष्मणसंगलगाई ॥ देशदेशकेभूपजुरे
 हैं, बैठेअंगफुलाई ॥ १ ॥ जयजयकारभयोत्रिभुवनमें, दे
 वसुमनझरिलाई ॥ बड़ेबड़ेबरिगजेंद्रसेयोधा, थकिकै
 शीसनवाई ॥ २ ॥ परशुरामक्रोधेतनासुनि, जनकनग
 रचलिआई ॥ देखिडरेनरनारिसभाके, जहँतहँरहेलुका
 ई ॥ ३ ॥ ऐसेबीरभयोत्रिभुवनमें, शिवकोचापचढ़ाई ॥
 कहुजड़जनकधनुषकिनतो-न्यो, सोतुमदेहुबताई ॥ ४ ॥
 येतनासुनिलक्ष्मणउठिबाले, फरसालैकेधाई ॥ बालक

जानिबधौंनहींतोहीं,जानेंकाप्रभुताई ॥ ५ ॥ सहसर
 भुजासहस्रार्जुनके,काटेबीरकहाई ॥ बहुतदिननको
 शंभुशरासन,छुवतैदोषलगाई ॥ ६ ॥ हमक्षत्रियतुमवि
 प्रगोसाई,हमतुमकौनलराई ॥ जोकोईवीरचदैरणभी
 तर,कोउनहिंपीठदेखाई ॥ ७ ॥ रामबचनसुनिज्ञानप्रग
 टभयो,धनुसौंपेउरघुराई ।तुलसिदासबलिहारीचरण
 की,तबसुनिगयेशिरनाई ॥ ८ ॥ १२ ॥

जनकपुर,घरघरबजतबधाई ॥ टेक ॥ लक्ष्मणरामसंग
 कौशिकसुनि,रंगभवनहरिआये ॥ १ ॥ सबमंचनतेमंच
 श्रेष्ठयक,रत्नजड़ावबनाई ॥ गुरुसमेतसंगतहँरघुनंद
 न,ताऊपरबैठाई ॥ २ ॥ देशदेशकेभूपतिनाना,धनु
 षयज्ञसुनिआयेभूपसहसदशएकहिबारा लगेउठावन
 आई ॥ ३ ॥ डिगेउनशंभुशराशनकैसेउ,अधिक२गरुआ
 ई ॥ ताहीसमयतानिरघुनंदन,खंडखंडकरिडारी ॥ ४ ॥ ज
 यजयकारभयोसुरपुरमें,देवनडुंडुभिबजाई ॥ नचहिँन
 बलअप्सरामुदितमन,आनंदइरनसमाई ॥ ५ ॥ करि
 सिंगारसखीलैआई,शोभावरणिनजाई ॥ करसरोजज
 यमालसोहाई,रघुवरउरपहिराई ॥ ६ ॥ सीताब्याहि
 अवधहरिआयेमंगलचारबनाई मातुकौशिल्याकरत
 आरती,तुलसिदासगुणगाई ॥ ७ ॥ १३ ॥

जनकजीकेअँगना,भीरभईभारी ॥ टके ॥ साजिबरा
 तचलेराजादशरथ,हयगजकीअसवारी ॥ झकतझरो

खेलागिसुंदरी, आवतअवधबिहारी ॥ १ ॥ सीताराम
 युगलमिलिबैठे, देखनआयेत्रिपुरारी ॥ सुरनरमुनिब्र
 ह्मादिदेवता, जयजयकारउचारी ॥ २ ॥ सियाकरकंक
 णरघुवरछोरें, गाढ़ीगांठिलगाई ॥ खोलतरामखुलतन
 हिंकंकण, नारिहँसीदैतारी ॥ ३ ॥ चुरिआयेरनिवास
 मुदितमन, देतर मकोगारी ॥ तुमसेरघुवरछटतनाहीं
 बोलिलेहुमहतारी ॥ ४ ॥ बोलीउमासनेहः ॥ ५ ॥ का
 सकुचावहुनारी ॥ तोरतधनुषबिलमनहिंकीन्हो, कंक
 णकहाबिचारी ॥ ५ ॥ अंचलओटसियामुसकानी, त
 नकीदशाविसारी ॥ नेवछावरसबहीकरिडारे, तुल
 सिदासबलिहारी ॥ ६ ॥ १ ४

रामहिंनीके, निरखिसुनयनी ॥ टेक ॥ मनमहँसमुझिअ
 गमयहिअवसर, करतसकुचपिकबयनी ॥ १ ॥ बड़ेभाग्य
 मखभूमिप्रगटभइ, सियासुमंगलदेनी ॥ जोकारणलोच
 नगोचरभइ, मूरतिसबसुखदेनी ॥ २ ॥ कुलगुरुतियकेब
 चनमधुरसुनि, जनकयुवतिमतिपयनी ॥ तुलसीशिथि
 लेदेहसुधिकरसब, सहजसनेहविषयनी ॥ ३ ॥ १५ ॥
 जबदौउ, दशरथकुँवरबिलोके ॥ टेक ॥ जनकनगरनर
 नारिमुदितमन, निरखिनयनपलरोंके ॥ १ ॥ बयकिशो
 रघनतड़ितबरणछवि, नखशिखअंगलोनार्ईदैंचितके
 हितलैसबछबिबित, विधिनिजहाथसँवांरे ॥ २ ॥ संक
 टनृपहिंशोचअतिसीतहिं, भूपसकुचशिरनाये ॥ उठेरा

मरघुकुलकलकेहरि, गुरुअनुशासनपाये ॥३॥ कौतुक
 हीकोदंडखंडिप्रभु, जयअरुजानकिपाये ॥ तुलसिदास
 कीरतिरघुबरकी, मुनिजनतिहुँपुरगाये ॥ ४ ॥ १६ ॥
 कठिनधनुषकैसेतोच्यो, श्रीराघवजीने ॥ टेका ॥ वड़ेवड़े
 भूपसप्तद्वीपनके, उनहूँनेकनमोरे ॥ १ ॥ पितुअसीसज
 बदियोहमारे, विश्वामित्रसहाई ॥ यातेजोरभयोजव
 मेरे, तासौलियोउठाई ॥ २ ॥ हाथचूममुखचूमतकौश
 ल्या, बाजतअवधबधाई ॥ तुलसिदासरघुवीरवदन
 पर, बारबारबलिजाई ॥ ३ ॥ १७ ॥

॥ इति सोमवारकीगौरी समाप्त ।

॥ अथ मंगलवारकीगौरी प्रारंभः ।

कौनदिशासेआये, पवनसुत ॥ टेका ॥ उत्तरखंडअयो
 ध्यानगरी, ऋष्यमूकसेआये ॥ १ ॥ कौनकेपुत्रकौनकेपा
 यक, कवनेकुँवरपठाये ॥ २ ॥ कहांछोँड़ेरामकहांछोँड़े
 लक्ष्मण, कहांतेमुद्रालाये ॥ बनहिमेंरामबनहिमेंलक्ष्मण,
 बनहीसेमुद्रालाये ॥ ३ ॥ कौनकेसतसेसागरउतरे, कौ
 नसँदेसालाये ॥ सीताकेसतसेसागरउतरे, रामसँदेसा
 लाये ॥ ४ ॥ सुनिसुनिबचनसियाबनचरके, नयननीर
 भरिआये ॥ अबजिनशोचकरोमेरीमाता, रामसहितद
 लआये ॥ ५ ॥ रावणमारिअभीलैजाऊं, रामआज्ञा
 नहिंपाये ॥ तुलसिदासहनुमानभरोसे, सोवतसिंहज
 गाये ॥ ६ ॥ १ ॥

रघुबुर, कबकरिहैगेफेरा ॥ टेक ॥ सैनाजोरिसमुद्रप
रपहुंचे, उतरेजायसुबेला ॥ १ ॥ लालहैतबुआजरद
किनारी, रामलषणकेडेरा ॥ बानरभीलुदेइकिलकारी,
जायलंकगढ़घेरा ॥ २ ॥ घरघरलंकाफूंकिदियोहै, ह
नूमानअलबेला ॥ तुलसिदासप्रभुरूपनिहारे, हरिच
रणनकेचेरा ॥ ३ ॥ २ ॥

यकदिन, रामआज्ञाजोपावों ॥ टेक ॥ सातसमुद्रछिन
हिमेंसोखों, लंकामेंधूरिउडावों ॥ लंकाकेसबरखंभउखा
रों, उठायआयाध्यैल्यावों ॥ १ ॥ पैठिपतालतोरिय
मकातरि, कालिनाथिलैआवों ॥ इंद्रहुकोइंद्रासनतौरों,
सूर्यकोरथबिलमावों ॥ २ ॥ लंकाअसकोटसमुद्रअ
सिखाई, बैदसुखेनहिल्यावों ॥ कालनेमिकोकरोंस
हारो, मूलसजीवनिल्यावों ॥ ३ ॥ रावणकेदशमस्तक
छेदों, जानकीराममिलावों ॥ तुलसिदासरघुनाथभरो
से, अंजनीलालकहावों ॥ ४ ॥ ३ ॥

जोमैं, रामरजायसुपायो ॥ टेक ॥ गलमेलीमुद्रिकासु
दितमन, कपिराजहिंशिरनायो ॥ १ ॥ भालुनाथनलनील
साथचले, बलीबालिकोजायो ॥ फरकिअंगभयेसगुनक
हतमानो, मगमुदमंगलछायो ॥ २ ॥ देखिवीरसुधिपायगृ
धसे, सबनिअपनबलपायो ॥ सुमिरिरामतकितरकि
तोयनिधि, लंकलूमसोआयो ॥ ३ ॥ खोजतघरघरज

नुदरिद्रमन, फिरतलागिधनधायो॥तुलसीसियबिलो
 किपुलक्योतन,भूरिभागभइभायो ॥ ४ ॥ ४ ॥
 हरकोदंड, कठिनजिनतोरा ॥ टेक ॥ कहतमँदोदरि
 सुनुपियरावण,बानरभालुबटोरा।सेतुबांधिदलपारउ
 तरिआये, सोरभयोचहुँओरा ॥१॥सूर्पणखाकोरूपह
 ज्योहै,खरदूषणमदतोरा॥उनसेबैरकबहुँनहिंकीजे वि
 . तीकरौंकरजोरा॥२॥रामलषणदोउबीरधुरंधर ,पव
 नतनयबलजोरा॥जामवंतसुग्रीवनीलनल, कालसमा
 नकठोरा॥३॥तामेंमिलोविभीषणदेवर,बंधुलगेपियतो
 रा॥लंकाजरिकैगरदमिलीहै,जसपत्थरकेरोरा ॥४॥दो
 उकरजोरिसियालैआगे,मिलनचलोपियमोरा ॥ तुल
 सिदासप्रभुशीलकेस्वामी,मानुबचनपतिमोरा॥५॥५।
 देखोपिया, जनकसुतापतिआये ॥ टेक ॥ डिगैसुमेरु
 दसौदिशिहालैं, गरदभानुरथछाये ॥ सियलेमिलोकि
 पुरतेभाजो, सिंधुसाजिरथआये ॥१ ॥ मिलेआनधा
 रनदशरथसुत,सोनेकोसिंधुबंधाये॥अबलेमिलौमिल
 बेकोअवसर, जबलौंपारनआये ॥२॥ अहोपियातुम
 मानतनाहीं, बहुबिधिकहिसमझाये॥आयोहतोबालि
 सुतअंगद, काहेनपगहुँसमाये ॥ ३ ॥ अरेनखेदडरत
 हौअबला, काहेभरमगमाये ॥ मोहिँबरदानदियो
 हैशंभुने,पायोसोकालबंधावो ॥४॥बंदरएकनामगंधर
 मा,रामदूतसोइआयो ॥उड़िउड़िदैत्यदसोदिशिभाजे

चहुँदिशिलवनाछायो ॥ ५ ॥ सागरपारसैन्यसबआई,
गढ़लंकानभछायो ॥ तुलसिदासप्रभुपारउतरिआये,
विनतीकरोकरजोरी ॥ ६ ॥ ६ ॥

सबतजिमैरघुपतिपहँजैहैं ॥ टैक ॥ जननीशपथखा
तहौँतेरी, फिरिनिहिबदनदिखैहैं ॥ १ ॥ तजिहौराजस
माजलंकको, अनुचरजायकहैहैं ॥ क्षमिहैंसबअपराध
रामजी, अपनेशरणलगैहैं ॥ २ ॥ चरणघावउरदियो
दशानन, कैसेशूलमिटैहैं ॥ ऐसोहितदूसरकोउनाहिं
न, जासोंखबरजनैहैं ॥ ३ ॥ बारबारकहेबचनविभीष
ण, ऐसोदावनपैहैं ॥ तुलसिदासरघुनाथहाथअब, मैंवि
नुदामबिकैहैं ॥ ४ ॥ ७ ॥

कुटुमतजि, शरणरामकेआये। टैकातजिगढ़लंकमहल
अरुमंदिर, नामसुनतउठिधाये ॥ १ ॥ भरीसभामैरावण
बैठो, परहितलातचलाये। भूरखबंधुकहानहिंमाने, बार
बारसमुझाये २ आवतहीलंकापतिकीनो, हरिहैंसिकंठ
लगाये। जन्मजन्मकेमिटैपराछित, रामदरशजबपाये
। ३। श्रीरघुनाथअनाथकेबंधू, दीनजानिअपनाये ॥ तुल
सिदासभजुनवलसियाबर, भक्तिअभयपदपाये ॥ ४ ॥
तैमेरोदूधलजायोपवनसुत, तै ० ॥ टैक ॥ लंकाजायक
हाकरिआयो, बागमधुरफलपाये ॥ जानकीक्योंनध
न्योशिरऊपर, लंकाक्योंनहिल्लाये ॥ १ ॥ यहसुनवातक
हतमातासंग, रामआज्ञानहिंपाये ॥ आज्ञाभंगकब

हूँ नहिंकीजै, यहीपरनमोहिंभाये ॥२॥ मातारोपकरत
सुतऊपर, धरणीपर्वतफोन्यो ॥ ऐसोदूधकोपीवनहा
रो, रावणक्यो नहिंमायो ॥ ३ ॥ अंजनीकेपुत्ररामजी
केपायक, शिवजीकेलालकहायो ॥ तुलसिदासलंकाप
रहंका, हनुमतबीरास्वायो ॥ ४ ॥

अबगढ़फिरिगईरामदोहाई ॥ टेक ॥ कहतमंदोदरिसु
नुपियरावण, कौनकुमतिभरसाई ॥ ओछीबुद्धिकर्म
तुमकीन्हो, तिरियाहरतपराई ॥ १ ॥ कंचनकोटोदेख
मतिभूलो, औरसमुद्रअसिखाई ॥ पवनकेपुत्रमहाबल
दाई, छिनमेंलंकजराई ॥ २ ॥ हमरावणदशसस्तकमे
रे, कुंभकरणबलभाई ॥ सहस्रयोद्धामेरेखवारे, कहा
करेंदोउभाई ॥ ३ ॥ जोरावणतुमहरिसोमिलते, देत
अयोध्याठाई ॥ कहतकबीरसुनोंभाईसाधो, लंकवि
भीषणपाई ॥ ४ ॥ १० ॥

जबकरराघवबाणधरेंगे ॥ टेक ॥ सँगरबुनाथभोरव
नचरकी, कपिलकोपिचढ़ेंगे ॥ इयासघटाघनझुंकोहै
अँधेरी, सूर्यहुगगनछिपेंगे ॥ १ ॥ पँचरँगवाणरामलक्ष्म
णके, सागरतीररोपेंगे ॥ जोसागरकोगर्वकरतहै,
तापरसेतुबंधेंगे ॥ २ ॥ लंकासोकोटसमुद्रअसिखा
ई, थरहरभूमिपरेंगे ॥ जासवंतहनुमाननीलनल, महाधु
निगर्जकरेंगे ॥ ३ ॥ रातिभयानकसपनादेखो, लंका
कोटलुटेंगे ॥ नामविभीषणबंधुतुम्हारे, रघुपतिजाय

मिलेंगे ॥४॥ मेघनादसेपुत्रतुम्हारे, वीरहिधीरधरेंगे ॥
 कुंभकर्णबलबंधुतुम्हारे, रणमेंजूझिमरेंगे ॥५॥ अहि
 रावणसेयोधामरिहैं, लंकामेंशोकपरेंगे ॥ चौंसठियोगि
 निमंगलगावैं, स्वप्परबीरभरेंगे ॥ ६ ॥ दशशिरछेदि
 बीसभुजतारे, एकहिबाणहरेंगे ॥ जोनारदमुनिमुखसे
 भाखी, भारतरामकरेंगे ॥७॥ श्रीरघुनाथअनाथकेबंधू,
 शरणैजायपरेंगे ॥ अग्रकेस्वामीलैमिलोजानकी, कछु
 दिनराजकरोगे ॥ ८ ॥ ११ ॥

अबदेखोरामध्वजाफहरानी ॥टेक॥ झलकतढालफरा
 कतनेजा, गरदउड़ीअसमानी ॥ लक्ष्मणबीरबालिसुत
 अंगद, हनूमानअगवानी ॥१॥ कहतमंदोदरिसुनुपिय
 रावण, त्रिभुवनपतिसैठानी ॥ जोसागरकोगर्भकतहै
 तापरशिलउतरानी ॥२॥ तिरियाजातिबुद्धिकीओछी
 उनहींकीकरतबड़ाई ॥ भुवमंडलसेपकरिमंगावों, ओ
 तपसीदोउभाई ॥४॥ हनूमानसेपायकउनके, लक्ष्मण
 सेबलभाई ॥ जरतअगिनिमेंकूदिपरतहैं, कोटगनेनाहिं
 खाई ॥ ४ ॥ मेघनादसेपुत्रहमारें, कुंभकर्णबलभाई ॥
 एकवारसन्मुखहोइलडिहों, युगयुगहोतबड़ाई ॥ ५ ॥
 कहतिमंदोदरिसुनुपियरावण, तैमेरीएकनमानी ॥ रैन
 कोसपनोऐसोभयोहै, सोनेकीलंकालुटानी ॥६॥ बंदर
 एकलंकबिचआयो, घरघरधूममचाई ॥ बागउखारिस
 मुद्रबिचडारे, लंकामेंआगिलगाई ॥ ७ ॥ गर्वीरावणग

र्वनकीजै, गर्वहिलंकलुटाई ॥ जायमिलोरघुनाथकुँवर
से, लंकअचलहोइजाई ॥ ८ ॥ एकलखपुत्रसवालखना
ती, मौत आपनीठानी ॥ अग्रकेस्वामीगढ़लंकाघरे, अ
जहुँनचेतअभिमानो ॥ ९ ॥ १२ ॥

जोमैंजानकीनाथकहावों ॥ टेक ॥ सुनुसुग्रीवप्रतिज्ञामे
री, रावणकुटुंबबहावों ॥ १ ॥ जास्बवानहनुमाननील
नल, बालिसुवनलैजावों ॥ बांधाँउदधिपद्मअष्टादश, लं
काकोटढहावों ॥ २ ॥ रावणकेदशमस्तकछेदों, असुरज
हांलगिपावों ॥ बाणनमारिवैहालकराँगो, देवनवंदिछो
डावों ॥ ४ ॥ लंकाराजविभीषणदेहों, युगयुगछत्रफिरावों
तुलसीदासप्रतिज्ञामेरी, सियासहितघरआवों ॥ ४।१३।

॥ इति मंगलवारकी गौरी समाप्त ॥

॥ अथ बुधवारकी गौरी प्रारंभः ॥

यशोदामैयादेखतकोकान्होबारो ॥ टेक ॥ मथुरामेंहरि
जन्मलियोहै, तीनलोकउजियारो ॥ केशपकरिहरि
कंसपछारो, जीतोमल्लअखारो ॥ १ ॥ निर्मलजलयमु
नाजीकोकरिकै, नागनाथिलायोकारो ॥ फणपरनृत्य
करतमनमोहन, सुंदरश्यामहुलारो ॥ २ ॥ अतिसुकु
मारकमलहूतकोमल, गिरिगोवर्धनधारो ॥ डूबततेव्रज
राखिलियोहै, गर्वइंद्रकोमारो ॥ ३ ॥ हैकोउबड़ोदेवदे
वनमें, यशुमतिपुत्रतुम्हारो ॥ सूरदासहरिरूपनिहारो
जीवनप्राणहमारो ॥ ४ ॥ १ ॥

यदुबरलागतहैमोहिंप्यारो॥टेक॥मथुरामेंहरिजन्मति
योहै, गोकुलमेंपगधारो ॥ जन्मतहीपूतनागतिदीनो
अधमउधारनहारो ॥ १ ॥ यमुनाकेनीरेतीरेधेनुचरावै
ओढ़ेकामरिकारो ॥ सुंदरबदनकमलदललोचन, पीता
बरपटवारो ॥ २ ॥ मोरमुकुटमकराकृतकुंडल, करमें
मुरलीधारो॥शंखचक्रगदापद्मविराजै, संतनकोरखवा
रो ॥ ३ ॥ जलडूबतव्रजराखिलियोहै, करपरगिरिवर
धारो ॥ मीराकेप्रभुगिरिधरनागर, जीवनप्राणहमा
रो ॥ ४ ॥ २ ॥

ग्वालिनीक्योंठाढ़ीनंदपौंरी॥टेक॥ बारबारइतउतफि
रआवे, विजयाखायभईबौरी॥नंदनंदनसेकवनकाम
है, हमसेक्योंनकहोरी ॥ १ ॥ सुंदरश्यामसलीनेढो
टा, उनदधिलेनकहोरी ॥ हमसेकहैंतुमनेकखड़ीरहो,
आपुनबैठरहोरी ॥ २ ॥ नवलखधेनुनंदबाबाके, ती
रोहिलेनकहोरी ॥ यौवनमातीफिरतिग्वालिनी, तैंमे
रोलालठगोरी ॥ ३ ॥ इतनासुनिकैनिकसिआयेमो
हन, दधिकोमोलकहोरी, परमानंदस्वामीरूपलोभाने
॥अबदधिभलोबिकोरी ॥ ४ ॥ ३ ॥

मगनभईसुनिबंसीकीटेरी ॥टेक ॥ पनियाकेमिसनि
कसीअकेली, गौउआअचवनकीबेरी ॥ १ ॥ गजकी
चालचलैमृगनयनी, चपलनयनचितहेरी ॥ आजु
कीशोभामोसेवरणिनजाई श्यामघटाघनेधरी॥ २ ॥

आजुसखीब्रजराजबजायोशंखघंटघनघोरी ॥ मुरली
कीधुनिसुनिभईहैंबावरी, श्याममिलनकीवेरी ॥ ३ ॥ सा
सूपूछेसुनहुबहुरिया, कहांलगाईअतिदेरी ॥ परमानंद
स्वामीमिलेगेलमें, तातेभईअवेरी ॥ ४ ॥ ४ ॥

ग्वालिनितैमेरोगेंदचोराई ॥ टेक ॥ खेलतगेंदगिरांतरे
अँगना, अँगियाबीचछिपाई ॥ १ ॥ सांचेलालझूठम
तिबोले, अँगियातकतपराई ॥ जोअँगियाविचगेंदन
निकसे, भूलिजाइचतुराई ॥ २ ॥ काहेकोगेंदकाहेको
धागा, कौनकेहाथबनाई, फूलनकोगेंदरेशमकोधागा,
यशुमतिहाथबनाई ॥ ३ ॥ हँसिहँसिवातकरतराधेसे
इतमेंयशोदामैयाआई।सूरदासप्रभुचतुरकन्हैया, एक
गेंददुइपाई ॥ ४ ॥ ५ ॥

माईमेरोरूठेबालगोविंदा ॥ टेक ॥ करिकरिअंगुलीग
गनदेखावत, खेलनमांगेचंदा ॥ २ ॥ भाजनमेंजलमें
लियशोदा, प्रभुकोचंदादिखावे ॥ रुदनकरतदूढ़तजल
भीतर, चंदधरननहिँआवे ॥ २ ॥ दूधदहीसाखनघृत
रोटी, खावेमेरोछौना ॥ मांगिवोहरिकोऔरनटरही
यहिविधिखेलेललना ॥ ३ ॥ भक्तउधारनअभुसंहार
न, मेरेप्रभुकंसनिकंदा ॥ येछबिकीबलिहारियशोदा,
वारीपरमानंदा ॥ ४ ॥ ६ ॥

आजुमेरेकहांअटकेगिरिधारी ॥ टेक ॥ खोजतखोजत
फिरतिजशोदा, घरघरकरतपुछारी ॥ काशनकवनला

लनाहँआये,कंसकालभयभारी ॥ १ ॥ यूथयूथसाखि
याचलिआई,देतजशोदाकोगारी ॥ नंदनंदनकोजोर
जुठौनो,खँचतअंचलसारी ॥ २ ॥ रुमकझुमकमोहनच
लिआए,नयनननीरभरिवारी ॥ मुरलीमेरीछीनलईहै,
इनसाखियनमोहिँमारी ॥ ३ ॥ हँसिमुसुकायकहतराधे
जी,दूषणनाहिँहमारी ॥ श्यामसुंदरमेंतुम्हरेदरसको,
चंद्रसखीबलिहारी ॥ ४ ॥ ७ ॥

नेकचलोनँदरानीउहांलुगि ॥ टेक ॥ देखोअपनेसुतकी
करनी,दूधमिलावतपानी ॥ १ ॥ हमरेशिरकीनईचु
नरिया,लेगोरसमेंसानी ॥ २ ॥ हमरेउनसेकउनबादहै,
हमेंदेखावतजवानी ॥ ३ ॥ तुम्हरेकुलकीऐसीबतियां,
सोहमरेसबजानी ॥ ४ ॥ पितातुम्हारिकंसघरबांधे,आ
पकहावतदानी ॥ ५ ॥ यहब्रजकोबसबोहमत्यागो,आ
परहोरजधानी ॥ ६ ॥ सूरदासऊपरकीवर्षा,थोरेजल
उतरानी ॥ ७ ॥ ८ ॥

हरिजीसेकौनदुहावतगैया ॥ टेक ॥ कारेआपकामरी
कारी,आवतचोरकन्हैया ॥ १ ॥ कनकदोहनीसोहैहा
थमें,दुहनबैठेअधपैया ॥ २ ॥ खनदूहतखनधारचला
वतचितवनमेंसुसकैया ॥ ३ ॥ गोपनछोंडिगहेमेरोअं
चल,यहीसिखायोतेरीमैया ॥ ४ ॥ चंद्रसखीभजुबाल
कृष्णछवि,चरणकमलबलिजैया ॥ ५ ॥ ९ ॥
यशोदामैयाकाहेनमंगलगावै ॥ टेक ॥ पूरणब्रह्मअखि

लअविनाशी,सोतेरीधेनुचरावै ॥ १ ॥ कोटिकोटिब्र
ह्मांडकेभर्ता,जपतध्याननहिँआवै॥नाजानोयहकौन
पुण्यसे,यशुमतिगोदखेलावै ॥ २ ॥ शिवसनकादिआ
दिब्रह्मादिक,निगमनेतियशगावै ॥ शेषसहसमुखरट
तनिरंतर,सोवाकोपारनपावै ॥ ३ ॥ सुंदरवदनकमलद
ललोचन,गोधनकेसंगआवै ॥ मातायशोदाकरतआ
रती,कबिरादर्शनपावै ॥ ४ ॥ १० ॥

बनहुँसेआवतधेनुचराये ॥टेक ॥आगेआगेधेनुपीछेय
दुनंदन,ब्रजरजमुखलपटायै ॥ १ ॥ मोरमुकूटमकरा
कृतकुंडल,उरबनमालसुहाये ॥ बाहुविशालविभूषण
सोहै,करगहिकमलफिराये ॥ २ ॥ चंदनचर्चितअंगम
नोहर,भृगुलक्षणछबिछाये॥शेषसहसमुखरटतनिरंत
र,सोवाकोपारनपाये ॥ ३ ॥ कम्बुकंठकौस्तुभमाणि
राजै,शोभावरणिनजाये ॥ घूंघरवारेअलकवदनपर,
मधुकररहैलोभाये ॥ ४ ॥ चढेबिमानदेवमुनिहषै,पुष्प
मालझरिलाये॥कृष्णदासप्रभुकीछबिनिरखे,चरणक
मलचितलाये ॥ ५ ॥ ॥ ११ ॥

बनहुँसेआवतगावतगौरी ॥टेक ॥ आगेआगेधेनुपी
छेनंदन,लालायशुमतिकोरी ॥ १ ॥ अँटाचढीब्रज
वधूनिहारं,निरखिपरमपदपावैरी॥आवतदेखेश्याम
मनोहरपुष्पमाललैदोरी ॥ २ ॥ अधरनमुरलीधरेमनमो
हन,सबब्रजनारिठगोरी ॥ आजकीशोभामोसेवरणि

नजाई, ओढ़ेपीतपिछौरी ॥३॥ मोरमुकुटपीतांबरसो
है, भालतिलकशिरखोरी ॥ नंददासप्रभुकीछविनि
रखें, भागवडोतिनकोरी ॥ ४ ॥ १२ ॥

वनहुँतेआवतधेनुचरानी ॥टेक॥ संध्यासमयश्यामले
मुखपर, गोपदरजलपटानी ॥ १ ॥ देहीमुकुटशीसपर
राजै, मधुकररहेलोभानी ॥ शोभालालिलाललटकन
की, जोनाउड़तउड़ानी ॥२॥ विधिवाहनभषतनकीमा
ला, शोभतउरफहरानी ॥ मनहुँमँदागनिधसीअमलप
र, जोनाफूलउड़ानी ॥ ३ ॥ बालगोपालनंदजीकेढोटा,
ग्वालबनैएकठानी ॥ सूरदासप्रभुरसिकमुकुटपर, शो
भावरणिनजानी ॥ ४ ॥ १३ ॥

हैहैकरतसुरारीगौवनसँग ॥ टेक ॥ जोदर्शनलगिसुरस
बध्यावैं, ब्रह्माआदित्रिपुरारी ॥ सोनँदलालग्वालसँग
खेलत, महिमानाथतुम्हारी ॥ १ ॥ जोरजकौब्रह्मादिक
नारद, खोजिखोजिमुनिहारी ॥ सोरजलैलैब्रजकीबनि
ता, डारतडगरबुहारी ॥ २ ॥ जोभुजबलसबअसुरसँहा
रे, रावणरिपुदलभारी ॥ सोभुजपकड़िकहतब्रजवाला,
दांवदेवगिरिधारी ॥ ३ ॥ यहिविधिकौतुककरहुकृपा
निधि, अलखपुरुषतनुधारी ॥ सूरदाससंतनकेसर्वस,
नाथभक्तहितकारी ॥ ४ ॥ १४ ॥

खरिकविचक्योँठादीराधाप्यारी ॥टेक॥ माथेहाथदि
येकरशोचत, कहँलगितैरीत्यारी ॥ देखेंगेसोकहाकहेंगे

सुनिऋतुराजकुमारी ॥ १ ॥ अबहीं लालगये गौवनमें, अब आवनकी त्यारी ॥ बंसी बाजिरही मोहनकी, मोहिलई ब्रजनारी ॥ २ ॥ तीनलोककी रूपलाडिली, कंचनकी अनुहारी ॥ यहशोभामोपै बराणिन जाई, विधिना आप सवारी ॥ ३ ॥ लाललाडिली मिले खरिकमें, हृदयहर्ष ब्रजनारी ॥ चंद्रसखी भजुबालकृष्णछवि, तनमन धनबलि हारी ॥ ४ ॥ १५ ॥

सुनुसखी मोहनबेणुबजावै ॥ टेक ॥ सांझसमयगोधनके पीछे, आछेबनिठनि आवै ॥ १ ॥ कहूं पुष्पकहूँ कुसुममंजरी, कहूँ तुलसीदललावै ॥ गुंजमालवनमाललालउर, अंगअंगछविछावै ॥ २ ॥ इंदुबदनअखिंदनयनशिर, मुकुटमधुरसुरगावै ॥ कुंजभवनमारगउपवनमें, मोरचकोरनचावै ॥ ३ ॥ श्रुतिकुंडलझलकनअलकनिपर, हलकननयनसिरावै ॥ पीतदुकूलखौरकेसरकी, नवलसखीमनभावै ॥ ४ ॥ १६ ॥

ब्रजललनादुखमोचन, आवैमाईशरदकमलदललोचन ॥ टेक ॥ गोधनसंगपुनीतकरमुरली, तिलककियोगोरोचन ॥ १ ॥ आगेआगेधेनुपीछेयदुनंदन, करगहेकमूलफिरावै ॥ बालगोपालनंदजीकेहोटा, मधुरीसीबेणुबजावै ॥ २ ॥ कटिपरलालकाछनीकाछे, ओढ़ेपीतपिछौरी ॥ आपुनहंसतहंसावतगवालन, रागअलापतगौरी ॥ ३ ॥ तुलसीकोपत्रपुष्पकीमाला, झुंकगवालनिपहि

रावै ॥ मोरमुकुटबैजंतीमाला, कुंडलझलकतआवै
 ॥४॥ वर्षेपुष्पदेवमुनिहर्षे, मोहीव्रजकीनारी ॥ कृष्णदा
 सप्रभुरसिकमुकुटपर, लालगोवर्धनधारी ॥ ५ ॥ १७
 आवैमाईहलधरगिरिधरजोरी ॥ टेक ॥ हलधरकहेमेरी
 कारीकामर, गिरिधरकहेमेरीधोरी ॥ १ ॥ हलधरकर
 हलमूसलधारे, गिरिधरछत्रधरोरी ॥ हलधरओढ़ेनील
 नीलांबर, गिरिधरपीतपिछोरी ॥ २ ॥ हलधरकेसंग
 ग्वालबहुतहैं, गिरिधरझुंडकरोरी ॥ परमानंदयहध्या
 नधरतहैं, मांगैमुक्तिकरजोरी ॥ ३ ॥ १८ ॥

राजा, एकमानोबचनहमारो ॥ टेक ॥ भीष्मद्रोणकर्ण
 दुर्योधन, सबमिलिमतोबिचारो ॥ पांचगाँवपांडवनको
 दीजै, औसबराजतिहारो ॥ १ ॥ दक्षिणदेशद्राविड
 कीनगरी, गौडदेशबंगालो ॥ गढ़गिरिनारकीबैठक
 दीजै, औसबराजतुम्हारो ॥ २ ॥ भूमिनदेऊंसुईकोना
 को, रणसंग्रामविचारो ॥ क्षत्रियकुलकोयहीधर्महै, को
 इजीतैकोइहारो ॥ ३ ॥ भारतनाहिंभलोदुर्योधन, म
 नमेंसमुझविचरो ॥ कटिकटिसीसपडैधरणीपर, खांडो
 चलेदुधारो ॥ ४ ॥ इतनीसुनिबोलेदुर्योधन, कौनकियोउ
 पचारो ॥ राजनीतिकोमर्मनजानै, गौवाचरावनहारो
 ॥ ५ ॥ मानतनाहींअंधकोजायो, हरिकोवचननकारो ॥
 सूरदासप्रभुभरीसभामें, आयोकालतुम्हारो ॥ ६ ॥ १९ ॥
 आजुमैंहरिको, शस्त्रगहावों ॥ टेक ॥ जोलाजोंगंगाजन

नीको, संतनुसुतन कहावों ॥ सारथिमारिमहारथिमा
 रों, कपिध्वजसहित उडावों ॥ १ ॥ पांडवसेनसहितसं
 हारों, दुर्मतिनदीबहावों ॥ लागेनघावअंगमेरेमें, सन्मु
 खरथेनचावों ॥ २ ॥ जोजीतौयशहोयजगतमें, जिय
 तनिसानदुरावों ॥ जोमैंमारिमरोंबाणनसे, सुरपुरजा
 इबसावों ॥ ३ ॥ जोमैंभागौशपथश्यामकी, क्षत्रियग
 तिनहिँपावों ॥ सूरदासयहिसमरभूमिमें, जियतनपी
 ठदिखावों ॥ ४ ॥ २० ॥

इतिबुधवारकी गौरी समाप्त ।

अथ सांझसमय मंगलगानेके

दोहा प्रारंभः ।

दोहा—श्रीगुरुमूरतिचंद्रमा, सेवकनयनचकोर ॥ अष्टप
 हरनिरखतरहों, गुरुमूरतिकीओर ॥ १ ॥ श्रीगुरुचरण
 सरोजरज, निजमनमुकुरसुधार ॥ वरणौंरघुपतिविमल
 यश, जोदायकफलचार ॥ २ ॥ मंगलमयमरजादमय,
 सकलधर्ममयधीर ॥ ऋधिवरसिधिवरमुक्तिवर, सीता
 वररघुबीर ॥ ३ ॥ सुमिरनऐसोचाहिये, जाकोधरिये
 ध्यान ॥ सतत्रेताद्वापरकलि, चारौयुगपरमान ॥ ४ ॥
 एकबुंदसरिताबहै, भिन्नभावनहिँहोय ॥ संतमिलेभग
 वानसों, मिलिगावैसबकोइ ॥ ५ ॥ विनसत्संगनहरिक
 था, ताबिनुमोहनभाग ॥ मोहगयेबिनुरामपद, होयन

हृदअनुराग ॥ ६ ॥ मोमेंगुणकछुहैनहीं, तुमगुणभरा
 जहाज ॥ गुणअवगुणनविचारिये, बांहगहेकीलाज
 ॥ ७ ॥ बांहछोड़ायेजातहो, निर्बलजानिकैमोहिं ॥ हृद
 येसेजबजावगे, मर्दबखानोंतोहिं ॥ ८ ॥ बारिबरोबरबा
 रिहै, तापरबहतबयारि ॥ रघुबरपारउतारिये, अपनी
 ओरनिहारि ॥ ९ ॥ बारबारबरमांगहूं, हर्षिदेवश्रीरंग ॥
 पदसरोजअनपायिनी, भक्तिसदासत्संग ॥ १० ॥ सी
 तापतिरघुनाथजी, तुमलगमेरीदौर ॥ जैसेकागजयंत
 को, सूझतऔरनठौर ॥ ११ ॥ सीतापतिरघुनाथको, ने
 कनवायोसीस ॥ कहाविभीषणलैमिलो, लंकदियोबक
 सीस ॥ १२ ॥ सीतापतिकेकारने, सबधनडाराखोय ॥
 मूरखजानेगिरिपच्यौ, दिनदिनदूनाहोय ॥ १३ ॥ सी
 तापतिकीकोठरी, चंदनजड़ेकेंवार ॥ तारीलागीप्रेम
 की, खोलोराजकुमार ॥ १४ ॥ करगहिधनुषचढ़ाइये,
 चकितभयेनवभूप ॥ मगनभईसियजानकी, निरखिरा
 मकोरूप ॥ १५ ॥ रामवामदिशिजानकी, लषणदाहिनी
 ओर ॥ ध्यानसकलकल्याणमय, सुरतरुतुलसीतोर ॥ १६
 तुलसीमिटैनमोहतम, कियेकोटिगुणग्राम ॥ हृदयकम
 लफूलैनहीं, बिनरबिकुलरविराम ॥ १७ ॥ तुलसीयहत
 नखेतहै, मनबचकर्मकिसान ॥ पापपुण्यदोउबीजहैं,
 बवैसोलुनौनिदान ॥ १८ ॥ तुलसीविरवाबागमें, सींचतही
 कुम्हिलाय ॥ रामभरोसेराखिये, पर्वतपरहरिआय ॥ १९ ॥

अजगरकरैनचाकरी, पंछीकरैनकाम ॥ दासमल्लका
 योंकहै, सबकेदाताराम ॥ २० ॥ रामझरोंखैवठिकै, सब
 कामोजरालेत ॥ जाकीजैसीचाकरी, ताकोतैसादित
 ॥ २१ ॥ रामरामतोसबकहैं, ठगठाकुरअरुचार ॥
 बिनाप्रेमरीझैंनहीं, तुलसीराजकिशोर ॥ २२ ॥ राम
 रामसबकोइकहै, दशरथकहैनकोइ ॥ एकवारदशरथ
 कहै, कोटियज्ञफलहोइ ॥ २३ ॥ रामभजनकोआ
 लसी, भोजनकोहुसियार ॥ तुलसीऐसेजीवको
 बारबारधिक्कार ॥ २४ ॥ रामनामकोआलसी, भो
 जनकोहुसियार ॥ भेड़िपूंछिभादोंनदी, किमविधि
 उतरेपार ॥ २५ ॥ रामनाममणिदीपधरु, जीहदेहरी
 द्वार ॥ तुलसीभीतरबाहरी, जोचाहैउजियार ॥ २६ ॥
 तुलसीहायगरीबकी, हरिसोंसहानिजाइ ॥ मुएचामकी
 फूकसों, लोहभस्महोइजाय ॥ २७ ॥ नाहँविद्याबलवांह
 बल, नाहँखरचनकोदाम ॥ सोसेपतितअपंगकी, तुम
 पतिराखोराम ॥ २८ ॥ पड़ेरहोदरवारमें, धकाधनीके
 खान ॥ कबहुँकदीनदयालुके, शब्दपरेगोकान ॥ २९ ॥
 संतमिलनकोजाइये, तजिमायाअभिमान ॥ ज्योंज्यों
 पगआगेपरें, त्योंत्योंयज्ञसमान ॥ ३० ॥ संतबड़ेपरमा
 रथी, शीतलउनकेअंग ॥ तपनिबुझावैंऔरकी, देदेअ
 पनारंग ॥ ३१ ॥ संतसंतसबएकहैं, जसआफरकोखे
 त ॥ कोइकुदरतीलालहै, औरसेतकेसेत ॥ ३२ ॥ रा

मनगरियारामकी, बसैगंगकेतीर ॥ अचलराजमहराज
की, चौकीहनुमतबीर ॥ ३३ ॥ अवधधामधामनपति,
अवतारनपतिराम ॥ सकलसिद्धिपतिजानकी, दासन
पतिहनुमान ॥ ३४ ॥ रामकथामंदाकिनी, चित्रकूट
चितचारु ॥ तुलसीसुभगसनेहबन, सियरघुबीरबि
हारु ॥ ३५ ॥ चित्रकूटसेकोटनहिं, अवधधामसेधाम ॥
सुंदरबनसेबननहीं, रामनामसेनाम ॥ ३६ ॥ चित्रकूट
माणिकबनो, भँवरकरेंगुंजार ॥ दुलहिनिप्यारीजान
की, दूलहराजकुमार ॥ ३७ ॥ सीताजीकेबदनपै, बें
दीशोभादेइ ॥ मानोफूलीकेतकी, भँवरबासनालेइ ॥ ३९ ॥
चित्रकूटचितरमिरह्यो, पैसरनीकेतीर ॥ उहांकछुकदि
नरमिरहे, सियालषणरघुबीर ॥ ४० ॥ चित्रकूटकेघाटपै,
भइसंतनकीभीर ॥ तुलसिदासचंदनघिसै, तिलककरत
रघुबीर ॥ ४१ ॥ चित्रकूटकीगैलमें, मुक्तिपरीबिलखाइ ॥
मुक्तिकहेरघुनाथसे, मेरीमुक्तिबताइ ॥ ४२ ॥ परीरह्यो
यहिगैलमें, साधुसंतचलिजात ॥ उड़िउड़िरजमस्तकप
रै, सहजमुक्तिहोइजात ॥ ४३ ॥ चित्रकूटकेवृक्षको, मर्मन
जानैकोइ ॥ एकपत्रसेवाकरै, रूपचतुर्भुजहोइ ॥ ४४ ॥
चित्रकूटकेछोहरा, औरदेशकेभूप ॥ वाकीसरवरको
करैबेंचिखातहँसूप ॥ ४५ ॥ चलौसखीवहँजाइये, ज
हांबसतव्रजराज ॥ गोरसबेंचनहरिमिलें, एकपंथदोका
ज ॥ ४६ ॥ व्रजचौरासीकोसमें, चारिगामनिजधा

म ॥ वृंदावनअरुमधुपुरी, बरसानोनंदगाम ॥ ४७ ॥
 वृंदावनसेवननहीं, नंदगामसेगाम ॥ बंसीवटसेवटन
 हीं, कृष्णनामसेनाम ॥ ४८ ॥ वृंदावनमाणिकवनो,
 भंवरकरेंगुंजार ॥ दुलहिनिप्यारीराधिका, दूलहनंदकु
 मार ॥ ४९ ॥ तुलसीमथुरारामहैं, जोजानेकरिदेाय ॥ ता
 केमुखमेंसोइहै, युगअक्षरबिचजोइ ॥ ५० ॥ राधेतृवडि
 मागिनी, कौनतपस्याकीन, तीनलोककेनाथहैं, सोते
 रेआधीन ॥ ५१ ॥ आंकटांकसबकहतहैं, आवघासअ
 रुकैर ॥ तुलसीयहिव्रजभूमिमें, कहारामसेवैर ॥ ५२ ॥
 मेरीभवबाधाहरौ, राधानागरिसोइ ॥ जातनकीझाँईप
 रे, श्यामहरितद्युतिहोइ ॥ ५३ ॥ शीशमुकुटकटिकाछ
 नी, करमुरलीउरमाल ॥ यहिबानिकमोमनवसौ, सदा
 विहारीलाल ॥ ५४ ॥ मोरमुकुटकीचंद्रिका, योंसाजतन
 दनन्द।मानौंशिशेशेखरअकस, कियेशेखरशतचन्द्र
 सोहतऔंढेपीतपट, श्यामसलोंनेगातामनौनीलमणि
 शैलपर, आतपपरोप्रभात ५६ ब्रजबासीवल्लभसदा, मेरे
 जीवनप्रान ॥ उनकौनेकनबीसरो, नंदरायकीआन ५७
 ब्रजतजिअंतनजाइहौं, मेरेयेहीटेकाभूतलभारउतारि
 हौं, धरिहौंरूपअनेक ॥ ५८ ॥ कहाकहौंछविआजुकी,
 भलेबिराजेनाथ ॥ तुलसीमस्तकजबनवे, धनुषबाण
 लेवहाथ ॥ ५९ ॥ कितमुरलीकितचंद्रिका, कित
 गोपिनकोसाथ ॥ अपनेजनकेकारने, कृष्णभयेरघुना

थ ॥ ६० ॥ अपनेअपनेइष्टको, नमनकरेसबको
 इ ॥ परशुरामविनहितनवै, सोईमूरुखहोइ ॥ ॥ सूर
 दाससगुणकथै, निर्गुणकथैकबीर ॥ रामरत्नतुलसीक
 थै, जयजयसियरघुबीर ॥ ६२ ॥ कोटिकल्पकाशीबसै,
 मथुराकल्पहजार। एकनिमिषसरजूबसै, तुलैतुलसी
 ताहि ॥ ६३ ॥ कोटिनतीरथकामता, कोटिनरहसबिला
 स ॥ रजधानीरघुनाथकी, गावततुलसीदास ॥ ६४ ॥
 सियावररामचंद्रकीजय ॥ ६५ ॥ इतिसां. मं. सां.

अथ सातोंवारकी धुन.

अथ गुरुवारकी आरती-प्रारंभः।

जयजयआरतिरामजीतुम्हारी, रामजीदयालुभक्तहि
 तकारी ॥ टेक ॥ जनहितप्रगटेहरिव्रतधारी, जनप्रह्लाद
 प्रतिज्ञापाली ॥ १ ॥ द्रुपदसुताकोचीरबढ़ायो, गजके
 काजपयादेधायो ॥ २ ॥ दशशिरछेदिबीसभुजतोरै, तें
 तिसकोटिदेवबँदिछोरै ॥ ३ ॥ छत्रलियेकरलक्ष्मणभ्रा
 ता, आरतिकरतकौसल्यामाता ॥ ४ ॥ शुकशारदना
 रदमुनिध्यावै, भरतशत्रुहनचँवरदुरावै ५ ॥ रामजीके
 चरणगहेमहावीरा, ध्रुवप्रह्लादवालिसुतबीरा ॥ ६ ॥ लं
 काजीतिअवधहरिआये, सबसंतनमिलिमंगलगाये ॥
 ७ ॥ सीतासहितसिंहासनसोहाये, रामनंदस्वामी
 आरतिगाये ॥ ८ ॥ १ ॥

इति गुरुवारकी आरती समाप्त।

अथ गुरुवारकी धुन प्रारंभः ।

निरखतरूपसियारघुवरको, छविनिहिँजातवखानी ॥
 टेक ॥ कनकथारगजमाणिकमोती, आरतिकरतको
 शल्यारानी ॥ मान्योहैमानसकलभूपनको, महिमावे
 दबखानी ॥ १ ॥ तोरनधनुषयज्ञपूरणकरि, जनकरायजो
 कीलज्जाराखी ॥ परशुरामकोहितकरमानी, सुरपुरना
 रिअवधपुरवासी ॥ २ ॥ नचतनवलअप्सरासुदितमन,
 वर्षिसुमनमुसकानी ॥ रत्नसिंहासनरघुवरवैठे, आर
 तिकरतकोशल्यामाता, हर्षिनिरखिसुखमानी ॥ ६ ॥
 दशरथसहितअवधपुरवासी, तुलसिदासअविचलयह
 जोरी ॥ भक्तिअभयपददानी ॥ ४ ॥ १ ॥

भजोअवधपुर, सियारघुवीर ॥ टेक ॥ अवधपुरीकोध्या
 नधरतही, जरामरणछूटैभवभीर ॥ १ ॥ राजादशरथ
 जीकेचारिपुत्रहैं, तिनमेंरघुवीरश्यामशरीर ॥ २ ॥ रघुव
 रलक्ष्मणभरतशत्रुहन, विहरतहैंसरयूकेतारि ॥ ३ ॥ रुम
 कङ्कुमकपगनूपुरबाजैं, गजजिमिचालचलैरणधीर ॥ ४ ॥
 क्रीटमुकुटमकराकृतिकुंडल, गलैविराजैंमुक्ताहीर ॥ ५ ॥
 शारंगधनुषबाणकरराजैं, पीतांबरपहिरेपटचीर ॥ ६ ॥
 बामअंगसियाजनकनंदिनी, दहिनेविराजेश्रीलक्ष्मण
 वीर ॥ ७ ॥ शिवसनकादिआदिब्रह्मादिक, सेवतहैंनारद
 मुनिधीर ॥ ८ ॥ तुलसीदासहरिरूपनिहारै, नितउठि
 सावैगुणगंभीर ॥ ९ ॥ २ ॥

जयरघुवरस्वामीहरिअंतरयामी,आरतिउतारोंप्रभु
 अंतरयामी॥टेक॥भालविशालतिलकशिरसोहै,कीट
 मुकुटधारी।श्रवणनकुंडलझलकै,अद्भुतछविन्यारी।
 लोचनललितवदनअतिसुंदर,कंठेवनमाला॥भृगुलक्ष
 णउरराजै,दशरथसुतलाला ॥ २ ॥ रत्नसिंहासनआ
 पुविराजे,हरिरघुकुलकेतू॥अधमउधारननाथ,भवसा
 गरसेतू ॥ ३ ॥ जनकसुतासियजनकनंदिनी,सोहत
 बांयेअंगा ॥ सन्मुखपवनकुमार,लक्ष्मणदहिनेअंगा
 ॥ ४ ॥ पीतवसनकरधनुषविराजै,हरिवहुविधिसोहै ॥
 सुंदररूपनिहार,कोटिमदनमोहै, ॥ ५ ॥ चरणकमल
 कोमलअतिसुंदर,छविवरणीनिहिंजाय।मुखमकरंदम
 र्दवन,मुनिमनरहेलोभाय॥६॥शारदशेषविमलयशगा
 वै,सनकादिकध्यावै ।सोइचरणनउरराखि, शिवनि
 शिदिनध्यावै ॥७॥आगमनिगमपुराणबखाने अतिदु
 र्लभनरदेहु, तुलसीभञ्जुरघुनाथ, जन्मसुफलकरिले
 हु ॥ ८ ॥ ३ ॥

जययदुवरस्वामीहरिअंतरयामी,आरतिउतारोंप्रभु
 अंतरयामी ॥टेक॥मथुरामेंहरिजन्मलियोहै,दुष्टनक्ष
 यकारी॥पृथ्वीभारउतारन,नरदेहीधारी ॥ १ ॥ मथु
 रासेहरिगोकुलआये,कंसखवरपाई ॥मौतआपनीजा
 नि,पूतनापहुँचाई ॥२॥ यमलार्जुनयेवृक्षउपारे,शोभा
 अतिप्यारी॥नंदयशोदानिरखै,आनंदउरधारी ॥३॥

रासरचोवृंदावनमोहन,शोभाअतिभारी॥सुरलीअध
 रबजावैं,मोहैंब्रजनारी ॥४ ॥ रुमकञ्जुमकपगनूपुरवा
 जै,ठुमकचालभावै ॥ कटिपीतांवरराजै,शोभाअति
 पावै ॥५ ॥ कुंडललोलकपोलविराजै,कंठवनमाला ॥
 भृगुलक्षणउरराजै,संगलियेब्रजवाला ॥ ६ ॥ मोरमुकु
 टमकराकृतिकुंडल,लीलावपुधारी ॥सूरदासहैशरण,
 पलपलबलिहारी ॥ ७ ॥ ४

जयश्रीरघुनाथाजयजानकिनाथा,दोउकरजोरेविन
 वोंप्रभुमेरीसुनुवाता।टेक।तुमरघुनाथहमारे,प्राणपि
 तामाता॥तुमहोसजनसंगाती,भक्तिमुक्तिदाता ॥१ ॥
 चौरासीप्रभुबंदिछोंडावो,मेंटोयमत्रासा॥निशिदिन
 प्रभुमोहिराखो,अपनेसँगसाथा २ ॥रघुवरलक्ष्मणभर
 तशत्रुहन,सँगचारोभैया ॥जगमगजोतिविराजै,शो
 भाअतिरैया ॥ ३ ॥ हनुमतनादबजावैं,नृपुरठुमठैया ॥
 सुवर्णथालआरती,करतकौशल्यामैया ॥४ ॥ रामक
 बीरकृपाकरिबोले,बोलेउपकारी॥उनहरिहमहिंवता
 वो,सीतारामधनुषधारी ॥५ ॥ ब्रह्माविष्णुमहादेव,सा
 यरसुखदाता॥धन्यतुम्हारोदर्शन,करिहोप्रतिपाला ॥
 ॥६ ॥ क्रीटमुकुटमकराकृतिकुंडल,शोभाअतिभारी॥
 मनीरामदर्शनको,पलपलबलिहारी ॥ ७ ॥ ५ ॥

जयश्रीरघुनाथाजयलाडिलिनाथा,श्यामसुंदरराधा
 मोहनमेंटोयमत्रासा॥टेक॥मथुरामेंहरिजन्मलियोहै,

गोकुलपगधारी ॥ झूलतहैं पलनामें, पूतनाप्राणहारी ॥
 ॥ १ ॥ यमुनाकेनीरेतीरेधेनुचरावैं, बंसीअतिबाजी ॥
 गौवनकेसंगविहरें, मोरमुकुटधारी ॥ २ ॥ पैठिपताल
 कालीनागनाथे, फणपरनृत्यधारी ॥ ताताथेईताताथे
 ईउचरे, नटवरवपुधारी ॥ ३ ॥ इंद्रकोपचढ़योब्रजकेऊप
 र, वर्षाअतिभारी ॥ नखपरगिरिवरधार, गौवनहित
 कारी ॥ ४ ॥ नारदबेनबजावैं, नूपुरठुमकैया ॥ कंचनथार
 आरती, करत यशोदामैया ॥ ५ ॥ दीनानाथदयाकरि
 बोले, बोलेहितकारी ॥ उनहरिहमहिबतावो, मोरमु
 कुटधारी ॥ ६ ॥ जगन्नाथबलभद्रसुभद्रा, शोभाअति
 भारी ॥ सुरनरचँवरदुरावैं, अद्रभुतछविन्यारी ॥ ७ ॥
 शंखचक्रगदापद्मविराजैं, शोभाअतिभारी ॥ सूरदास
 दर्शनको, पलपलबलिहारी ॥ ८ ॥ ६ ॥

जयश्रीरघुनंदाजयजानकिकंदा, आरतीउतारोजय
 श्रीरघुनंदा।टेकाक्रीटमुकुटश्रुतिकुंडलसोहैं चक्रबली
 राजे ॥ केसरतिलकविराजैं, लखिदामिनिलाजैं ॥ १ ॥
 भृकुटीकोटिकामछविनिंदति, दृगअंजनसोहैं ॥ चित
 वनललितउदार, सियाकंतमनमोहैं ॥ २ ॥ नाकबुलाक
 लालअतिसोहैं, सुंदरमुसुकानी ॥ दशनअधरछविदे
 खि, मोहैंमुनिज्ञानी ॥ ३ ॥ कंठाकंठयुगलकुंजर, मणिकौ
 स्तुभउरभ्राजैं ॥ पदिकहारवनमाल, सुंदरछविराजैं ॥ ४ ॥
 बाहुविशालविभूषण, पहिरेकरशरधनुसोहैं ॥ सुंदररूप

निहारि, कोटिमदनमोहै ॥ ५ ॥ पीतवसनकटिकिंकि
णिराजे, पटकोछविभारी ॥ दुहुँछोरनमणिमोती, लग
तअतिप्यारी ॥ ६ ॥ सुभगधुंधुरूपायनराजै, नूपुररव
कारी ॥ चरणकमलमृदुसुंदर, आरतभयहारी ॥ ७ ॥
संगसखासरजूतटविहरै, हनुमतसंगकीन्हो ॥ भरतल
खणरिपुसूदन, संगसखालीन्हो ॥ ८ ॥ पुष्पासिंहासन
परममनोहर, राजतसुखकारी ॥ जनकसुतावायें अँग
शोभित, सुकुमारी ॥ ९ ॥ अनुचरझुंडचहुँदिशिराजे,
शोभाअतिभारी ॥ तुलसिदासछविदेखि, पलपलबलि
हारी ॥ १० ॥ ७ ॥

जयनटवरवेषाहरिनटवरवेषा, आरतीउतारोयदुवर
जगदीशा ॥ टेकामोरमुकुटमस्तकपरराजै, कंठवनमा
ला ॥ श्रवणनकुंडलझलकै, संगलियेब्रजवाला ॥ १ ॥ रासर
चोनारायणस्वामी, वृंदावनराधे ॥ तालपखावजवाजै,
मधुरेसुरगावै ॥ २ ॥ ताथेइताथेइशब्दउचारे, तातापु
रराजे ॥ सुंदरभृकुटिविराजे, कोटिमदनलाजे ॥ ३ ॥
धुमकरधुमकरधुंधुरुधुमकै, धुमकधुमकधुमकै ॥ नाच
तराधामोहन, पायनठुमठुमकै ॥ ४ ॥ ऊंचेस्वरसेशब्दउ
चारे, मधुरेस्वरगावै ॥ राधामोहनजोरी, मनमेंमोहि
भावै ॥ ५ ॥ निरतकरैगोपाललालजी, शोभाताथेई ॥
केशवहरिसुखनिरखै, केवलनिरछेई ॥ ६ ॥ ८ ॥
जयसियमहारानीजयजानकिरानी, सुररंजिनिअघ

गंजिनिसेवतमुनिज्ञानी ॥ टेक ॥ कुंदरदनिशशिवदनी,
 दामिनिद्युतिगाता ॥ भूषणवसनसवारै, करलियेजल
 जाता ॥ १ ॥ बेदीभालविशालविराजे, सुंदरमुसुकानी ॥ ग
 जगमनीचितरमनी, रघुवरमनमानी ॥ २ ॥ मृगलोच
 निअघमोचनि, सखियनसंगसोहैं ॥ विहरतसरयूतीर
 लखिसुरत्रियमोहैं ॥ ३ ॥ विधिहरिहरतोहिंध्यावैं, नि
 जनिजपदपावैं ॥ उमारमाब्रह्माणी, तुहिनिशिदिनध्या
 वैं ॥ ४ ॥ संतनसुखदरसावैं, रघुवररुखलीने ॥ सुखसा
 गरदोउविहरें, रामसेवकहिये ॥ ५ ॥ ९

जयरधेरमनीहरिराधेरमनी, दुखहरनीसुखकरनीगो
 विंदवशकरनी ॥ टेक ॥ वृंदावनमेंरासरचोहै, कोकहि
 सकैबखानी ॥ सबगोपियनकेमध्यराधेशशिवदनी ॥ १ ॥
 वृंदावनकीकुंजगलिनमेंलीलासुखकरनी ॥ मोहनना
 चनचायो, जनकलमलहरनी ॥ २ ॥ राधाहरिविज्ञाता
 गोपुरनिजधानी ॥ इंद्रचंद्रब्रह्मादिक, सकतनगुणव
 रनी ॥ ३ ॥ सनकादिककेवचनसत्यकरि, प्रकटीब्रज
 धानी ॥ लीलाअद्भुतकीन्हो, दुष्टनछलदलहीनी ॥ ४ ॥
 राधाराधारटनकरतही, बाधाभ्रमहरनी ॥ पंचसखी
 मिलिवरनी, राधेजगजननी ॥ ५ ॥ १०

प्रकटेसीतारामजीअवधपुरमें ॥ टेक ॥ राजादशरथ
 गृहरामजीजन्मलियो, नौनिधिआईउनकेघरमें ॥ १ ॥
 बाजाबजेइंद्रगाजे, जयजयकारभयोपुरमें ॥ २ ॥ व

र्षतपुष्पदेवमुनिहर्षत, आनंदभयोतीनोपुरमें ॥ ३ ॥
 संगसखासरयूतटविहरें, धनुषबाणधरेकरमें ॥ ४ ॥ वि
 श्वामित्रकोयज्ञसफलकरि, खलमारेएकहिक्षणमें ॥ ५ ॥
 जनकस्वयंवरपावनकीन्हो, तोरोधनुषजनकपुरमें ॥ ६ ॥
 सियाविवाहिअवधपुरआये, आनंदभयोनारीनरमें ॥
 ॥ ७ ॥ क्रीटमुकुटमकराकृतिकुंडल, जनतुलसीधारे
 उरमें ॥ ८ ॥ ११ ॥

रामललाशिरटोपीदेखोसखि ॥ टेक ॥ छोटेछोटे
 लरिकनसँगखेलें, हाथलियेघृतरोटो ॥ १ ॥ हाथमेंल
 लितपहुंचियासोहै, काननकुंडलरविकीजोती ॥ २ ॥
 पगपैजनियाअधिकसोहावैं, गलेविचउज्वलमोती ३ ॥
 रघुवरलक्ष्मणभरतशत्रुहन, चारोभैयनकीजोटी ॥ ४ ॥
 रामसेवकजीकेप्रभुसुखसागर, मातकौशल्याहँसिलो
 टी ॥ ५ ॥ १२ ॥

अच्छेरामजीलला, तुम्हारेवदनपरअनंतकला। टेक ॥
 मुखमेंबीरानयनविशाला, जितचितवैतितकरतनिहा
 ला ॥ १ ॥ क्रीटमुकुटकुंडलवनमाला, भालतिलकसोहँन
 यनविशाला ॥ २ ॥ छोटीमोटीनदियागहिरगँभीर, क
 ल्पवृक्षतरसियारघुवीर ॥ ३ ॥ संगसखनकीसोहँभीर,
 भरतशत्रुहनलक्ष्मणवीर ॥ ४ ॥ छोटीसीधनुहियाराम
 जी, छोटेमोटेतीरखेलतहँसरजूकेतीर ॥ ५ ॥
 जहँजहँपरेसंतनकेभीर, हर्षितआवँसियारघुवीर ॥

॥ ६ ॥ प्रागदासगयेसरजूकेतीर, बीचमेंभिलिगये
सियारघुबीर ॥ ७ ॥ १३ ॥

अँखियांमेंलागिरहेरघुबीर ॥ टेक ॥ निशिवासरमनला
गरहतहै, नयनधरतनीहँधीर ॥ १ ॥ रुमकझुमकपग
नूपुरबाजै, चालचलैरणधीर ॥ २ ॥ क्रीटमुकुटमकरा
कृतिकुंडल, गलेबिचमुक्ताहीर ॥ ३ ॥ रघुवरलक्ष्मण
भरतशत्रुहन, संगसखनकीभीर ॥ ४ ॥ पीतांबरकर
धनुषविराजै, शोभितश्यामशरीर ॥ ५ ॥ तुलसिदास
हरिरूपनिहारै, हरतसंतनकीपीर ॥ ६ ॥ १४ ॥

हँसिहँसिमनमोहँरघुबीर ॥ टेक ॥ मैसरजूजलभरन
जातरही, भरनबिसरगईनीर ॥ १ ॥ क्रीटमुकुटमक
राकृतिकुंडल, गलेबिचमुक्ताहीर ॥ २ ॥ संगसखासरजू
तटबिहरत, रामलखनदोउवीर ॥ ३ ॥ शारंगधनुषबाण
करराजै, पहिरेपीतांबरचीर ॥ ४ ॥ तुलसिदासहरिरूप
निहारै, हरतसंतनकीपीर ॥ ५ ॥ १५ ॥

मोहँभावैहोश्रीरामजीलला ॥ टेक ॥ चारोभैयाराम
जीचतुरसुजान, मैयागोदखेलावैहो ॥ १ ॥ कनककटो
राअतरफुल्ल, मर्दनअधिकसोहावैहो ॥ २ ॥ शिरसोहै
जरकसकीपाग, काननकुंडलझलकावैहो ॥ ३ ॥ पीत
अँगुलियासुंदरसोहैहरिकेहाथ, हसपिनिरखिपहिरावे
हो ॥ ४ ॥ उरसोहैमोतियनकीमाला, बाजूबंदअधिकसो
हावेहो ॥ ५ ॥ लालखरउवांसुंदरसोहैहरिकेपांव, अ

वधनगरफिरिआवेंहो ॥ ६ ॥ प्रागदासजीकेसियारघु
बीर, नयननेहलगावेंहो ॥ ७ ॥ १६ ॥

भरतराममोहिंभावेहो, सुभगचालसुंदरअतिप्यारी।टे
क॥राजादशरथजीकेचारपुत्रहैं, शोभावरणिनजावेहो
।१। सरजूकेतीरेखेलरचोहै, सुंदरवाणचलावेंहो।२।सर
जूनहानचलेरघुनंदन, चपलतुरंगनचावेंहो।३।अवधपु
रीकीबधूअटाचढि, निरखिपरमपदपावेंहो।४।रामसे
वकजीकेप्रभुसुखसागर, चारिवेदयशगावेंहो।५।१७।
राग-आशावरी॥रामजन्मसुनिअपनेपतिसौं, हैंसिढा
दिनियोंबोलीहो ॥ जाहुकंतराजादशरथके, दानकोठ
रीखोलीहो ॥ टेक॥तुमकोदेइअंगकोवागो, औरदक्षि
णाभरझोरीहो ॥ हमकोलीजोनखकोगहनो, पट
रसुधाकीचोलीहो ॥ १ ॥ साजसहितयकघोडालीजो,
गैयादूधअचोलीहो।सहितअम्बारीहाथीलीजो, हथि
नीअधिकअमोलीहो॥२॥लीजोकंतकहारसहितयक
हमहिचढ़नकोडोलीहो ॥ सोलहवर्षकीसुंदरिलीजो, ट
हलकरनकोगोरीहो ॥३॥सेजसहितएकपलंगालीजो,
औपाननकीढोलीहो ॥ बीरीकरिकारिहमहिखवावे,
लीजोसुघरतमोलीहो ॥ ४ ॥ जन्मजन्मकाहूकेआगे,
बहुरिनमाडोबोलीहो ॥ जनगोविंदरघुबीरयांचिकै,
भयेहैंअयाचकढोलीहो ॥ ५ ॥ १८ ॥

इति गुरुवारकी धुन समाप्त ॥

अथ शुक्रवारकी आरती प्रारंभः ।

आरतिलक्ष्मणबालजतांकी, असुरसंहारनरधुवरप्राण
पतीकी ॥ टेक ॥ जगमगजोतिअवधपुरराजै, शेषाच
लपैलक्ष्मणआपविराजै ॥ १ ॥ घंटातालपरखावजबाजै,
कोटिदेवमुनिआरतिसाजै ॥ २ ॥ क्रीटमुकुटकरधनुष
विराजै, तीनलोकजाकीशोभाराजै ॥ ३ ॥ कंचनथार
कपूरसुहाई, आरतिकरतसुमित्रामाई ॥ ४ ॥ आरति
कीजैहरिकीजैसीतैसी, ध्रुवप्रह्लादविभीषणजैसी ॥ ५ ॥
प्रेममगनहोयआरतिगावै, बसिवैकुण्ठबहुरिनिहिंआवै
॥ ६ ॥ भक्तिहेतुहरिकोलाडलडावै, जनघनश्यामपर
मपदपावै ॥ ७ ॥ १ ॥

इति शुक्रवारकी आरती समाप्त ।

अथ शुक्रवारकी धुन प्रारंभः ।

आरतिकीजैराजारामचंद्रजीकी, हरिभक्तिकरीयम
त्रासनदीजे ॥ टेक ॥ पहिलीआरतिपुष्पकीमाला, काली
नागनाथिलायेमदनगोपाला ॥ १ ॥ दूसरिआरतिदे
वकीनंदन, भक्तउधारनकंसनिकंदन ॥ २ ॥ तीसरि
आरतित्रिभुवनमोहै, रत्नसिंहासनसीतारामजीको
सोहै ॥ ३ ॥ चौथीआरतिचहुंयुगपूजा, देवनिरंजनस्वा
मीऔरनदूजा ॥ ४ ॥ पांचवीआरतिरामजीकोभावे,
रामजीकोहरियशनामदेवगावे ॥ ५ ॥ १ ॥

मेरेमनबसिगयेसीताराम, सीतारामसीतारामसीता
 राम ॥टेक॥गौरवरनसियाजनकनंदिनी, रघुवरहंघ
 नसुंदरश्याम ॥१॥ दशरथपुत्रअयोध्यानायक, तिन
 परचंवरदुरावेहनुमान ॥ २॥ विश्वामित्रकोयज्ञसुफल
 कियो,गौतमनारिपठायेनिजधाम ॥ ३ ॥ जटासुकु
 टमुनिवेषधरोहै, कठिनधनुषलियेशारंगबाण॥४॥तुम
 जानिबिसरिजावतनमनसे, तुमबिनुनिकसिजायमेरे
 प्राण ॥५॥ सरजूकेतीरअयोध्यानगरी,जहँविहरेंसि
 यालक्ष्मणराम ॥ ६ ॥ आशानंदकहैकरजारे,चाँसठि
 घरीभजुआठौयाम ॥ ७ ॥ २ ॥

आवनकीमनभावनकी, बलिहारीरामजीकेआवन
 की॥टेक॥ रघुबरलक्ष्मणभरतशत्रुहन,श्यामसुरतिम
 नभावनकी ॥१॥क्रीटसुकुटमकराकृतिकुंडल,उरवन
 मालसोहावनकी ॥ २ ॥ पीतांबरकीकछनीकाछे, धनु
 षबाणकरधारनकी ॥३॥ रुमकझुमकपगनूपुरवाजे,ठु
 मकचालमनभावनकी ॥४॥ संगसखासरजूतटविहरे,
 चपलतुरंगनचावनकी ॥ ५ ॥ रामप्रसादभक्तिवरमां
 गै,चरनकमलचितलावनकी ॥ ६ ॥ ३ ॥

जयबंकटरवनाहरिबंकटरवना, आरतिउतारोंसंतन
 हितकरना ॥टेक॥सुंदरशैलशिखरशेषाचल, मुनिजन
 मनहरना ॥ अतिउत्तमअस्थान,अगमनिगमभव
 ना॥१॥क्रीटसुकुटकरधनुषविराजे,कुंडलछविरचना

सुंदरनयनविशाला, चितवनमनहरना ॥२॥ शंखचक्रग
दापद्मविराजै, बनमालाधरना ॥ कटिकिंकिणिअतिरा
जे, अरुणकमलरचना ॥३॥ दीनानाथदयालुदयानि
धि, दीननहितकरना ॥ अग्रदासचरणनपरपलपल,
चितधरना ॥ ४ ॥ ४ ॥

रघुबरमहाराजा २, तुमसबदेवनकेराजा ॥ टेक ॥ अव
धपुरीमेंजन्मलियोहै, कल्पवृक्षकीछाया ॥ रत्नसिंहा
सनआपुविराजे, दशरथकेसुतलाला ॥ १ ॥ शेषलिये
करछत्र, भरतलियेचँवरदुराया ॥ हनूमानकरजोरेठाढ़े,
ब्रह्मावेदसुनाया ॥ २ ॥ क्रीटमुकुटमकराकृतिकुंडल-
उरबनमालसोहाया ॥ शारंगधनुषबाणकरराजै पीतां
वरछविछाया ॥ ३ ॥ पायनललितपैजनियाबाजै, शो
भावरणिनजाया ॥ मातुकौशल्याकरतआरती, सखि
यनमंगलगाया ॥ ४ ॥ शिवसनकादिआदिब्रह्मादिक, नि
गमनेतियशगाया ॥ तुलसीदासआसरघुबरकी, चर
णकमलचितलाया ॥ ५ ॥ ५ ॥

टीकममहाराजा २- तेरोवेदविमलयशगावै ॥ टेक ॥ तृ
णसुमेरुरजकरसुमेरुकहँ, रंककोराजबनावै ॥ अविना-
शीअरुअंतरयामी, रविशशिनयनलजावै ॥ १ ॥ सुर
पतिशेषविमलयशगावै, शारदचँवरदुराया ॥ निशिवा
सरशिवभृङ्गुटिबिलोकै, ब्रह्मावेदसुनाया ॥ २ ॥ नामख
भतिहुँलोकखडैहै, अंडकटाहकहावै ॥ गिनिगिनिमुनि

जनपारनपावैं, कुन्नस्का लवजावैं ॥ ३ ॥ नामकला अ
तिकोटि बिराजै, सुरनरध्यान लगावैं ॥ इंद्रकुवेर नारद
सनकादिक, हरिजन हरियश गावैं ॥ ४ ॥ अवधरधरणि
तुम्हारी कृपानिधि, कुदरत जानिन जावैं ॥ सरजूदास क
रुणाके सागर, पंछीमंगल गावैं ॥ ५ ॥ ६ ॥

तेरे बाजै अनहद बाजा, लक्ष्मण महाराजा ० ॥ टेक ॥
त्रिपतीमें सीतारामजी बिराजैं, शेषनागकी छाया ॥ शे
षाचलपर आप बिराजैं, तीन लोकके राया ॥ १ ॥ क्रीट
सुकुटकर धनुष बिराजै, गलेवै जंतीमाला ॥ कमलनय
नकरुणाके सागर, बड़ेबड़े भुजा विशाला ॥ २ ॥ ब्रह्मा
जाको वेद सुनावैं, सुरनरध्यान लगाया ॥ शेषसहसमुख
रटतनिरंतर, सोवाको पारनपाया ॥ ३ ॥ सप्तद्वीपपानी
के ऊपर, लीलाअजब बनाया ॥ विनाखंभ असमानख
ड़ाहै, नौलखतारा छाया ॥ ४ ॥ भक्तवत्सल संतनके हेतु,
हरिहैं सुखके दाया ॥ चरणदास चरणनकी महिमा, चर
णकमलचितलाया ॥ ५ ॥ ७ ॥

दाऊमहाराजा २, तेरे बाजे नौबत बाजा ॥ टेक ॥ मथुरा
में हरिजन्मलियोहै, गोवर्द्धनकी छाया ॥ ब्रजमंडलमें आ
य बिराजे, गोलोकके राया ॥ १ ॥ हलमूसलहथियार बिरा
जे, गले बिराजे पटुका ॥ गले बिचहीरा अधिक सोहावै,
शिरपर कलंगीचीरा २ गऊलोकतीनोलोक ऊपरहै, कृ
ष्णचंद्रकी माया ॥ शेषसहसमुखरटतनिरंतर, सोवाको

पारनपाया ॥ ३ ॥ सर्वतीर्थमथुरामेंआये,चारिधाम
कीमाया।यमुनाकेनिकटकदमकीछैयां,तहांकरेंविस
रामा ॥ ४ ॥ सनकादिकजाकीबिनतीकरतहैं,नारद
ध्यानलगाया॥इंद्रहुजाकीकरतआरती,ब्रह्मावेदसुना
या ॥ ५ ॥ भक्तवत्सलसंतनकेहैंरे,हरिहैंसुखकेदाया॥
श्रीभटदानइहैप्रभुदीजै,चरणकमलचितलाया ॥६॥
दर्शनदेबंकटरैया,तेरेदर्शनकोमेरोमनललचै ॥टेक॥
त्रिपतीमेंसीतारामजी बिराजैं,चौकीहैलक्ष्मणरैया ॥
॥१॥शेषाचलपरआपबिराजैं,चौकीहैहनुमतरैया॥२॥
जयऔविजयदोउपौरियाबिराजैंविजयघंटधुनिहोरै
या॥३॥आठपहरफूलनकेजामा, ऊपरचँवरदुरावैरैया
॥४॥ शंखचक्रगदापद्मबिराजै,क्रीटमुकुटकुंडलरैया
॥ ५ ॥ भोगमढ़ीमेंभोगलगतहै,बेदनकीधुनहोरैया ॥
॥६॥छुप्पनभोगछुत्तिसोव्यंजन, ऊपरतुलसीरामिरैया
॥ ७ ॥आसपासगिरिवरकीशोभा,बिचमेंकोयलझूके
या ॥ ८ ॥ जनहार्थारामजीबंकटजीके,शरणआवा
गमननिवारैरैया ॥ ९ ॥ ९ ॥

सूर्यवंशउजागरनागर,जयजयलक्ष्मणबालजती।टेक
जयअनंतजयजयभुवनेश्वर,जयजयफणीपतालपती
॥१॥चौदहभुवनशीसपरराजैं,भारनलागैएकरती॥२॥
दशरथपुत्रसुमित्रानंदन,कुँवरिउर्मिलाप्राणपती ॥३॥
क्रीटमुकुटमकराकृतिकुंडल,शिरचंदनकीखौरखँची

॥ ४ ॥ शारंगधनुषबाणकरराजै, पीतांबरसेकमरकसी
 ॥५॥ पचरंगबाणरामलक्ष्मणके, देखिअसुरनकीफाटि
 छती ॥ ६ ॥ शिवसनकादिआदिब्रह्मादिक, पारनपा
 वैयतीसती ॥७॥ तुलसीदासयहध्यानधरतहैं, रामलप
 णअरुसियासती ॥ ८ ॥ १० ॥

जयबंकटसंकटहरना, चरणकमलकोदर्शनदीजै।टेका
 भवसागरमेंबहाजातहौं, बांहपकड़िझटपटधरना ॥३॥
 गहिरीनदियानावझांझरी, सेवकजानिदयाकरना ।२।
 जपतपनियमधर्मनहिंजानौं, जानौंएकउदरभरना ।३।
 शंखचक्रगदापद्मविराजै, पीतांबरकछनीकछना ॥४॥
 जनहाथीरामजीबंकटजीकेशरणै, निशिदिननामय
 हीरटना ॥ ५ ॥ ११ ॥

जयजयबौलोसाधु, लक्ष्मणबालाकी ॥टेक ॥ दक्षिणदेश
 सवालखपर्वत, जगमगज्योतिदिवालाकी ॥ १ ॥ त्रिप
 तीमेंसीतारामजीविराजै, चौकीलक्ष्मणबालाकी ॥२॥
 शेषाचलपरआपविराजै, चौकीहनुमतलालाकी ॥३॥
 जयऔविजयदोउपौरियाविराजै, गहिरीचोपनगारा
 की ॥ ४ ॥ आठपहरफूलनकोजामा, ऊपरमौजदुसाला
 की ॥५॥ बालाजीकेरथपररत्नसिंहासन, मुकुटवन्यो
 मोतीमालाकी ॥ ६ ॥ देशदेशकेयात्रीआये, मारपरेशु
 गछालाकी ॥७ ॥ आशानंदकहैकरजोरी, पतिराखो
 कंठीमालाकी ॥ ८ ॥ १२ ॥

गालियांमतदेउ, तिलंगारंगा ॥ टेक ॥ तुमहोतिलंगारं
गाहमपरदेसीचंगा, तुम्हारोहमारोसतसंगा ॥१॥ त्रि
पतीमेंसीतारामजीबिराजैं, लक्ष्मीबिराजैंदहिनेअंगा
॥ २ ॥ शेषाचलपरआपबिराजैं, सन्मुखहैंबजरंगा
॥ ३ ॥ क्रीटमुकुटमकराकृतकुंडल, रूपधरेबहुरंगा
॥४॥ अष्टपहरफूलनकेजामा, पीतांबरपचरंगा ॥५॥ जय
औबिजयदोउपौरियाबिराजैं, टिगपुष्करिणीगंगा ॥६॥
शंखचक्रगदापद्मबिराजैं, रूपबनोबहुरंगा ॥ ७ ॥ आ
सपासगिरिवरकीशोभा, बीचमेंकोयलहैचंगा ॥ ८ ॥
जनहाथीरामजीव्यंकटजीकेशरणै, नितउठिहोयस
तसंगा ॥ ९ ॥ १३ ॥

इति शुक्रवारकी धुन समाप्त ।

अथ शनिवारकी आरती प्रारंभः ।

आरतिकीजैनरसिंहकुंवरकी, वेदविमलयशगाऊंभरे
प्रभुजीकेटेक। पहिलीआरतिप्रह्लादउबारे, हिरनाकु
सनखउदरबिदारे ॥ १ ॥ दुसरीआरतिवामनसेवा, बलि
केदारेपधारेहरिदेवा ॥ २ ॥ तीसरीआरतीब्रह्मपधारे, स
हस्रबाहुकेभुजाउखारे ॥ ३ ॥ चौथीआरतिअसुरसंहारे,
भक्तविभीषणलंकपधारे ॥ ४ ॥ पांचमीआरतिकंसप
छारे, गोपीवालसखाप्रतिपाले ॥ ५ ॥ तुलसीकोपत्र
कंठमणिहीरा, हरखिनिरखिगावैदासकबीरा ॥ ६ ॥ १ ॥

इति शनिवारकी आरती समाप्त ।

अथ शनिवारकी धुन प्रारंभः ।

नाचौंगीरंगराचौंगी, रघुनंदनआगेमैंना - टिका करि
 शृंगारहारतुलसीको, भालतिलकशिरराखौंगी ॥१॥
 प्रेमप्रीतिकेबांधिघूंघुरा, सुरतिकीकछनीमैंकाछौंगी
 ॥२॥ रघुवरलक्ष्मणभरतशत्रुहन, सांवलिसुरतिउररा
 खौंगी ॥ ३ ॥ चुनिचुनिकलियांमैंहारवनैहौं, रघुवरउर
 पहिरावौंगी ॥ ४ ॥ नाचिनाचिरघुनाथरिझावौं, भ
 क्तिरसीलीमैंयाचागी ॥ ५ ॥ लोकलाजकुलकीमर्या
 दा, इनमेंएकौनराखौंगी ॥ ६ ॥ सरजूकेतीरअयो
 ध्यानगरी, बैठिझिरोंखामैंझांकौंगी ॥ ७ ॥ २ ॥
 श्रीमन्नारायणनारायण, सुमिरसुमिरसुमिरभयेपा
 रायण ॥ टंक ॥ जाकोनामलेतअघनासै, कामक्रोधभये
 पारायण ॥ १ ॥ शिवसनकादिआदिब्रह्मादिक, सुमिरसु
 मिरभयेपारायण ॥ २ ॥ क्रीटसुकुटमकराकृतिकुंडल, शं
 खचक्रगदाधारायण ॥ ३ ॥ सेवरीकेफलरुचिरुचिपाये,
 भक्तसुदामातारायण ॥ ४ ॥ अजामीलसुतहेतुपुका-यो
 नामलेतभयोपारायण ॥ ५ ॥ दुर्योधनघरमेवात्याग्यो
 सागविदुरघरपारायण ॥ ६ ॥ जलडूबतगजराजउवा
 रे, चक्रसुदर्शधारायण ॥ ७ ॥ डूबतसेब्रजराखिलि
 योहै, करपरांगेरिवरधारायण ॥ ८ ॥ चारवेदअरुभगव
 द्हीता, वाल्मीकिजीकीरामायण ॥ ९ ॥ माधवदासआस
 चरणनकी, भवसागरभयेपारायण ॥ १० ॥ ३ ॥

हमचाकररघुनाथकुँवरके ॥ टेक ॥ माथेतिलकमनोहर
 वाना, द्वादशतिलकदेखियमडरपे ॥ १ ॥ द्वालीबंदस
 दाप्रभुतेरे, भयोंगुलामरावरेघरके ॥ २ ॥ गुरुकेबचन
 सत्यकरिराखों, सुमिरनकरतसियारघुवरके ॥ ३ ॥ तु
 महियाचियाचोंनहिँऔरहिँनहिँभरोसकोउनारीनर
 के ॥ ४ ॥ अग्रदासयहपटालिखायो, दसखतदशरथसुत
 निजकरके ॥ ५ ॥ ४ ॥

कबमिलिहँरघुनाथहमारे ॥ टेक ॥ जैसेभिलेप्रभुबलि
 राजाको, चारिमासहरिद्वारेठाढ़े ॥ १ ॥ जैसेभिलेप्रह्ला
 दभक्तको, खंभफोरिहिरनाकुसमारे ॥ २ ॥ जैसेभिलेप्र
 भुद्रुपदसुताको, खँचतचीरदुशासनहारे ॥ ३ ॥ जैसेभि
 लेप्रभुजनकसुताको तोरोधनुषभूपसबहारे ॥ ४ ॥ तु
 लसीदासआसपतितनकी, प्रभुमोसेपतितअनेकउ-
 धारे ॥ ५ ॥ ५ ॥

अपनोजनप्रह्लादउबारो ॥ टेक ॥ जलहुसेराखिअगिनि
 हुँसेराखे, राखिलियोगिरिवरहुसेडारो ॥ १ ॥ लक्ष्मी
 प्रभुकेनिकटनआवै, ऐसरूपप्रभुकबहुँनधारो ॥ २ ॥
 अपनेभक्तकोराजतिलकदियो, हस्तकमलमस्तकपर
 धारो ॥ ३ ॥ शिवसनकादिआदिब्रह्मादिक, हस्त
 कमलमस्तकपैधारो ॥ ४ ॥ लैप्रह्लादखंभसेबांधेअ
 वकोहैतेरोराखनहारो ॥ ५ ॥ खंभफोरिप्रगटेनरहरि
 प्रभु, हिरनाकुसनखउदरविदारो ॥ ६ ॥ कौतुकदेखि

देवमुनिहर्षांगणगंधर्वगुणवेदउचारी ॥७॥ श्रीमटको
 प्रभुदियोअभयपद, भक्तहेतदानवकुलतारो ॥ ८ ॥ ६॥
 धायगोविंदगजेंद्रउवारो २ महाग्राहमारो ॥ टेक ॥ खंच
 तग्राहगजहिनेकौबल, नभयोतवहरिनामउचारी ॥१॥
 फहरफहरफहरातपीतांवर, चरणगमनकियोगरुडवि
 सरो ॥२॥ जबभरिसुंदरहीजलऊपर, कमलपुष्पलैर्या
 मकोचढायो ॥ ३ ॥ काटेफंदचक्रधारासों, अघमोचन
 हरिनामतुम्हारो ॥ ४ ॥ देवनहर्षिदुंदुभीवजाईपुष्प
 वर्षिजयजयतिउचारी ॥ ५ ॥ अग्रदाससवपातितन
 कोप्रभु, इंद्रदमनवैकंठसिधारो ॥ ६ ॥ ७ ॥

जपुजैजैनरसिंहसही महाराजसही ॥ टेक ॥ खंभफोर
 हिरनाकुसमान्यौराखिलियोप्रल्लादसही ॥१॥ योंहीराम
 जीनेरावणमारो, भक्तविभीषणलंकदई ॥२॥ योंहीकृष्ण
 जीनेकंसपछारो उग्रसेनकोराजदई ॥३॥ उदरफारिसु
 खशोरकियोहै तीनलोकजाकीगरजभई ॥४॥ शिवसन
 कादिआदिब्रह्मादिक निकटनआवेलक्ष्मीसही ॥५॥ तु
 लसिदासहरिरूपनिहारै भक्तवत्सलकीटेकगही ॥६॥ ८
 नरहरियाप्रभुगिरिधरिया प्रल्लादउवारैनरहरिया ॥
 ॥ टेक ॥ रामकृष्णदोउनामवड़ेहैं तारणतरणअभयक
 रिया ॥१॥ बामनरूपपछलेबलिराजा तीनपैरवसुधाकरि
 या ॥२॥ खंभफोरहिरनाकुसमारैजनप्रल्लादअभयकरि
 या ॥३॥ रावणकेदशमस्तकछेदे, बीसभुजाखंडनकरिया

॥ १ ॥ यमुनाकेनीरेतीरेधेनुचरावैं, करसुरलीवनबनाफि
रिया ॥ ५ ॥ केशीमारेकंसपछारे, उग्रसेनशिरछत्रधरिया
॥ ६ ॥ कहतकबीरासुनोभाईसाधो, अधमउधारननर
हरिया ॥ ७ ॥ ९ ॥

श्रीरामजाने, गूदरियागलतान ॥ टेक ॥ पांचतत्त्वकी
बनीहैगूदरी, पड़ीरहतचौगान ॥ १ ॥ सुरतनिरतकोटो
पबनोहै, धागापदनिर्बान ॥ २ ॥ नादैंबेदैंहोड़पड़ीहै,
अनहदचढ़ीहैकमान ॥ ३ ॥ हमरोरहनाखुखवृक्षतर, अ-
लखपुरुषकोध्यान ॥ ४ ॥ प्रेमकेबदराबर्षनलागे, भी
जतसंतसुजान ॥ ५ ॥ कहतकबीरामेरोअलखायोगी,
मिटगयोआवनजान ॥ ६ ॥ १० ॥

मुझेनदिलसेभूलैंप्यारेराम, मुझे ० ॥ टेक ॥ स्याहीगईस
फैदीआई, चलनाहैबड़ीदूर ॥ १ ॥ डारडारमेंपातपातमें,
तुमहिरंगीलेफूल ॥ २ ॥ हैहजूरनहरिनाहिनदूर, दि
लकीदुर्मतिभूल ॥ ३ ॥ गोपीचंदभरथरीराजा, शिरमें
डारेधूल ॥ ४ ॥ सेखफरीदकुआंमंलटकैं, गिरैंतोचक
नाचूर ॥ ५ ॥ कहतकबीरासुनोभाईसाधो, हरिचरण
नमतिभूल ॥ ६ ॥ ११ ॥

रामजीरतनधनपाया, मायारा ० ॥ टेकावस्तुअमोलक
दियोहैगुरुने, माथेतिलककराया ॥ १ ॥ रामनामकीभई
बिभूती, जगमेंसाहकहाया ॥ २ ॥ देतलेतऔखावत
खरचत, दिनदिनहोतसवाया ॥ ३ ॥ राजनदंडैचोरन

लूटै, धरणीधरैनजाया ॥ ४ ॥ लेप्रल्हादखंभमेंवांधे,
 अबतेरौकौनसहाया ॥ ५ ॥ कहांतैरोरामवतावोमोहीं,
 हाथरुझझटकाया ॥ ६ ॥ तोमेंमोमेंखझखंभमें,
 व्यापरहेरघुराया ॥ ७ ॥ खंभफोरिहिरनाकुसमारै,
 नामदेवकेरामजीसहाया ॥ ८ ॥ १२ ॥

बाबाझूठीमाया, दुर्मतिमेंदिनखोया ॥ टिक ॥ श्यामसुं
 दरसुमिरोनहींपलमें, अंतकालमेंरोया ॥ १ ॥ पहि
 रिपीतांबरपुष्पविछाया, हीरामोतीपोया ॥ २ ॥ हरि
 भक्तीबिनमुक्तिनहोगी, कहाभयोतनधोया ॥ ३ ॥ ह
 स्तीघोड़ामालखजाना, नयननभरभरजोया ॥ ४ ॥
 अबतोमूरखभयोविराना, लंबीचादरसोया ॥ ५ ॥ य
 हसंसारजहरकीबारी, झूठीसांचीगाया ॥ ६ ॥ गयवी
 रामसंतनकेशरणै, मनकाधोखाखोया ॥ ७ ॥ १३ ॥

इति शनिवारकी धुन समाप्त ।

अथ रविवारकी आरती प्रारंभः ।

कहांलगिआरतिदासकरैंगे, सकलभुवनजाकीज्योति
 बिराजै ॥ टिक ॥ सातसमुद्रजाकेचरणनिवासे कहाभयो
 जलकुंभभरेहोराम ॥ १ ॥ कोटिभानुजाकेनखकीशो
 भा, कहाभयोमंदिरदीपधरेहोराम ॥ २ ॥ अठारहभार
 रोमावलीजाके, कहाभयोशिरपुष्पधरेहोराम ॥ ३ ॥ छप्प
 नभोगजाकेनित्यप्रतिलगै, कहाभयो नैवेद्यधरेहोराम
 ॥ ४ ॥ अनंतकोटिजाकेबाजाबाजै ॥ कहाभयोझनकार

करेहोराम ॥ ५ ॥ चारवेदजाकेमुखकीशोभा, कहा
भयोब्रह्मावेदपदेहोराम ॥ ६ ॥ शिवसनकादिआदिब्र
ह्मादिक, नारदमुनिजाकोध्यानधरेहोराम ॥ ७ ॥ हिं
ममंदारजाकोपवनझकोरे, कहाभयोशिरचँवरदुरेहो
राम ॥ ८ ॥ लखचौरासीबंदछोड़ाये, केवलहरियशनाम
देवगाये ॥ ९ ॥ १ ॥

इति रविवाकी आरती समाप्त ।

अथ रविवारकीधुन प्रारंभः ।

टैरतहैरघुबरजीकीमैयारघुबरजीकीमैया, लक्ष्मणजी
कीमैया ॥ टेक ॥ ऊंचेऊंचेसुरलेशब्दउचारे, रघुकुलरघु
कुलरघुकुलरैया ॥ १ ॥ रघुबरलक्ष्मणभरतशत्रुहन, नहि
आवैतजिबालसमैया ॥ २ ॥ क्रीटमुकुटमकराकृतिकुं
डल, धनुषबाणकरधारहोरमैया ॥ ३ ॥ संगसखासरजू
तटबिहरें, भरतशत्रुहनलक्ष्मणमैया ॥ ४ ॥ शिवसन
कादिआदिब्रह्मादिक, नेतिनेतिगावैनिगमैया ॥ ५ ॥
ताहिधरनकौशल्याधाई, ठुमकठुमकपगचलतरमैया
॥ ६ ॥ धूसरेधूरिभरेतनुआये, बिहसतभूपगोदबैठैया
॥ ७ ॥ तुलसिदासप्रभुकीछविनिरखै, हरषिनिरषिजन
नीलेतबलैया ॥ ८ ॥ १ ॥

नमोनमोतुलसीमहरानी, नमो ० ॥ टेक ॥ जाकोनाम
लेतअघनाशै, महिमावेदपुराणबखानी ॥ १ ॥ शाखापत्र
मंजरीकोमल, श्रीपतिचरणकमलरुपटानी ॥ २ ॥ तुम

तुलसीपूरणतपकीन्हो, शालग्रामकीपटरानी ॥ ३ ॥ धू
 पदीपनैवेद्यआरती, पुष्पनकीबरखाबरखानी ॥ ४ ॥
 छप्पनभोगछतीसोव्यंजन, बिनतुलसीहरिएकनमा
 नी ॥ ५ ॥ शिवसनकादिआदिब्रह्मादिक, खोजतफिरत
 महासुनिज्ञानी ॥ ६ ॥ प्रेमभक्तिकरिहरिवशकीन्हें,
 साँवरिसुरतिमेरेहियलपटानी ॥ ७ ॥ साँवरीसखी
 मैयातेरोयशगावत, भक्तिदानदीजेमहारानी ॥ ८ ॥ २
 नमोनमोतुलसीकरजोरी ॥ टेक ॥ हेमरत्नमणिहीर
 रूपमय, शाखापत्रमंजरीतेरी ॥ १ ॥ परमसखीसि
 यजानकीजीवन, सियारामविहरैयकठोरी ॥ २ ॥ चरण
 शरणदासीशरणागत, प्रेमभक्तिकोकरतनिहोरी ॥
 ॥ ३ ॥ सिंहासनसियबैठिरामसँग, तुलसीदासदरवारर
 होरी ॥ ४ ॥ ३ ॥

बसबोश्रीअवधपुरीकोनीकोर, नीकोनामहरीको ॥ टे
 काउत्तरखंड अयोध्यानगरिनिर्मलजलसरजूको ॥ १ ॥
 रामघाटअस्नानकरनको, दर्शनराघवजीको ॥ २ ॥ र
 धुबरलक्ष्मणभरतशत्रुहन, ढोटादशरथजीको ॥ ३ ॥
 क्रीटमुकुटमकराकृतिकुंडल, शिरकेसरकोटीको ॥ ४ ॥
 सबभूपनकोमानमथनकियो, तोरोधनुषशिवजीको ॥
 ॥ ५ ॥ अष्टपहरकरजोरेरहतहैं, हनूमानअँजनीको ॥
 ॥ ६ ॥ तुलसिदासयहध्यानधरतहैं, रामलषणसिया
 जीको ॥ ७ ॥ ४ ॥

बसबोश्रीवृंदावनकोनीको ॥ टेक ॥ मध्यदेशएकमथु
रानगरी, निर्मलजलयमुनाको ॥ १ ॥ चीरघाटअस्नान
करनको, दर्शनगोविंदजीको ॥ २ ॥ हलधरगिरिधरम
दनमनोहर, ढोटाबसुदेवजीको ॥ ३ ॥ मोरमुकुटमक
राकृतिकुंडल, गीरोचनकोटीको ॥ ४ ॥ वृंदावनमेंबाग
बहुतहैं, बिचबिचवनतुलसीको ॥ ५ ॥ कुंजनकुंजनफि
रतराधिका, शब्दसुनतमुरलीको ॥ ६ ॥ अष्टपहरकर
जोरेरहतहैं, गरुड़देवबिनतीके ॥ ७ ॥ सूरदासयह
ध्यानधरतहैं, श्यामरामराधाजीको ॥ ८ ॥ ५ ॥

भजु, रघुवरश्यामयुगलचरना ॥ टेक ॥ इतमेंअयोध्या
निर्मलसरजू, उतमथुराशीतलयमुना ॥ १ ॥ इतमेंदश
रथकुंवरकहाये, उतमेंकहायेनंदजीकेललना ॥ २ ॥ इ
तमेंकौशल्यामैयागोदखेलावै, उतमेंयशोदाझुलावैप
लना ॥ ३ ॥ इतमेंक्रीटमुकुटशिरराजै, उतमेंमोरमुकुट
धरना ॥ ४ ॥ इतमेंधनुषबाणकरराजै, उतमुरलीमुख
परधरना ॥ ५ ॥ इतमेंचरणअहल्यातारी, उतकुब्जासं
गकियोरमना ॥ ६ ॥ इतमेंजानकीबायेंबिराजै, उतरा
धेसंगकियोरमना ॥ ७ ॥ इतमेंसागरशिलउतराये, उत
गिरिधरनखपरधरना ॥ ८ ॥ रावणकेदशमस्तकछेदे, कं
सकोमारबहायोयमुना ॥ ९ ॥ इतमेंराजबिभीषणदी
न्हो, उग्रसेनकोकियोअपना ॥ १० ॥ इततुलसीउतसू
रकहाये, युगलचरणपरचितधरना ॥ ११ ॥ ६ ॥

रघुवंसीहोराम, मेरेमेंबसो ॥टेक॥ सीतामेरीमातापि
 तामेरेराम, लक्ष्मणधनुषचढ़ायेकरवान ॥ १ ॥ गलेमेरे
 तुलसीमुखमेरेराम, हृदयविराजैस्वामीशालग्राम ॥२॥
 हथियनऊपरघुरतनिसान, सुरनरमुनिचढ़िआयेहैवि
 मान ॥३॥ बांधेहैंसागरतरैहैंपखान, सियार्जीकीखवरि
 पठायेहनुमान ॥ ४ ॥ तोड़ीगढ़लंकाफिरिगईआन, भ
 क्तविभीषणपायोविश्राम ॥५॥ आगेआगेरामलक्ष्मण
 पीछेहनुमान, आयैहैंअयोध्यापुष्पविमान ॥६॥ तुम्हा
 रोहिजपतपतुम्हारोहिध्यान, वालार्जीकोसुमिरनरा
 घवर्जीकोध्यान ॥७॥ क्रीटमुकुटकुंडलवनमाल, शोभा
 कोवरणिसकैगुणग्राम ॥ ८ ॥ पुरीहैंअयोध्यापूरणधा
 म, रामानंदस्वामीपायेविश्राम ॥ ९ ॥ ७ ॥

भञ्जुदशरथपुत्र, धनुषधरना ॥टेक॥ मातुपिताकीआ
 ज्ञामानी, अवधछोंड़िवनकोचलना ॥१॥ वनमेंजाय
 बसेरघुनंदन, जनकसुतारावणहनना ॥ २ ॥ कपिदल
 जोरिचढ़ेरघुनंदन, सेतुबांधिसागरतरना ॥ ३ ॥ रावण
 केदशमस्तकछेदे, बीसभुजाखंडनकरना ॥ ४ ॥ राव
 णमारिअसुरसबमारै, लंकाजारिगरदकरना ॥५॥ अ
 पनेभक्तकोराजतिलकदियो, आयपरोहरिकेचरना ॥
 ॥ ६ ॥ पुष्पविमानचढ़ेरघुनंदन, वाल्मीकिआश्रमअव
 ना ॥ ७ ॥ सीतासहितअयोध्याआये, सुरनरजयजय
 करना ॥ ८ ॥ सीतासहितसिंहासनबैठे, सबदेवनमंग

लकरना ॥ ९ ॥ तुलसिदासरघुवरकेशरणै, चरणकमल
परचितधरना ॥ १० ॥ ८ ॥

भजुरेमन, रामसियाचरना ॥ टिक ॥ दशरथनंदनविधि
शिवबंदन, भक्तजननकेभयहरना ॥ १ ॥ विश्वामित्रको
यज्ञसुफलकियो, धनुषभंजिसियवरना ॥ २ ॥ नौका
सहितकीरकुलतारे, चरणकेछुवतशिलातरना ॥ ४ ॥ वा
लिहिमारिसुग्रीवराजदियो, सप्ततालछेदनकरना ॥ ५ ॥
महाअगाधसिंधुशतयोजन, रघुवरकपिगिरिवरतरना
॥ ६ ॥ रावणकेमस्तकदशछेदे, भक्तविभीषणनृपकर
ना ॥ ७ ॥ आयेअवधपुररंगभवनमें, कौशल्याआरतिक
रना ॥ ८ ॥ अतिकृपालुकरुणाभयउरधरो, चतुरदास
राघवशरना ॥ ९ ॥ ९ ॥

मिलिखेलतआवतररामजीलला, भरतशत्रुहनलखन
लला ॥ टिक ॥ बृंदबृंदरघुवंशिनकेसुत, खेलतआवतकर
तहला ॥ १ ॥ लाडूलियेसकलनिजकरमें, चुगतकाग
जोपरतथला ॥ २ ॥ धावतफिरतउठिचलतअजिरमें,
करतकेलिबहुछिनरपला ॥ ३ ॥ काकभुशुण्डगहनक
रबाड़े, सप्तवरणमेंभ्रमतफिरा ॥ ४ ॥ नयनमूंदिगयोराम
उदरमें, देखेबहुब्रह्मांडकला ॥ ५ ॥ खोजतफिरतकल्प
शतनाते, बाहरउभयघरीवितला ॥ ६ ॥ अग्रदासधनि
धनिकौशल्या, भाग्यउदयभयेआजुलला ॥ ७ ॥ १० ॥

जयजयजयरघुनाथहरे, पूरणकरतमनोरथमनके । टि-
 का । पूर्णब्रह्मत्रेतामेंप्रगटे, दर्शनदेतनिहालकरे । ३ । उत्तर
 खंडअयोध्यानगरी, निकटहिसरजूनीरवहे ॥ २ ॥ क्रीट
 मुकुटमकराकृदिकुंडल, धनुषबाणकरधारिरहे ॥ ३ ॥ र
 त्नासिंहासनआपुबिराजे, धूपदीपनैवेद्यधरे ॥ ४ ॥ भर
 तशत्रुहनचँवरछत्रलिये, सनकादिककरजोरिरहे ॥ ५ ॥
 माधवदासआसरघुवरके, हससेपतितअनेकतरे ॥ ६ ॥
 जयजयजयजगदीशहरे, पूरणकरतमनोरथमनके ॥
 ॥ टेक ॥ पूर्णब्रह्मद्वापरमेंप्रगटे, दर्शनदेतनिहालकरे ॥
 ॥ १ ॥ जगन्नाथबलभद्रसुभद्रा, चक्रसुदर्शननिकटधरे
 ॥ २ ॥ महाप्रसाददेवनकोदुर्लभ, सोनरपावतउदरभरे
 ॥ ३ ॥ इंद्रदमनमार्कंडेतीरथ, सेतुगंगाअस्नानकरे ॥ ४ ॥
 नीलचक्रपरध्वजाविराजै, निकटमहोदधिनीरवहे । ५ ।
 माधवदासआसचरणनकी, भवसागरसेपारकरे ६ १२
 श्रीगाइयेमहासुखपाइये, श्रीजगन्नाथजगतगुरुगाइये
 ॥ टेक ॥ अठारहकिनारेचौकीलागै, यात्रीजाननपाइये
 ॥ १ ॥ गूदरियाकोझारोसांगै, नागालड्डवजाइये ॥ २ ॥
 सिंहपौरपरसिंहविराजै, पंडावितलगाइये ॥ ३ ॥ इंद्रदम
 नमार्कंडेतीरथ, सेतुगंगानहाइये ॥ ४ ॥ हुकुमभयोवलभ
 द्रबलीको, बांहपकरकरछाइये ॥ ५ ॥ नीलचक्रपरध्व
 जाविराजै, निकटमहोदधिगाजै ॥ ६ ॥ गरुडखंभपर
 गरुडविराजै, सन्सुखदर्शनपाइये ॥ ७ ॥ जगन्नाथबलभ

द्रसुभद्रा, इनतजिअनतनजाइये। ८। धूपदीपनैवेद्यआ
रतीछप्पनभोगलगाइये॥९॥ महाप्रसादकीअधिकहैम
हिमा, वेदपुराणनगाइये १० थैइथेइथेइकरतसबसखि
यां, बाजाविमलबजाइये॥११॥ माधवदासआसचरण
नकी, आवागवननिवारिये ॥ १२ ॥ १३ ॥

इति रविवारकी धुन समाप्त ॥

अथ सोमवारकी आरती प्रारंभः ॥

आरतीकरतजनककरजोरै, बडेभाग्यरामजीआये
मोरे॥टेक॥ जीतिस्वयंबरधनुषचढाये, सबभूपनकोग
र्वमिटाये ॥ १ ॥ तोरिपिनाककियेदुइखंडा, रघुकुलहर्ष
रावणभयशंका ॥ २ ॥ आईहैसीतासंगसहेली, हरषि
निरषिवरमालामेली ॥३॥ गजमोतियनकेचौकपुराये,
कनककलशभरिमंगलगाये ॥ ४ ॥ कंचनथारकपूरकी
बाती, सुरनरमुनिजनआयेबराती ॥ ५ ॥ फिरतभां
वरीबाजाबाजे, सियाजीसहितरघुबीरबिराजे॥६॥ ध
निधनिरामलषणदोउभाई, धनिदशरथकौशल्यामा
ई॥ ७॥ राजादशरथअरुजनकविदेही, भरतशत्रुहनपर
मसनेही ॥ ८ ॥ मिथिलापुरमेंबजतबधाई, दासमुरा
रिस्वामीआरतिगाई ॥ ९ ॥ १ ॥

इति सोमवारकी आरती समाप्त ॥

॥ अथ सोमवारकीधुन प्रारंभः ॥

आजुराजाद्वारे, बधैयाबाजै॥टेक॥ मिथिलापुरआयेर

घुनंदन, घरघरयुवतिनआरतिसाजै । १। क्रीटमुकुटम
कराकृतिकुंडल, भालतिलकशिरछत्रविराजै । २। नख
शिखसुंदरअंगमनोहर, कोटिभानुरतिपतिछविलाजै
। ३। रघुबरलक्ष्मणभरतशत्रुहन, संगसखामिथिलापुर
राजै ॥ ४ ॥ युगलप्रियाछविकहांलगिवरणीं, यहमूर
तिमेरेहृदयविराजै ॥ ५ ॥ १ ॥

राजतरामश्रीजनककिशोरी ॥ टेक ॥ सियाभईगौरपि
याभयेसांवर, रूपदेखिशारदभइभोरी ॥ १ ॥ मंडपमें
दौउमदनमनोहर, दशरथसुतअरुजनककिशोरी ॥ २ ॥
राघवजीकेसोहैजरकसजामा, सियाजीकेसोहैपीतपि
छोरी ॥ ३ ॥ कनककलशपरफिरतभांवरी, सखियनमं
गलचारकरोरी ॥ ४ ॥ इतमेंवशिष्ठमुनिउतमेंसतानंद,
वंशप्रशंसकरतदौउओरी ॥ ५ ॥ इतमेंअवधपुरउतामि
थिलापुर, बीचमेंसरजूलेताहिलोरी ॥ ६ ॥ तुलसिदासह
रिरूपनिहारे, कावरणींरसनायहजोरी ॥ ७ ॥ २ ॥
जयजयजय, नृपजनककिशोरी ॥ टेक ॥ तेरोइध्यानध
रतनिशिबासर, नारदशारदशंकरगौरी ॥ १ ॥ लियोउ
ठायधनुषतिनकाज्यौं, बालकेलिलीलाबपुधारी ॥ २ ॥
कौतुकदेखिभूपपणकीन्हो, धनुषतोरियाकोवरसोरी
। ३। तेरेयज्ञभागकेकारण, सकलभयेसुरनरएकठोरी ४
याहिधनुषदशसीसभूपभट, पचिपचिहारिचलेमुख
मोरी ॥ ५ ॥ सिंधुरचालचलैमृगनयनी, रामचंद्रमुखचं

द्रचकोरी ॥६॥ लाहारामदासकान्हरभजु,युगयुगरा
मसियाकीजोरी ॥ ७ ॥ ३ ॥

राजतरामजानकीजोरी।टेक।श्यामसरोजजलजसुंद
रवर, दुलहिनितडितवरणतनगोरी।१।व्याहसमयशो
भितवितानतर, उपमाकहुँनलहतमतिमोरी।२।मनहुँ
मदनमंजुलमंडपतर, छबिसिंगारशोभायकठोरी ३ मं
गलमयदोउअंगमनोहर, सुरंगचूनरीपीतपिछोरी ४ क
नककलशपरदेतभांवरी, निरपिरूपशारदभईभोरी ५
मुदितजनकरनिवासरहसबस, चतुरनारिचितवाहंतृ
णतोरी ॥६॥ नयननकोफलपायप्रेमबश, सकलअसीस
हियेसहिहोरी ॥ ७ ॥ तुलसिदासआनंदमगनमन,
कावरणौरसनामतिथोरी ॥ ८ ॥ ४ ॥

दुलहराम, सियादुलहीरी ॥टेक॥ घनदामिनिवररणह
रणमन, सुंदरतानखशिखनिबहोरी।१।व्याहविभूषण
बसनविभूषित, सखिअवलीलखिठगीसीरहीरी २ जी
वनजन्मलेहुलोचनफल, हैइतनोलेउआजुसहीरी।३।
सुषमासुरभिसिंगारक्षीरदुहि, मयनअमियमयकियो
दहीरी ॥४॥ मथिमाखनसियरामसवांरे, सकलभुवन
छबिमनहुँमहीरी ॥५॥ रूपराशिविरंचिरचिसानो, सि
लालवनरतिकालनहीरी ॥६॥ तुलसिदासदेखतयेजो
री, शोभाअतुलनजातकहीरी ॥ ७ ॥ ५
लैलोरी, भरिलोचनलाहु ॥ टेक ॥ सखीसयानीमि

थिलापुरकी, घर घर शीख देत सब काहु । १ । कवक वराम
 जनकपुर ऐहैं, कब तुम नारि अयोध्या जाहु ॥ २ ॥ दुलम
 दरस होयदम्पतिको, समुझिसमुझि फिर मन पछताहु ३
 नहिं को उछरी द्वार यहि अवसर, नारि पुरुष सब करानि
 बाहु ॥ ४ ॥ मनो कामना करि मरि पूरन, फिर नर है उर अं
 तर दाहु ॥ ५ ॥ शेष महेश सकल मन रंजित, राम सिया
 को होत विबाहु ॥ ६ ॥ हर्ष देव सुमन बहु बपे, सकल
 भुवन भरि रहा उछाहु ॥ ७ ॥ प्रेम उजागर सब गुण आगर
 प्रभुहिं बिलोकि चकित चित चाउ ॥ ८ ॥ तुलसिदास व
 नि भाग जनक को, चित वत जात जानकी नाहु ॥ ९ ॥ ६
 जनक लली, मधुरे सुरगावै ॥ टेक ॥ नई नई तान बनाय
 सहचरी, चंद्रकला अलिवेणुव जावै ॥ १ ॥ कोउ सखि
 तालमृदंग बजावै, कोउ सखिरी झिरी झिगुण गावै ॥ २ ॥ वै
 ठीरंगमहलमें किशोरी, बिनु सखियन कोइ जानन पावै
 ॥ ३ ॥ कोइ सखि देत पान सुख वीरी, मंदमंद कोइ चँवर दु
 रावै ॥ ४ ॥ कोइ सखि रैन दिवस सुधिविसरी कोउ सखि
 बार बार शिर नावै ॥ ५ ॥ शूर किशोरी बलैया लै हों, को
 उ सखि व्याहकी बात चलावै ॥ ६ ॥ ७ ॥

पिया घनश्याम, सिया तन गौरी ॥ टेक ॥ रूप सदन बि
 धुबदन मनोहर, रघुकुल मणि मिथिलेश किशोरी ॥ १ ॥
 कहा कहूँ शोभालाल लाली, छबिसि गार मनहुँ एक ठो
 री ॥ २ ॥ वैठीरंगमहलमें किशोरी, निरखत मुख लोचन ठ

कजोरी ॥ ३ ॥ क्रीटमुकुटराघवजीकेसोहै, सियाजी
केसोहैसुंदरमौरी ॥४॥ सुभगरूपरतिमदनविनिंदति,
सीतारामसकैकहकोरी ॥५॥ रामप्रसादके रघुवरस्वा
मी, हृदयबसोयहसुंदरजोरी ॥ ६ ॥ ८ ॥

राजाराम, जानकीरानी ॥टेक॥ खासगुलामपवनसुत
ठाढ़े, ब्रह्माविष्णुशंभुदरवानी ॥१॥ सेवरीखासमहल
कीदासी, बाहरउमारमाब्रह्मानी ॥२॥ तीनलोकअरु
चौदहभुवनमें, नहिंऐसेराजानहिरानी ॥ ३ ॥ तुलसी
दासरूपकोसागर, अबमनमेंमहिमाहमजानी ॥४॥९
येदोउचंद्र, बसोउरमेरे॥टेक॥ दशरथसुतअरुजनक
नंदिनी, अरुणकमलकरकमलनफेरे ॥१ ॥ बैठेसंगकुं
जनसरजूतट, आसपासललनाघनघेरी ॥ २ ॥ चंद्रव
तीशिरचंवरदुरावै, चंद्रकलातनहंसिहंसिहेरी ॥ ३ ॥
ललितभुजालियेअरसपरसझुकि, रहेहैकैसेकपोलनने
री ॥ ४ ॥ रामसखेअबकहिनपरतछबि, पानपीकमुख
झुकिझुकिहेरी ॥ ५ ॥ १० ॥

भजुदशरथनंदन, जनकलली ॥टेक॥ राजादशरथजी
केरामजीजन्मलिये, राजजनकजीकेभईहैलली ॥ १ ॥
आगेआगेविश्वामित्रमहामुनि, पीछेलक्ष्मणअतुलब
ली ॥२॥ येदोउकुंवरजनकपुरआये, पुष्पबिछायेगलीग
ली ॥३॥ तोरेउधनुषभूपसबहारे, रायजनकजीकेभैहै
भली ॥ ४ ॥ आईहैसीतासंगसहेली, बरमालापहिरा

यचली ॥ ५ ॥ गजमोतियनकीचौकपुराये, मंगलगा
 वैपुरकीअली ॥ ६ ॥ पूजतगौरिमनावतशंकर, वरपाये
 उरघुनाथबली ॥ ७ ॥ तुलसिदासहरिरूपनिहारे, यह
 जोरीमेरेमनमेंबसी ॥ ८ ॥ ११ ॥

इति सोमवारकी धुन समाप्त ।

अथ मंगलवारकी आरती प्रारंभः ।

आरतिकीजै, हनुमानजीललाकी ॥ दुष्टदलन, रघुना
 थकलाकी ॥ टेक ॥ जाकेबलसेगिरिवरकांपै, रोगदोष
 जाकेनिकटनझांपै ॥ १ ॥ अंजनीकेपुत्रमहाबलदाई, सं
 तनेकेप्रभुसदासहाई ॥ २ ॥ दैवीरारघुनाथपठाये, लं
 काजारिसियासुधिलाये ॥ ३ ॥ लंकाअसकोटसमुद्र
 ऐसीखाई, जातपवनसुतवारनलाई ॥ ४ ॥ लं
 काजारिअसुरसबमारे, राजारामजीकेकाजसंवारे ॥
 ५ ॥ लक्ष्मणमूर्छितपरेधरणीमें, आनिसजीवनप्राणउ
 बारे ॥ ६ ॥ पैठिपतालतोरियमकातर, अहिरावणके
 भुजाउखारे ॥ ७ ॥ बायेंभुजासबअसुरसंहारे, दाहिनेभु
 जासबसंतउबारे ८ ॥ सुरनरभुनिजनआरतिउतारेजय
 जयजयहनुमानजीउचारे ९ ॥ कंचनथारकपूरकिवाती
 आरतिकरतअंजनीमाई ॥ १० ॥ जोहनुमानजीकीआ
 रविगावें, वसिवैकुंठबहुरिनहिंआवैं ॥ ११ ॥ लंकविध्वं
 सकियोरघुराई, तुलसीदासस्वामीआरतिगाई ॥ १२ ॥

इति मंगलवारकी आरती समाप्त ।

अथ मंगलवारकी धुनप्रारंभः ॥

कहुकपिकुशल, लषनरघुवरके ॥ टेक ॥ बारबारबूझेमा
तुजानकी, बूझतकुशलनयनजलठरके ॥ १ ॥ जिनके
भोगविलासअवधमें, सोकसरहतछांहतरुवरके ॥ २ ॥
संगसखासरजूतटबिहरें, बाणचलावेलषनधनुधरके ॥
॥ ३ ॥ रत्नसिंहासनआपुबिराजे, चँवरछत्रदुरेरघुवरके
॥ ४ ॥ कबरघुपतिलंकामेंऐहैं, बधकरिहैंरावणनिश्चर
के ॥ ५ ॥ रावणमारिअहिरावणमारे, नाशकियोनिश्च
रकुलके ॥ ६ ॥ लंकाजीतिरामघरआये, तुलसीदा
सचरणरजधरिके ॥ ७ ॥ १ ॥

सबदेवनकेराजा, हनुमतमहराजा ॥ टेक ॥ अंजनीके
पुत्ररामजीकेपायक, सारेरामरकेकाजा ॥ लंकापुरीमेंकू
दिपरेहैं, डरप्योरावणराजा ॥ १ ॥ करिकिलकारकूदिग
येसागर, जातबारनहिलाया ॥ लंकाजायसियासुधिली
न्हो, कीन्होप्रभुकोकाजा ॥ २ ॥ शक्तिबाणलागेलक्ष्मणके,
जातबारनहिलाया ॥ द्रोणागिरिसेलायेसजीवनि, कि
योरामकोकाजा ॥ ३ ॥ लंकाजीतिरामघरआये, सखि
यनमंगलगाया ॥ तुलसिदासअविचलयहजोरी, चरण
कमलचितलाया ॥ ४ ॥ २ ॥

जयश्रीहनुमंताजयश्रीबलवंता, तुमकोसुरमुनिध्यावैं
॥ टेक ॥ तवअवतारबिदितजगजानै, जानतसबवाता ॥
जन्मलियोहैपवनसुत, अंजनीगर्भजाता ॥ १ ॥ मारि

फलांगकूदिगयेसागर, देखिअरुणताता ॥कोटिअग्नि
समदेखे, मानोंफलराता ॥ २ ॥ सीतासुधिरघुनाथपठा
ये, कूदिगयेलंका ॥ सबकोभयउपजाये, राक्षसकुलहं
ता ॥ ३ ॥ उलटिपलटिलंकाकपिजारी, राक्षससंधा
ता ॥ कूदिपरेसागरमें, सिंधूभयकंपा ॥ ४ ॥ पृच्छबुद्धा
यसियापहँआये, नायचरणमाथा ॥ अजरअमरमुत
होहु, बरदियेजगमाता ॥ ५ ॥ तुरतहिरामलखनप
हँआये, नायचरणमाथा ॥ हरिहँसिकंठलगाये, क
हीकुशलबाता ॥ ६ ॥ शिवसनकादिआदिब्रह्मादिक,
पावतनहिअंता ॥ अनभयदासकिविनतीमुनिकै, सि
यपियकंता ॥ ७ ॥ ३ ॥

कृपाकरोहनुमान, जनपर ॥ टेक ॥ रामकेद्वारेतुमरखवा
रे, महावीरबलवान ॥ १ ॥ रामलखनकौशलयाजीके,
जायेअंजनीकेहनुमान ॥ २ ॥ संकटमोचननामतु
म्हारो, धरतसंतजनध्यान ॥ ३ ॥ हाथमेंसौंटा लालुंगो
टा, मुखमेंनागरपान ॥ ४ ॥ लक्ष्मणमूर्च्छिष्ठपरेधरणीमें,
दियोसंजीवनिआन ॥ ५ ॥ जनकसुताकोशोकनिवारो,
रघुवरसुयशबखान ॥ ६ ॥ पैठिपतालअहिरावणमारो, दे
वीकेहरिलियेप्रान ॥ ७ ॥ मकरध्वजकोराजतिलकदि
यो, राख्योतिनकोमान ॥ ८ ॥ रामलषणकोशोकनिवा
रो, दलमेंलेआयेहनुमान ॥ ९ ॥ तुलसिदासपरसुकृपा
कीजे, भक्तआपनोजान ॥ १० ॥ ४ ॥

हमपरकृपाकरो,महवीर ॥टेक॥रामकाजअवतारलि
योहै,धर्मधुरंधरधीर ॥१॥ सियाखबररघुनाथपठाये,
उतरेसिंधुगंभीर ॥ २ ॥ लंकाजारिसियासुधिल्याये,
आयेउलरिकैतीर ॥ ३ ॥ कपिदलसहितरामपहँआये,
महातेजरणधीर ॥ ४ ॥ लाललंगोटासिंदूरविराजै,सुं
दरगौरशरीर ॥५॥सरजूदासपरअवकृपाकीजै,हरेवि
षमभवपीर ॥ ६ ॥ ५ ॥

अंजनीकुमारपवनसुतमेरी, अरजरामजीसोंकहियो
जी ॥टेक॥ भवसागरमेंबहोजातहूँ,बाहँपकरगहिली
जोजी ॥ १ ॥ यमकोदंडसकलजगऊपर,वाहूसेमोहिंब
चैहोजी ॥ २ ॥ रघुवरलक्ष्मणभरतशत्रहन,उनहूँसेमो
हिंमिलैहोजी ॥ ३ ॥ तुमतोपायकरामचंद्रके,सन्मुख
होकररहियोजी ॥ ४ ॥ नदियागहिरीनावपुरानी,बे
रापारलगैहोजी ॥ ५ ॥ तेलसिंदूरचंदैनिशिबासर,ला
हूभोगलगैहोजी ॥ ६ ॥ तुलसिदासहनुमानभरोसे,
भक्तिदानमोहिदीजोजी ॥ ७ ॥ ६ ॥

जयजयहनुमान,वीरबंका।टेक।अंजनिकेपुत्रमहाबल
दायक,रामकाजपरकियोहंका ॥ १ ॥ करिकिलकार
कूदगयेसागर,घरघरहूढ़ेगढ़लंका ॥ २ ॥ सियकीशु
धिरघुनाथपठाये,छिनमेंजारीगढ़लंका ॥ ३ ॥ बागउ
खारसमुद्रमैंडारे,पानफूलकोकियोफंका ॥ ४ ॥ पँचरं
गबाणरामलक्ष्मणके,देखिअसुरथरहरकंपा ॥५॥अप्रक्ष

कुमारबागविचमारे, मेघानदपरकियोहंका ॥६॥ रा
वणमारिअहिरावणमारे, कुंभकरणपरकियोहंका ॥७॥
तुलसिदासहनुमानजीभरोसे, भक्तविभीषणपाईलं
का ॥ ८ ॥ ७ ॥

रघुनाथतुम्हारेचरतिमनोहरललितमनोहर, गावतम
कलअवधवासी ॥८॥ अतिउदारअवतारमनुजवपु,
धन्योब्रह्मवरअविनाशी ॥९॥ प्रथमताडुकाहनिमुवाहु
बांधे, मखराख्योद्विजहितकारी ॥१०॥ देखिदुखितआतिशि
लाशापबश, रघुवरविप्रनारितारी ॥११॥ सबभूपनकोग
र्बहन्थोहै, भंजयोशंभुचापमारी ॥१२॥ तातवचनमुनि
राजकाजतजि, चित्रकूटमुनिवेषधन्यो ॥१३॥ एकनयनकी
न्होसुरपतिसुत, अधिविराधकृष्णपिशोकहन्थो ॥ १४ ॥ पं
चबटीपावनराधवकरि, सूर्पणखाकोरूपहन्थो ॥ १५ ॥ खर
दूषणसंहारिकपटसृग, गीधरायकोगतिदीन्हो ॥ १६ ॥ ह
तिकबंधसुग्रीवसखाकरि, वेधोताडवालिमान्यो ॥१७॥ वान
रकृक्षसहायअनुजसंग, सिंधुवाँधियशाविस्तान्यो ॥१८॥
सकलपुत्रदलसहितदशानन, मारिअखिलसुरदुखटा
न्यो ॥१९॥ परमसाधुजियजानिविभीषण, लंकापुरीतिलक
सान्यो ॥२०॥ सीताअरुलक्ष्मणसंगलीन्है, औरदासजेते
ओथ ॥ नगरनिकटविमानआयोजव, नरनारीदे
खनधाये ॥२१॥ शिवसनकादिविरंचिआदिमुनि, अस्तु
तिकरतविमलवानी ॥ चौदहभुवनचराचरहर्षित, आये

रामरजधानी ॥९॥ मिलेभरतजननीगुरुपरिजन, चाह
तपरमआनंदभरे।दुसहवियोगजनितदारुणदुख, राम
चरणदेखतबिसरे ॥१०॥ वेदपुराणविचारिलग्रशुभ, म
हाराजअभिषेककियो ॥ तुलसिदासजियजानिसुअव
सर, भक्तिदानवरमांगिलियो ॥ ११ ॥ ८ ॥

भजरेमनसियारघुनंदनको, जगबंदनको ॥ टेक ॥
दशरथनंदनआनंदकंदन, सूर्यवंशकुलमंडनको ॥ १ ॥
जानकीनायकसबसुखदायक, संतनकेमनरंजनको ॥
॥२॥ विश्वामित्रकोयज्ञसुफलकरि, गौतमनारिउधार
नको ॥३॥ जनकस्वयंबरपावनकीन्हो, कठिनधनुषके
भंजनको ॥४॥ पंचवटीपावनराघवकरि, खरदूषणसं
हारनको ॥५॥ जांबवंतसुग्रीवनिलनल, चरणकमल
रजबंदनको ॥६॥ सागरसेतुनामकोबांधे, कपिलपा
रउतारनको ॥७॥ रावणकेदशमस्तकछेदे, बीसौभुजा
उखारनको ॥ ८ ॥ तुलसिदासहरिरूपनिहारे, काट
तयमकेफंदनको ॥ ९ ॥ ९ ॥

पवनतनय, संतनहितकारी ॥टेक॥ हृदयविराजैअव
धबिहारी ॥ १॥ मंगलमूरतिमारुतिनंदन ॥ सकलअ
मंगलमूलनिकंदन ॥ २ ॥ वरणौमातपितागुरुशारद ॥
उमासहितशंभूशुकनारद ॥ ३ ॥ चरणबंदिबिनवोंसब
काहू ॥ देहुरामपदभक्तिनिबाहू ॥ ४ ॥ वरणौअवधपु
रीनरनारी॥जयरघुवरसियाजनकहुलारी ॥५॥ वरणौ

रायकौशल्यारानी ॥ करहुकृपानिजसेवकजानी ॥ ६ ॥
 बालमीकिसुनिव्यासबखानी ॥ सनकादिकऋषिअंत
 रजानी ॥ ७ ॥ भरतशत्रुहनसंगसुहाये ॥ हनूमानअंगदम
 नभाये ॥ ८ ॥ भीरपरेकपिसुमिरौंतोहीं ॥ होउदयालु
 दरसदेहुमोहीं ॥ ९ ॥ बन्दौरामलखनवैदेही ॥ जतुल
 सीकेपरमसनेही ॥ १० ॥ १० ॥

गाइयेगणपति, जगबंदन ॥ शंकर सुवनभवानीकेनंदन
 ॥ टिक ॥ सिद्धिसदनगजवदनविनायक, कृपासिंधुसुंद
 रसबलायक ॥ १ ॥ मोदकप्रियमुदमंगलदाता, विद्या
 बारिधिवुद्धिविधाता ॥ २ ॥ मांगततुलसिदासकर
 जोरे, बसहुरामसियमानसमोरे ॥ ३ ॥ ११ ॥

इति मंगलवारकी धुन समाप्त ।

अथ बुधवारकी आरती प्रारंभः ।

आरतियुगलकिशोरकीकीजै ॥ तनमनधनहुँनिछावर
 कीजै ॥ टिक ॥ गौरश्याममुखनिरखतलीजै, हरिकोस्वरू
 पनयनभरिपीजै ॥ १ ॥ रविशशिकोटिवदनकीशोभा,
 ताहिनिरखिमेरोमनलोभा ॥ २ ॥ ओढ़ेनीलपीत
 पटसारी, कुंजबिहारीगिरिवरधारी ॥ ३ ॥ फूलनकी
 सेजफूलनवनमाला, रत्नसिंहासनवैठेनंदलाला ॥
 ४ ॥ मोरमुकुटमुरलीकरसोहै, नटवरकलादेखिम
 नमोहै ॥ ५ ॥ कंचनथारकपूरकीबाती, हरिआयेनिर्मल
 भइछाती ॥ ६ ॥ श्रीपुरुषोत्तमगिरिवरधारी, आरतिक

रैंसकलत्रजनारी ॥ ७ ॥ नंदनंदनवृषभानुकिशोरी, पर
मानंदस्वामीअविचलजोरी ॥ ८ ॥ १ ॥

इति बुधवारकी आरती समाप्त ।

अथ बुधवारकी धुन प्रारंभः ।

भजोवृंदावनजययमुना २, जयवंशीवटजयफुलना ॥
॥टेक॥कृष्णचरणकोट्यानधरतही, छूटिगईमनकीअ
मना ॥ १ ॥ मथुरामेंहरिजन्मलियोहै, गोकुलमेंझूलेप
लना ॥ २ ॥ इतमथुराउतगोकुलनगरी, बीचमेंदानचु
कावैललना ॥ ३ ॥ यमुनाकेनीरेतीरेधेनुचरावै, मधुरी
सीबेनुबजावैललना ॥ ४ ॥ पैठिपतालकालियानाथे, फ
णपरवृत्त्यकरेललना ॥ ५ ॥ इंद्रकोपिचढ़ेब्रजकेऊपर, न
खपरगिरिवरधारेललना ॥ ६ ॥ वृंदावनमेंरासरचोहै,
गोपीग्वालनचावैललना ॥ ७ ॥ सेवरीकेबैरसुदामाके
तण्डुल, रुचिरुचिभोगलगायेललना ॥ ८ ॥ दुर्योधन
घरमेवात्यागे, सागविदुरघरखायेललना ॥ ९ ॥ जल
डूबतगजराजउबारे, चक्रसुदर्शनधारेललना ॥ १० ॥
केशीमारेकंसपछारे, यमुनामेंमारिवहायेललना ॥
॥११॥उग्रसेनकोराजतिलकदियो, उनहुँकेवंशबढाये-
ललना ॥१२॥चंद्रसखीभजुवालकृष्णछवि, हरिकेच-
रणपर चितधरना ॥ १३ ॥ १२ ॥
नाचैनंदलाल, नचावैमैया ॥ टेक ॥ मथुरामेंहरि
जन्मलियोहै, गोकुलमेंपगधारोरीकन्हैया ॥१॥रुमक

झुमकपगनूपुरबाजै, ठुमकठुमकपगधरोरी कन्हैया ॥ २ ॥
 दूधनपीवैललादहियानखावै, माखनकोलालावडोरी
 खवैया ॥ ३ ॥ सालदुसालाजाकेमनहुँनभावै, कारीकाम
 रिलालावडोरीओढ़ैया ॥ ४ ॥ मोरमुकुटपीतांबरसोहै
 बंसीकोलालावडोरीवजैया ॥ ५ ॥ वृंदावनकीकुंजगलि
 नमें, सहसगोपीएकभयोरीकन्हैया ॥ ६ ॥ चंद्रसखीभ
 जुबालकृष्णछवि, चरणकमलकीमैलेउँवलैया ॥ ७ ॥ ३ ॥
 नंदभवनकोभूषणमाई ॥ टेक ॥ यशुदाकोलालवीरहल
 धरको, राधाकोरणपरमसुखदाई ॥ १ ॥ इंद्रकोइंद्रदे
 वदेवनको, ब्रह्मको ब्रह्मअधिकअधिकाई ॥ २ ॥ काल
 कोकालईशईशनको, अतुलितबलतउलोनाहिजाई ३ ॥
 जाकोनिगमनेतियशगावै, महिमावेदपुराणनगाई ॥
 ४ ॥ ४ ॥ वंददासकेजीवनगिरिधर, गोकुलनायककुँवर
 कन्हई ॥ ५ ॥ ४ ॥

मथुरामहोयरही, सर्वमई ॥ टेक ॥ हमदधिवैचनजातवृं
 दावन, मारगभेमेरीवांहगही ॥ १ ॥ मेरोरी कन्हैयापांच
 वरसको, सोकैसेतेरीवांहगही ॥ २ ॥ जिनगलियनमे
 रोफिरेरीकन्हैया. उनगलियनराधेकाहेकोगई ॥ ३ ॥
 यमुनाकेतीरकदमकीछहियां मोहनमुरलीवाजिरही ॥
 ४ ॥ चंद्रसखीभजुबालकृष्णछवि, चरणकमलचि
 तलायरही ॥ ५ ॥ ५ ॥

कुँवरिछबीलीश्रीराधेप्यारी, ब्रजबनितासबरूपला

डिली॥टेक॥कलिमलहरनीवेदनवरनी, प्रभुवसकरनी
 श्रीराधे॥१॥हरिगुणमालाप्रेमरसाला, रूपविशालाश्री
 राधे ॥२॥ छुप्पनभोगछतीसोव्यंजन, लाडूमैंकछुकि
 योराधे॥३॥कोरीकोरीमटुकीमेंदहीजमायो, मारन
 मेंकछुकियोराधे ॥४॥ कथाचूनालौंगसुपारी, बिड़िय
 नमेंकछुकियोराधे ॥६॥ चुनिचुनिकलियाहारबनायो,
 गजरामेंकछुकियोराधे ॥६॥ श्रीभटकेप्रभुदियोहैअभ
 यपद, अविचलराजकरोराधे ॥ ७ ॥ ६ ॥

बाजेबाजेलाल, तेरीपैंजनियां ॥ टेक॥पैंजनियाजेअ
 धिकसोहावैं, मोहिलियेसुरनरमुनिया ॥ १॥ नीलअंग
 परपीतझंगुलिया, रत्नजड़ावकीपैंजनिया ॥ २ ॥ चंद
 नचर्चितअंगमनोहर, शिरपरसोहतचौतनिया ॥२॥य
 शुमतिसुतकोचलनसिखावैं, अंगुलीपकरिलियेदोउज
 निया ॥४॥ छोटेछोटेचरणचतुर्भुजमूरति, अलकझल
 करहीनागिनिया ॥५॥ शिवब्रह्माजाकोपारनपावैं, ता
 हिनचावैंगवालिनिया ॥ ६ ॥ चंद्रसखीभजुबालकृष्णछ
 बि, तीनलोककेतुमधनिया ॥ ७ ॥ ७ ॥

बाजैबाजै, रामजीकीपैंजनिया ॥टेक॥पैंजनिबाजैअ
 धिकसोहावैं, मोहिलियेसुरनरमुनिया ॥ १ ॥ जरकस
 पागकेसरियाजामा, रत्नजड़ावकीपैंजनिया ॥ २ ॥ सुं
 दरबदनकमलदलोचन, शिरपरसोहतचौतनिया ॥३॥
 मातृकौसल्याचलनसिखावैं, अंगुलिपकरिलियेदोउ

जनिया ॥४॥ क्रीटमुकुटमकराकृतिकुंडल, उरवनमालसोहावनिया ॥५॥ पीतांबरकीकछनीकाछे, धनुषवाणकरधारनिया ॥ ६ ॥ रुमकझुमकपगनूपुरवाजै, अलकझलकरहीनागिनिया ॥७॥ शिवब्रह्माजाकोपारनपावैं, दशरथजीकेलालनिया ॥ ८ ॥ तुलसिदासहरिरूपनिहारे, तीनलोककेतुमधनिया ॥ ९ ॥ ८ ॥

भजुगोविंदगोविंदगोपाला ॥ टेक ॥ मथुरामेंहरिजन्मलियोहै, गोकुलझलेनँदलाला ॥ १ ॥ पूतनाकोजननीगतिदीनो, अधमउधारननँदलाला ॥२॥ मातुयशोदादहीबिलोवे, माखनखावैनँदलाला ॥३॥ गोकुलसेहरिमथुरामेंआये, संगलियेसबव्रजवाला ॥ ४ ॥ मथुराआयेरजकलुटाये, पहिरायेसबव्रजवाला ॥५॥ कुब्जातोचंदनघसिल्याई, मालिनिल्याईफूलमाला ॥ ६ ॥ अघासुरमारिबकासुरमारे, यमलार्जुनतारेनँदलाला ॥ ७ ॥ केशपकरिकैकंसपछारे, नंदभवनआयेनँदलाला ॥ ८ ॥ उग्रसेनकोराजतिलकदियो, कियेमथुराकेभूपाला ॥ ९ ॥ वनमालीहरिशरणैआये, प्रेमभक्तिकीफेरीमाला ॥ १० ॥ ९ ॥

भजुराधाबरसुंदर, गिरिधारीरगिरिवरधारी ॥ टेक ॥ नंदनँदनआनंदमनोहर, प्रथमपूतनाकोतारी ॥ १ ॥ मोरमुकुटशिरधरेसांवरी, संगलियेव्रजकीनारी ॥२॥ यमुनाकेनिकटकदमकीछहियां, बिहरतहैंप्रीतमप्या

री ॥ ३ ॥ अघासुरमारिबकासुरमारे, जरासिंधुकोमदहारी ॥ ४ ॥ असुरनकुलनिर्बंशकियोहे, केशीकंसहते भारी ॥ ५ ॥ यशुमतिलालगोपालचरणपर, चतुरदासकीबलिहारी ॥ ६ ॥ १० ॥

तेरेबांकेमुकुटकीछबिन्यारी, शोभाभारी ॥ टेक ॥ यमुनाकेनीरेतीरेधेनुचरावैं, कांधेकामरिहैकारी ॥ १ ॥ वृंदावनमेंरासरचोहै, सहसगोपिकाएकगिरिधारी ॥ २ ॥ पीतांबरकीकछनीकाछे, मुरलीबजावैंगिरिधारी ॥ ३ ॥ वृंदावनकीकुंजगलिनमें, बिहरतहैंप्रीतमप्यारी ॥ ४ ॥ चंद्रसखीभजुबालकृष्णछवि, चरणकमलकीबलिहारी ॥ ५ ॥ ११ ॥

वृषभानुकीलली, सांवलियासेनेहलगायकैचली ॥ टेक ॥ आवोरेअहिरकेहमरीगली, चंदनछिरकोतेरीपगरी ॥ १ ॥ हाथमेंगजरागुलाबकीछड़ी, ठाढ़ेरहियोलालजीमैकबकीखड़ी ॥ २ ॥ नयनमेंसुरमामुखभरिपान, छोटीसीउमिरियाराधेबड़ोहैगुमान ॥ ३ ॥ छोटीमोटीमटुकीदधिसेभरी, रंगमहलमेंराधेजीखड़ी ॥ ४ ॥ वृंदावनमेंरासविलास, यहधुनिगावेस्वामीकान्हरदास ॥ ५ ॥ १२ ॥ मेरेअंगनामेंमुरलीबजायगयोरे ॥ टेक ॥ छोटेछोटेचरणबड़ेबड़ेनयना, वृंदावनकीकुंजगलिनमेंमारिगयोसैना ॥ १ ॥ मेरीआलीमेरीआलीकहोकितजाऊं, मुरलीमेंगावलैलैमेरोनाम ॥ २ ॥ ऊंचीनीचीघाटीमोसेचढ़उन

जाय, मुरलीकीधुनिसुनिरहउनजाय ॥ ३ ॥ कितगईंगै
यांकितगयेगवाल, कितगयेवंसीवजावनहार ॥ ४ ॥ गोकु
लगईंगैयांबृंदावनगयेगवाल, मथुरामेंवंसीवजावनहार
॥ ५ ॥ घरआईंगइयांघरआयेगवाल, अजहुंनआयेमेरे
मदनगोपाल ॥ ६ ॥ मीराकेप्रभुगिरिधरलाल, पायेहैं
दर्शनभईहैनिहाल ॥ ७ ॥ १३ ॥

गिरिनपरैगोपाल, गिरिवर ॥ टेक ॥ ब्रजकीसखीसव
पूजननिकसीं, भरिभरिमोतियनथार ॥ १ ॥ इंद्रहुको
पिचदेउब्रजऊपर, वर्षतमूसलधार ॥ २ ॥ सातदिवस
भैघवाझरिलाये, ब्रजमेंपरोनफुहार ॥ ३ ॥ शंखचक्रगदा
पद्मविराजै, बांकेनयनविशाल ॥ ४ ॥ गवालवालसवगिरि
वरनीचे मुरलीबजावैनंदकोलाल ॥ ५ ॥ पीतांबरकीकछ
नीकाछे, नखपरगिरिवरधार ॥ ६ ॥ मोरमुकुटमकराकृ
तिकुंडल, तिलकविराजैभाल ॥ ७ ॥ चंद्रसखीभजुवाल
कृष्णछवि, निरखतमुखनंदलाल ॥ ८ ॥

अंखियांमें, लागिरहैगोपाल ॥ टेक ॥ मैंयमुनाजलभरन
जातरही, फैलायोजंजाल ॥ १ ॥ रुनुकझुनुकपगनूपुरवा
जै, चालचलतगजराज ॥ २ ॥ यमुनाकेनीरेतीरेधेनुच
रावै, संगसखाब्रजराज ॥ ३ ॥ बिनदेखेमोहिकलनपर
तहै, निशिदिनरहतविहाल ॥ ४ ॥ लोकलाजकुलकी
मरयादा, निपटसुभ्रमकाजाल ॥ ५ ॥ वृंदावनमेंरासर
च्योहै, सहसगोपीएकलाल ॥ ६ ॥ मोरमुकुटपीतांबर

सोहै, गलेबैजंतीमाल ॥ ७ ॥ शंखचक्रगदापद्मविरा
 जै, बांकेनयनविशाल ॥ ८ ॥ चंद्रसखीभञ्जुबालकृष्ण
 छवि, चिरंजीवरहोनंदकेलाल ॥ ९ ॥ ९५ ॥
 भजोसुंदरश्याम, मुकुटधारी ॥ टेक ॥ वदनकमलपर
 कुंडलझलकै, अलकैसोहैब्रंघुरवारी ॥ १ ॥ उरबैजंती
 मालविराजै, वनमालासोहैगुंजनवारी ॥ २ ॥ केशर
 भालतिलकशिरसोहै, मुरलीकीछविहैन्यारी ॥ ३ ॥
 पांयनमैपैजनियांसोहै, झूमझूमआवतगिरिधारी ॥ ४ ॥
 बंसीबटतटरासरचोहै, संगलियेराधाप्यारी ॥ ५ ॥ बृं
 दावनमैखेलतडोलत, बिहारकरतहैवनमाली ॥ ६ ॥
 चंद्रसखीभञ्जुराधावल्लभ, चरणकमलकीबलिहारी ॥
 ॥ ७ ॥ १६ ॥

मनअटकीमेरोदिलअटकी, होमुकुटलटकमेरोमन
 अटकी।टेक। माथेमुकुटखौरचंदनकी, शोभाहैपीरेप-
 टकी ॥ १ ॥ शंखचक्रगदापद्मविराजै, गुंजमालमैरहिये
 अटकी। २। अंतरध्यानभयेगोपियनमै, सुधनरहीयमु
 नातटकी ॥ ३ ॥ पातपातबृंदावनहूंदे, कुंजकुंजराधेभट
 की ॥ ४ ॥ यमुनाकेनीरेतीरेधेनुचरावै, सुरतरहीबंसी
 बटकी ॥ ५ ॥ फूलनकेजामाकदमकीछैयां, गोपियन
 कीमटुकीपटकी ॥ ६ ॥ मीराकेप्रभुगिरिधरनागर, जा
 नैसबकेघटकी ॥ ७ ॥ १७ ॥

कैसेआवौंहोलाल, तेरीव्रजनगरीगोकुलनगरी। टेक।

इतमथुराउतगोकुलनगरी, बीचवहेयमुनागहिरी ॥ १ ॥
 पाँवधरौमेरीपायलभीजै, कूदिपरौवहिजाउँसगरी ॥ २ ॥
 मैदाधिबेचनजातवृंदावन, सारगमेंमोहनझगरी ॥ ३ ॥
 बरजोयशोदामैयाअपनेलालको, छीनिलियोमेरीनथ
 लेरी ॥ ४ ॥ रहुरहुग्वालिनिङ्गठनवोलो, कान्हअकेला
 तुमसगरी ॥ ५ ॥ हमरोकन्हैयापांचवरसको, तुमगवा
 लिनिलअलमस्तभई ॥ ६ ॥ जायपुकारोकंसराजासे,
 न्यारनहींमथुरानगरी ॥ ७ ॥ वृंदावनकीकुंजगलिन
 में, बांहपकरराधेझगरी ॥ ८ ॥ मीराकेप्रभुगिरिधरनाग
 र, साधुसंगकरिहमसुधरी ॥ ९ ॥ १८ ॥

मोकौचाकरराखोजीसांवलिया, गिरिधारीलालटेका
 चाकररहतीबागलगाती, नितउठिदर्शनपाती ॥ वृंदा
 बनकीकुंजगलिनमें, गोविंदलीलागाती ॥ १ ॥ चाक
 रीमेंमैदर्शनपावों, सुमिरनपावोंखरची ॥ भावभक्तिजा
 गीरीपावों, तीनलोककीखरची ॥ रामोदीपूछेमदनमो
 हनसों, कहामहिमापायो ॥ तीनलोकजागीरीपायों,
 निर्भयपटोलिखायो ॥ ३ ॥ योगीआयेयोगकरनको
 तपकरनेसंन्यासी ॥ रामभजनकोसाधुआये, वृंदावन
 केबासी ॥ ४ ॥ ऊंचेऊंचेमहलबनायों, विचविचराखोंवा
 री ॥ सांवलियाकेआगेनाचूं, ओढ़िपीतांबरसारी ॥
 ५ ॥ मोरसुकुटपीतांबरसोहै, गलेबैजंतीमाला ॥
 वृंदावनमेंधनुचरावै, मोहनसुरलीवारा ॥ ६ ॥ चौकादेउँ

गिझारूदेउंगी, गोबरउठाऊंबासी ॥ सांझसबेरेजलभ
रिलाऊं, सबसंतनकीदासी ॥ ७ ॥ मीराकेप्रभुगिरिधरला
ल, ग्वालिनिकोप्रभुदर्शनदीनोयमुनाजीकेतीर ८ ॥ १९
जैजैयशोदानंदनकी, जगबंदनकी ॥ टेक ॥ भालविशा
लमालमोतियनकी, खौरविराजैचंदनकी ॥ १ ॥ पैठि
पातालकालिनागनाथो, फणपरनिरतकरावनकी ॥ २ ॥
यमुनाकेनीरेतीरेधेनुचरावै, हाथलकुटियाचंदनकी ॥
॥ ३ ॥ इंद्रकोपकियेब्रजऊपर, नखपरगिरिवरधारनकी
॥ ४ ॥ केसीमारिकंसपछारे, असुरनकेदलभंजनकी ॥ ५ ॥
उग्रसेनकोराजतिलकदियो, रक्षाकरीसबसंतनकी ॥ ६ ॥
शंखचक्रगदापद्मविराजै, भक्तवत्सलभवभंजनकी ॥ ७ ॥
घंटातालपखावजबाजै, गहरीधुनसबसंतनकी ॥ ८ ॥
आपनजायद्वारकाछाये, पलपललहरतरंगनकी ॥ ९ ॥
आसपासरत्नाकरसागर, गोमतिकरतकिलोलनकी ॥
॥ १० ॥ चंद्रसखीभजुवालकृष्णछवि, चरणकमलरज
बंदनकी ॥ ११ ॥ २० ॥

घरआवोगेपनघटपर, मुरलीबजावोगे ॥ टेक ॥ साधो
पहिलीप्रीतिजानोगे, हरिकोकहांपहिचानोगे ॥ १ ॥ सा
धोगौरश्याममुखराचीहै, प्रभुपूरणबह्मअविनाशीहै २
साधोगिरिवरधेनुचरावोगे, सबगोपीग्वालनचावो
गे ॥ ३ ॥ साधोराहघाटमोहिरोकतहै, कान्हदहीमेरोलू
टतहै ॥ ४ ॥ साधोमोरमुकुटवनमालाहैंअच्छेसुंदरनयन

विशालहैं ॥५॥ साधोपीतवसनकरमुरलीहै, बाजूवँद
 मुद्रिकापहुँचीहै ॥ ६ ॥ साधोऔरकोजपतपकाशीहै,
 हमतोवृंदावनबासीहै ॥ ७ ॥ साधोरामकृष्णगुणगावो
 गे, भवसागरफेरनआवोगे ॥ ८ ॥ राघवदासआनंदप
 दपावोगे, हरिचरणननेहलगावोगे ॥ ९ ॥ २१ ॥
 बलिहारीलालतेरेआवनकी, मनभावनकी ॥टेक॥ इ
 तमथुराउतगोकुलनगरी, बीचमेंरासरमावनकी ॥१॥
 चुनिचुनिकलियामैंहारवनाऊं, यदुवरउरपहिरावन
 की ॥२॥ मोरमुकुटपीतांबरसोहै, मधुरमधुरमुसकावन
 की ॥३॥ यमुनाकेनीरेतीरेधेनुचरावैं, मधुरीसाँवेणुबजा
 नकी ॥४॥ पैठिपातालकालियानाथे, फणपरनिरतक
 रावनकी ॥५॥ इंद्रकोपचढ़ेब्रजकेऊपर, नखपरगिरिव
 रधारनकी ॥६॥ केशपकरिहरिकंसपछारे, यमुनामेंमा
 रबहावनकी ॥७॥ उग्रसेनकोराजतिलकदियो, उनहूँ
 केबंशबढ़ावनकी ॥ ८ ॥ वृंदावनमेंरासराचोहै, सहस
 गोपीएककान्हाकी ॥ ९ ॥ जलडूबतगजराजउबारे,
 चक्रसुदर्शनधारनकी ॥१०॥ दुर्योधनघरमेवात्यागो, सा
 गविदुरघरपावनकी ॥११॥ चंद्रसखीभञ्जुबालकृष्णछ
 वि, हरिकेचरणचितलावनकी ॥ १२ ॥ २२ ॥

इति बुधवारकी धुन समाप्त ।

अथ शयनसमयकी ब्यारू ।

आनकरोकछुब्यारी, रामजीकोटेरतहैमहतारी टेक

रजनीबहुतगईमेरेप्यारे, आधिकरोकछुब्यारी ॥ १ ॥
 रंगमहलचढिटेरैकौशल्या, लैलअवधबिहारी ॥ २ ॥
 खाझाखुरमातपतजलेबी, सीरासरससुहारी ॥३॥ भां
 तिभांतिकेधरेहैंअथाने, नानाविधितरकारी ॥४॥ हि
 तकरिदूधजानकीलाई मेवामिसिरीमिलाई ॥५॥ आप
 नजीमेंभरतजीसांबूझैं, कैसीभईभैयाब्यारी ॥६॥ चा
 रौंभैयामिलजेवनबैठे, परसतजनकदुलारी ॥७॥ रघु
 बरलक्ष्मणभरतशत्रुहन, दशरथअजिरबिहारी ॥८॥
 निर्मलजलसरजूकोअंचवन, रत्नजडाधकिझारी ॥९॥
 तुलसीदासप्रभुद्वारेठाढ़े, जूठनकेअधिकारी ॥१॥ १॥
 करतबियारूमोहनहैंसिहैंसि, करतबियारूमोहन ॥ चि
 तवनमेंचितचोरलेतहैं, नखशिखसुंदररूपसगोहन ॥
 ॥ टेक ॥ औटोदूधकनकबेलाभरि, लैललिताआईहैगो
 हन ॥ फूंकतपिवतसेरातसांवरो, अंचलददैमातजसो
 हन ॥१॥ देखतबनैकहतनहैंआवै, सुधिभूलीहैमोहिं
 सोहन ॥ कृष्णदासगिरिधरनलाडिली, चितचोरोहैमृ
 दुमुसुकोहन ॥ २ ॥ २ ॥

भलियभांतिसोंकीन्होभोजन, भलियभांतिसोंकी-
 न्हो ॥ षटरसव्यंजनबरासलोना, मांगिमांगिहरिलीन्हो
 ॥ टेक ॥ हंसतलसतपरसैंनंदरानी, बालकेलिरसभीनी ॥
 परमानंदबढ्योपनवारो, बांटसखनकोदीन्हो ॥१॥३॥
 मोहनलालबियारूकीजै, व्यंजनमीठखाटेखारे, रुचि

सोंमांगिजननिसोंलीजै ॥टेक॥ खोवामिसिरीऔरव
सूंधी,ताऊपरतातोपयपीजै॥जोरमंडलीभोजनकीजै
जूठनआशकरनकोदीजै ॥ १ ॥ ४ ॥

सुखनिधिरघुवर, करतवियारी॥मधुमेवापकवानसर
सअति,प्रेमसहितपरसेमहातारी॥टेकागुंझालाड्डउज-
रीफनी,पुरीसरपुरीपुवासुहारी।घेवरपापरतप्तजलेवी
मिश्रीसीरासरससवांरी॥१॥सूरन आमकरोंदाजेंवत
आदोनिंबूअतिरुचिकारी॥औटोदूधधरोलैअगे, पि
योलालजननीबलिहारी॥२॥अतिसुगंधसरयूजलसिय
रो, रत्नजड़ितभरिलाईझारी।भोजनकियोलियोप्रभु
अँचवन,राजिवनयनबयनबलिहारी॥३॥बीरींदतसि
याकरअपने, गरीकपूरभरिलौंगसुपारी॥गोकुलदास
द्वारेयशगावैं, पावतजूठरहैंकडुथारी ॥ ४ ॥ ५ ॥

रामजिबुनारचलेहोउनींदे, नयनरतनारेरामजिबुना
रचले॥टेक॥ब्रह्माआदिकथारीलाये, नारदलायेझारी
दूधभातकौशल्यालाई, रघुधरकरौहोवियारी ॥ राम
जिबुनारचले॥१॥खाझाखुरमातप्तजलेवी, अजबवनी
तरकारी॥रामलक्ष्मणजीजैवनबैठे, परमतजनकदु-
लारी ॥२॥खासामलमलऔरदरियाई, फूलनसेजब
नाई॥रामलक्ष्मणजीपौढ़नलागे,अनुचरचवंरदुराई३
सबदेवतामिलिचौकीआये,वीरासनहनुमान।राम०।
बुलसिदासप्रभुद्वारठादे,कनकडबाभरिपान॥ ४ ॥ ६ ॥

करतभावनीजोरीब्यारी॥टेक ॥षटरसव्यंजनविविध
बनाये, सखीकहतपरसोरी॥राजिवलोचनिपंकजनय
नी, पायोश्यामसियागोरी ॥१॥जैवतरामजनकमंदि
रमें,होतपरस्परअद्भुतगारी ॥२॥ जालछिद्रनिरखतयु
वतीजन, बाढीप्रीतिनथोरी ॥३॥ तुलसिदासप्रभुजा
नेतृणतोरे, देतप्राणआकोरी ॥ ४ ॥ ७ ॥

दाखदारुदेदान, दूधमिठाईबदाम ॥टेक ॥सेवसिंघा
डाफातीपिस्ता, गुडीविसेस ॥ १ ॥ खिरनीखजूरखोप
राकलाखर, गुंझांखारकमधुमाखन ॥मधुसूदनपीलेउ
लाडिले,लैआईललिताविशाखा ॥ २ ॥ मालपुआऔ
अमृतगुटीके, छप्पनभोगलैआई ॥ करमाबाईपरकिर
पाकीजो, लालजीकोभोगलगाई ॥ ३ ॥

पियोपय, लडकेरधुराई ॥टेक॥रत्नजडितकोबनोहैक
टोरो, कौशल्यालेआई ॥ १ ॥ आछोनीकोऔटबना
यो, मेवामिश्रीमिलाई ॥जननीहेतपियोक्यौंनरुचिसे,
सखाबड़ेअधिराई ॥ २ ॥ रामजीलक्ष्मणभरतशत्रुहन,
संगबिराजेचारोंभाई ॥ विठ्ठलकेप्रभुहोतभोरही,मेवा
दूधमिठाई ॥ ३ ॥ ९ ॥

अजीव्यारूकरनहेतसोमैया, रघुवरबोलिपठायेजी ॥
रामजीसियावरबोलिपठायेजी ॥ टेक॥अजीरघुवरल
क्ष्मणभरतशत्रुहन, राजतअवधविहारीजी ॥ १ ॥ चा
रोंमैयामिलिजैवनबैठे, परसतहैमहतारीजी ॥ २ ॥ खा

झाखुरमातप्रजलेबी, सीरासरससुहारीजी ॥ ३ ॥ भां
तिभांतिकोधन्योहैअथानो, नानाविधितरकारीजी ॥
॥ ४ ॥ दूधजानकीहितकरिअवटो, मेवामिसिरीघोरी
जी ॥ ५ ॥ आपनजीमेंभरतजीसेपूछें, कहापन्योमहता
रीजी ॥ ६ ॥ निर्मलजलसरयूकोअँचवत, रत्नजडित
भरिझारीजी ॥ ७ ॥ तुलसिदासद्वारेयशगावें, जूठनको
अधिकारीजी ॥ ८ ॥ १० ॥

कौशल्याकुँवरवियारूकीजै, प्रेमसहितबोलेकौश
ल्या, जगतईशजननीसुखदीजै ॥ टेक ॥ मीठापाकजले
बीपेड़ा, सेवलाडुमोतिलाडुमुगदवनाये ॥ पुरीसरपुरी
मनोहरगुटका, खाझाखुरमाराममनभाये ॥ १ ॥ रायतो
दहीमिसिरीमेंघोन्यो, विविधभांतिकेबड़ेवनाये ॥ आ
दीनबूऔरअथानो, कचरीकरेंदाकरेमेंगाये ॥ २ ॥ औ
टोदूधखोवाभरिआन्याँ, वारीजायमातग्रासदुइली
जै ॥ बीरीआरोगिपलँगमेंपधारो, जूठनज्ञानदेवकोदी
जै ॥ २ ॥ ११ ॥

इति शयनसमयकी ब्यारू समाप्त ।

अथ दूधपीवनप्रारंभः ।

हँसिहँसिदूधपिवैं, गोपीनाथ ॥ मधुरकोमलवचनकहि
कहि, प्राणप्यारीसाथ ॥ टेक ॥ कनककटोरेभरेहैंअमृ
त, लियेहैललिताहाथ ॥ लाडिलीअँचवायपहिले, पा
छेआपअघात ॥ १ ॥ चिंतामणिचितबसोरोसजनी,

निरखिपियमुसकात।श्यामाश्यामकीयुगलछविपर,
रसिकबलिवलिजात ॥ २ ॥ १ ॥

एरीदूधलाई यशुमतिमैया।दूधपियोमेरेकुँवरलाडिले,
तेरीबेनीबङ्गाभैया॥टेक॥ अच्छोनीकोऔटसेरायो,
तामेंमधुरमिठैया ॥ परमानंदप्रभुअबदूधपीजै, भोर
उठतहीदेउँगीघैया ॥ १ ॥ २ ॥

दूधपियोमनमोहनप्यारे बलिवलिजाउँगहरजनिकर
हो, कमलनयनअँखियनकेतारे ॥टेक॥ भरबेलापीजैसु
खदीजै, औरपियोबलभद्रपियारे ॥ परमानंददासके
ठाकुर, भोरउठतकरोघैयारे ॥ १ ॥ ३ ॥

इति दूधपीवन समाप्त ।

अथ शयनकी आरती ।

शीतलकरतआरतीमैया ॥टेक॥ चारिरत्नकेचारिसिं
हासन, रबिशशिकोटिउदैया ॥१॥ रघुबरलक्ष्मणभ
रतशत्रुहन, राजादशरथजीकेछैया ॥२॥ रत्नजडितको
पलंगबनोहै, ऊपरलालदुलैया ॥ ३॥ मातुकौशल्याकर
तआरती, दोउकरलेतबलैया ॥ ४ ॥ क्रीटमुकुटमक
राकृतिकुंडल, करसोहैबाणधनुहिया ॥ ५ ॥ मानदास
जीकेतनमनवारौं, सुंदररामरमैया ॥ ६ ॥ १ ॥

इति शयनकी आरती ।

अथ शयन प्रारंभः ।

जगन्नाथदयालपौढ़े, श्रीजगन्नाथदयाल ॥ ज्येष्ठहलधर

रानिसुभद्रा, चक्रअसुरनकाल ॥ टेक ॥ रत्नभवनवि
चित्रपुतली, लसतहीरालाल ॥ व्यालमणिशशिकोटि
वारों, वारोंरविकोटिवाल ॥ १ ॥ जरीचंदवेचंदनिर्दाह,
तारनमोतिनमाल ॥ अमियतिनतेझरतझिमिझिमि,
अखिलतिनमेंख्याल ॥ २ ॥ सेजबनकैअनुपआभा,
रतिहुदेखिविहाल ॥ कनकपत्रनघनीवस्तुन, लिथेयुव
तीजाल ॥ ३ ॥ रमाआरतीकरतमोहीं, करतकंचनथा
ल ॥ बलभीदेखतवालवालनिहाल ॥ ४ ॥ १ ॥

बलभद्रदेवअनंतपौढ़े, बलभद्रदेवअनंत ॥ देवीसुभद्रा
चक्रसुदर्शन, सहितकमलाकंत ॥ टेक ॥ धोयमंदिरचले
पंडा, पलंगबिछैगजदंत ॥ जगदीशरातबहुतगई, सो
येसकलजीवजंत ॥ १ ॥ शयनआरतीदेखसुरमुनि
वंदतजयजयसंत ॥ धन्यहलधरधन्यमाधव, माधवदा
सभनंत ॥ २ ॥ २ ॥

रागकेदारा ॥ बैठेसुखपाललाल, आवतमहलमेंजू । आ
लसभरेउनीदेसुलोचन, अतिअलसानेकछमदनगहल
मेंजू ॥ टेक ॥ चुनिचुनिकलियामेंसेजबनाई, चोवाचंद
नचरचूंचहलमेंजू ॥ पौढ़ेश्रीदशरथराजकुंवरवर, अग्र
अलीजहँदासीटहलमेंजू ॥ १ ॥ ३ ॥

रागकेदारा ॥ भवनगवनप्रभुकीजैसेजबिछी, भवनग
वनप्रभुकीजै ॥ टेक ॥ परिश्रमभयेसभासबबैठे, सबको
आयसुदीजै ॥ रामभूतहनुमानपवनसुत, सँगचौकीको

लीजै ॥ १ ॥ कमलमुखीकमलामगहेरै, प्रेमप्रीतिरस
 भीजै ॥ मनक्रमवचनतुम्हैप्रभुसेवै, चपलाअचलकरी
 जै ॥ २ ॥ मंदमंदमुसकातछबीले, बोलतवचनरसीले ॥
 बालानंदकोदेहैकिंकरी, श्रीपतिऐसेसुशीले ॥ ३ ॥ ४ ॥
 मुजरोमानियेमहाराज ॥ सबसाधुनकीबीनतीप्रभु, हम
 रीतुमकोलाज ॥ टेक ॥ प्रल्हादकीप्रतिज्ञाराखी, खंभमां
 हिअवाज ॥ डूबतसोंगजराजराखेध्रुवकोअबिचलराज
 ॥ १ ॥ द्रौपदीकीलाजराखी, चीरकेरेकाज ॥ विभीषण
 कोलंकबकसी, सागरबांधीपाज ॥ २ ॥ ॥ नवरंगतकि
 यापलंगराजै रंगमहलअवास ॥ सूरकेप्रभुश्यामपौढ़े,
 कीजैभोगविलास ॥ ३ ॥ ५ ॥

रंगमहलगोविंदपौढ़ेमाईरंगमहलगोविंद ॥ संगराधेशर
 दरजनी, उदितपूरणचंद्र ॥ टेक ॥ चित्रविचित्रअनेक
 चितलिये, कोटिकौतुकफंद ॥ हर्षिनिरखिविलासवि
 लसत, दंपतीरसकंद ॥ १ ॥ चोवाचंदनअगरकुम
 कुमा, उठतलहरसुगंद ॥ पुष्पव्यजनचमरदोरै, सज
 भिपरमानंद ॥ २ ॥ ६ ॥

सुखपौढ़ेहरिकुंवर, कन्हाई ॥ नौतमवसनविविधकुसु
 मावलि, मैंअपनेकरसेजबनाई ॥ टेक ॥ नाहिंनसमयस
 खीकाहूको, ग्वालमंडलीसंगबहुराई ॥ आसकरनप्रभु
 मोहननागर नागरिकोललितालेआई ॥ १ ॥ ७ ॥
 तुमपौढ़ोमैंचँवरदोरावों ॥ चरणरहोंचापतनिर्मलयश

मधुरेस्वरसेगावों॥टेक॥सहचरिचतुरअवैआवतहैं,दं
पतिछबिनयनादेखलावों॥आसकरणप्रभुमोहननाग
र, येसुखश्यामसदामैंपावों ॥ १ ॥ ८ ॥

जगन्नाथअलसानेसलाने,जगन्नाथअलसाने॥लोचन
कमलश्यामशिथिलाने, सुघरअधिकअरुणाने॥टेक॥
श्रीभुजदक्षिणश्रीकंकंधधरिअंगिरानेजँभुवाने॥ओंघ
तझुकतचौंकितकियाधरें,प्यारीहँसिसुसकाने॥१॥अ
द्भुतरूपस्वरूपश्यामको,रतिपतिकोटिलजाने ॥ वल्ल
भिविहँसिसेजरचवावैलागीदासीसुयशवखाने ॥२॥१
रागकेदारा॥पौढेश्रीरघुवरप्राणअधाराजू॥जनककुवँ
रिवरचरणपलोटतशारदगावतरागकेदाराजू ॥टेक॥
चुनिचुनिकलियामैसेजबनाईसोंधेंअरगजाचरचचह
लमैंजू ॥जनदेवप्रभुजीकोविरियाखवावतसीतारम
जीनितप्रतिकरतविहारजू ॥ १ ॥ १० ॥

नयननअरुणताछाईलालजीके, नयननअरुणता
छाई ॥ छिटकिछिटकिकरपल्लवमुखपर, ऐढेंलेतजों
हाई ॥ टेक ॥ पांचसखीमिलिसेजबनाई,श्रीमंदिरसु
खदाई ॥ पुष्पसुवासखासलियेठाढे पौढौश्रीयदुरा
ई ॥१॥११॥

सेजसुंदरिबनीहरिकी,सेजसुंदरिबनी ॥हस्तिदंतअनू
पपाया, जडितमाणिकमनी ॥ टेक॥हेमसीरोसोनपा
टी, लसतनानाकनी ॥ दिव्यरेसमदेवदुर्लभ,नीकेनी

केतनी ॥ १ ॥ पलंगऊपर अनूपअंबर, तुलातामेंछनी ॥
 विविधतापरवसनसोहैं, मोहैंनिजमोहनी ॥ २ ॥ सेज
 बंदजड़ावझब्बो, तकियाबहुअनगनी ॥ सेजशीतलसु
 भगकोमल, मनोरविशशिजनी ॥ ३ ॥ भलीसेजअनू
 पआभा, सुभद्राछविघनी । अमितशोभास्वामीशय्या
 जगत्पतिजोधनी ॥ ४ ॥ चौवाचंदनकपूरकस्तुरी, पुण्य
 गंधोंसनी ॥ चरचिरचिरचिअखिलफूलन, बल्लभीकछु
 भनी ॥ ५ ॥ १२ ॥

सखिरीतू, पुष्पसेजबनाय ॥ जानकीश्रीरामराजा, पौ
 ठिहैंप्रभुआयाटेक ॥ कनकपलंगारत्नजड़िया, अगर
 चंदनलाय ॥ केतकीकमलगुलाबपाड़र, गहिरिचिंपा
 जाय ॥ १ ॥ पाननागरपरमसुंदर, लीजियेरघुराय
 लौंगसहितकपूरबीरी, लेहोरुचिउपजाय ॥ २ ॥ चर
 णचापतरहोंमैनिशिदिन, रावरोयशगाय ॥ दासतुल
 सीशरणआये, लेहोप्रभुअपनाय ॥ ३ ॥ १३ ॥

अबप्रभुकीजिये उठिशैन। लटकिआईचांदनीप्रभुबहु
 तबीतीरैन ॥ टेक ॥ उठेराजसमाजतेप्रभुसुनिसखीके
 बैन ॥ प्राणनाथप्रवीनहैंप्रभु, जानकीसुखदैन ॥ १ ॥ १४
 पौढेसुखसेजसीताराम ॥ टेक ॥ आनंदकंदअयोध्या
 नायक, जानकीभुजवाम ॥ १ ॥ कनकमंदिरपुष्पसेजा
 कोटिउदयभयेमान ॥ २ ॥ देवतासबचौकीआये, स
 न्मुखआयेहनुमान ॥ ३ ॥ रामराजागर्वगंजन, सकल

पूरनकाम ॥४॥चोवाचंदनऔरअरगजा, कनकडवा
भरिपान ॥५॥ तुलसिदासप्रभुलियेठाढ़े मेवाद्राखव
दाम ॥ ६ ॥ १५ ॥

हनुमानजीकीचौकीआईसाधोभाई, कपिकीचौकी० ॥
टेक॥बड़ेबड़ेयोधाहैंकपिदलमें, रहतमहलपरछाई ॥ १
नाकाहूकोकरियेभरोसो, नाकाहूपतिआई ॥२॥वेगवि
लंबनकीजै, सिखसरवनसुनिपाई ॥३॥ तुलसिदासहनु
मानभरोसेसुखपौढ़ेरघुराई ॥ ४ ॥ १६ ॥

सोथेअवधकिशोर चलोसखी ॥टेक॥ रत्नजड़ावको
पलंगमनोहर, ताकीछविअतिजोर ॥१॥ जनकनंदि
नीचरणपलोटे, रसबशभयेघनघोर ॥ रामसखेपियद
र्शनकारण, आइयेउठिभोर ॥ २ ॥ १७ ॥

सैनकरोनारायणदेवा, चरणपलोटकरोंहरिसेवाटेक
सैनकरोतुमअंतर्याभी, मनसावाचाकरुंगुलामी ॥१॥
फूलनगैड़ावागजमुक्ता, सोहैदेखतपलंगनामदेवमो
हा ॥ २ ॥ १८ ॥

पौढ़ौपौढ़ौसारंगपानी, नैनोमैनींदलघुलानी ॥ टेक ॥
प्रभुमुखेसुवायेआवै, हरिकौशल्यासमजावै ॥ लक्ष्मण
जीकोआज्ञादीजै, महलनमेंआवनकीजै ॥१॥ प्रभुसी
तासखीसुकुमारी, जिनसुधहरिसेजसवांरी ॥ प्रभुधनुष
बाणकरमैलेसेजपै, ओढ़ोतुभगरूढुसालोरप्रभुधरिकै
आलससबमेटो, पीतपटुकाकमरतेछीरो ॥ प्रभुकहतम
लूककबिलजानो, सोइतनीअरजमेरीमानो ॥३॥ १९ ॥

मंदिरमांहिदोऊमिलिपौदे॥टेक॥दशरथसुतऔरजन
कनंदनी,डारेगलबांहे ॥ १ ॥ हासविनोदसुधारससीं
चत,सुखउपजोमनमांही॥बालअलीहरिकेचरणपलो
टै, चरणकमलबलिजाही ॥ २ ॥ २० ॥

बतियांकरत,लागगयेनैन ॥टेक ॥ दशरथसुतऔज
नकनंदिनी,रूपशीलगुणएन ॥१॥ मधुरबीनरवबांकी
नरधुनि,रागउठैघनचैन॥मधुरआलीमधुरेस्वरगावैं,
बोलतअमृतबैन ॥ २ ॥ २१ ॥

मंदिरपौदिये,रघुराई॥टेक॥काहेकोपलंगकाहेकेपाये,
काहेबाणबनाई ॥१॥ सोनेकोपलंगरूपकेपाये, रेसम
बाणबनाई ॥ काहेकीसेजकाहेकेगेडुवा, काहेकीओदे
रजाई॥२॥ फूलनकीसेजफूलनकेगेडुवा, फूलनओदेर
जाई॥सीतारामदोऊमिलिपौदेगावेमरिबाई ॥३॥२३
पौदेस्वामी,द्वारकारणछोड ॥टेक॥मंदिरमंदिरझालर
बाजै,शंखनकीधनघोर ॥१॥गोमतीजीजाकेचरणपर
लोटे,सागरकरतकलोल ॥२॥कनकमंदिरपुष्पशय्या,
कोटिउदयभयेभान ॥३॥रुक्मिणीअपनेरंगमहलमैं,
बिनतीकरतकरजोर ॥४॥रणछोडटीकममाधवपुरुषो
तम,कुंवरकल्याणकिशोर ॥५॥ चोवाचंदनऔरअर
गजा, कनकडबाभरिपान ॥६॥ शेषसुमिरनकरतनि
शिदिन,धरतशंकरध्यान ॥ ७ ॥ दासपीपादारेठाढो
दर्शनदियेरणछोड ॥ ८ ॥ १८ ॥

इति शयन समाप्त ।

अथ हरिनारायण प्रारंभः ।

रामकृष्णअवतारमनोहर, हरिसाधवमधुसूदननाम ॥
 कालियमर्दनकंसनिकंदन, देवकीनंदनतुमसरना ॥ म
 च्छुकच्छवाराहमहीधर, जलशायीमंगलकरना ॥ इहि
 हरिनामजपोनिशिवासर, जन्मजन्मकेभयहरना ॥ ज
 यगोविंदेपरमानंदेभजुगोविंदेरामानागरनवलकिशो
 रमनोहर, मूरतिसुंदरश्याम ॥ वृंदावनमेंरासरचोहैं, स
 हसगोपीएककान्ह ॥ मोरमुकूटपीतांबरसोहैं, कुंडल
 झलकैकान ॥ शंखचक्रगदापद्मविराजैंगलेवैजंतीमाल
 यमुनाकेनीरेतीरेधेनुचरावै, सोहनसुरलीवाल ॥ वंसी
 बजाईमेरोमनहरिलीनो, लगेप्रेमकेवान ॥ केशवराय
 कमलदललोचन, अगमअगोचरभवहरना ॥ श्रीपुरुषो
 त्तमश्रीअविनाशीभक्तवत्सलअभिरामा ॥ सरजूकेती
 रअथोध्यानगरीचित्रकूटविश्राम ॥ मथुरानगरीयमु
 नातीरथवृंदावनविश्राम ॥ उजैननगरीसफरातीरथ,
 अंगपातविश्रामा ॥ नासिकनगरगोदावरितीरथ, पंच
 वटीविश्राम ॥ गुरुपरतापसाधुकीसंगति, नामदेवजी
 आयेहरिसरनं ॥ ब्रह्माजाकोपारनपावैं, गावतसनक
 सनंदनं ॥ बोलीसीताराम, लक्ष्मणभरतशत्रुहनहनुमा
 नहरिनमोनमो ॥ जगन्नाथबलभद्रसुभद्रा, चक्रसुदर्शन
 नमोनमो ॥ राजिवलोचनसबहुखसोचन, सेवरीनारा

यणनमोनमो॥रामनाथरामानुजस्वामी,परमभागव
 तनमोनमो॥श्रीद्वारिकामेंरणछोड़बिराजें,गोमतीसंग
 तनमोनमो॥उत्तरखंडबद्रीनाथबिराजें,गरुड़सिंहास
 ननमोनमो॥हरिद्वारमेंहरीबिराजें,हरिकेचरणनमोन
 मो॥मथुरामेंकेशवरायबिराजें,चीरघाटहरिनमोनमो
 नीमसारनीमानुजस्वामी,परमभागतनमोनमो॥महा
 पवित्रमाधवाचारी,विष्णुस्वामीहरिनमोनमो॥कहैप्र
 ह्लादसुनोभाईसाधू,हमहुपढ़ेसोतुमहुपढ़ो ॥श्रीजानकी
 जीवनपतितपावन,दशरथनंदनजयसियाराम ॥श्रीह
 रिनारायणदुष्टनिवारण,परमानंदपरमपुरुषोत्तम॥भ
 क्तवत्सलसियापंकजलोचन,नारायणप्रभुवासुदेवहरे।
 रामानंदमुकुन्दमुरारी,बामनमाधवगोविंद ॥श्रीधर
 केशवराधेराधे,कृष्णालक्ष्मीजीनायकनरसिंह।अच्यु
 तंकेशवरामनारायणंकृष्णदामोदरंवासुदेवंहरे ॥श्री
 धरंमाधवंगोपिकावल्लभंश्रीजानकीनायकंरामचंद्रंभ
 जे॥बालाजीबिहारी,रामशरणतुम्हारीराम॥नरहरि२
 नरसिंहंभजुरामा३,रघुवररामजीहरे।श्रीराधे३कृष्णा
 गोविंदे,भजुमनरामानुजहरि ॥कहुमन,भरतलखन
 रघुबीर॥भजुमनरामकृष्णगोविंद॥सांवलियानाराय
 णहरि॥त्वमेवमाताचपितात्वमेव,त्वमेवबंधुश्चसखा
 त्वमेवत्वमेवविद्याचगुरुस्त्वमेवत्वमेवसर्वंममदेवदेव
 ॥१॥सियारामरामराम॥राधेश्यामश्यामश्याम ॥१॥

इति हरिनारायण समाप्त ।

अथ स्तुति प्रारंभः ।

श्रीरामचंद्रकृपालुभञ्जुमन,हरणभवभयदारुणम्॥नव
कंजलोचनकंजमुखकर,कंजपदकंजारुणं ॥कंदर्पअग
णितअमितछवि,नवनीलनीरजसुंदरं ॥ पटपीतमान
हुतडितरुचिशुचि,नौमिजनकसुतावरं ॥भञ्जुदीनबंधु
दिनेशदानवदैत्यवंशनिकंदनं॥रघुनाथआनंदकंदको
सलचंद्र,दशरथनंदनं ॥ शिरमुकुटकुंडलतिलकचारु,
उदारअंगविभूषणं ॥आजानुभुजशरचापधर,संग्राम
जितखरदूषणं ॥ इतिवदततुलसीदासशंकर,शेषसुनि
मनरंजनं॥ममहृदयकंजनिवासकरु,कामादिखलदल
गंजनं॥मनजाहिर।चोमिलहिसोवर, सहजसुंदरसाँव
रो॥करुणानिधानसुजान,शीलसनेहजानतरावरो॥य
हिभांतिगौरिअशशिसुनि, सियसहितहियहर्षितअ
ली ॥ तुलसीभवानिहिंपूजिपुनिपुनि, सुदितमनमंदि
रचली।सोरठा॥जानिगौरिअनुकूल,सियहियहर्षनजा
यकहि॥मंजुलमंगलमूल,वामअंगफरकनलगे।सियाव
ररामचंद्रकीजय॥१॥हेरामापुरुषोत्तमानरहरे,नाराय
णाकेशवा॥गोविंदागरुडध्वजागुणनिधे,दामोदरामा
धवा ॥हेकृष्णाकमलापतेयदुपते, सीतापतेश्रीपते ॥
वैकुंठाधिपतेचराचरपते,लक्ष्मीपतेपाहिमाम् ॥ १ ॥
आदौरामतपोवनाधिगमनंहत्वामृगंकांचनम्,वैदेही

हरणंजटायुमरणंसुग्रीवसंभाषणम्।वालीनिर्दलनंसमु
द्रतरणंलंकापुरीदाहनं,पश्चाद्रावणकुंभकर्णहननमेत
द्विरामायणम्॥२॥आदौदेवकिदेवगर्भजननंगोपीगृहे
वर्धनम्,मायापूतनजीवितापहरणंगोवर्धनोद्धारणम्।
कंसच्छेदनकौरवादिहननंकुंतीसुतापालनम्, एतद्भा
गवतंपुराणकथितंश्रीकृष्णलीलामृतम्।३।हेरामानुज
हेजगत्रयगुरोहेपुंडरीकेक्षण,हेगोपीजननाथपालनपरं
ज्ञानंविनात्वंविना॥हेगोपालकहेकृपाजलनिधेहेसिंधु
कन्यापते,हेकंसांतकहेगजेंद्रकरुणापारेणहेमाधव॥४
कस्तूरीतिलकंललाटपटलेवक्षःस्थलेकौस्तुभं, नासा
ग्रेगजमौक्तिकंकरतलेवेणुःकरेकंकणम्॥सर्वांगेहरिचं
दनंसुललितंकंठेचमुक्तावली, गोपस्त्रीपरिवेष्टितोविज
यतेगोपालचूडामणिः॥५॥ श्रीरंगंकरशैलमजनगिरौ
शेषाचलस्थासनम्, श्रीकुर्वन्पुरुषोत्तमंचबदरीनारा
यणंनिर्मलम्॥श्रीमद्वारवतीप्रयागमथुरायोध्यागया
पुष्करं, शालग्रामनिवासकृद्विजयतेरामानुजोऽयंमु
निः॥६॥ॐपार्थायप्रतिबोधितांभगवतानारायणेनस्व
यम्व्यासेनग्रथितांपुराणमुनिनामध्येमहाभारतम्॥
अद्वैतामृतवर्षिणींभगवतीमष्टादशाध्यायिनीमंबत्वा
मनुसंदधामिभगवद्गीतेभवद्वेषिणीम्॥७॥हेराधेवृषभा
नुभूपतनये, गंधर्विकेराधिकेहेकृष्णाननपङ्कजभ्रमरि
केकृष्णाप्रियेमाधवि॥ हेवृंदावननागरीगुणगृहेदामो

दरप्रेयसि, हेहेश्रीललितादिकप्रियसखेप्राणान्तिकेपा
हिमाम् ॥ ८ ॥ विष्णोःपादअवंतिकागुणवतीमध्येच
कांचीपुरी, नाभौद्वारवतीतथाचहृदयेमायापुरीपुण्य
दा॥ग्रीवामूलमुदाहरंतिमथुरांनासाग्रवाराणसीं, एत
द्वेदविदोवदंतिमुनयोऽयोध्यापुरीमस्तके॥ ९॥२॥

इति स्तुतिः समाप्ता ।

अथ रामचंद्र केवसंत ।

बसंतबधावाचलोअवधधाम, जहँसुभगसिंहासनबैठे
रामाटेक॥सुरनरमुनिजनसकलदेवता, विश्वामित्रवि
राजे॥बाजाविविधभांतिबहुबाजै, घनदामिनिज्योगा
जे॥१॥ हाथलियेपिचकारीप्यारी, सौंधेसौंभरिल्याई॥
पांचसखीमिलिकलशबनायो, भलीभांतिबनिआई॥२॥
मधुरमधुरसुरगानकरतहैं, देतहोरिनकीगारी ॥सबस
खिमिलिकैगुलालउड़ावत, भरिभरिकंचनथारी ॥३॥
चोवाचंदनऔरअरगजा, कीचमच्योअतिभारी ॥ उ
ड़तगुलालअरुणभयोअंबर, सौंधेभीनीसारी ॥४॥ प्रथ
मपंचमीबैठिसिंहासन, कौतूहलसबकीजै ॥ अग्रदास
कीयेहीबिनती, भक्तिदानमोहिंदीजै ॥५॥१॥

बसंतबधावाचलोअवधधाम, जहँरत्नसिंहासनबैठे
रामाटेक॥अतिपवित्रसुउदारनाम, लावण्यकलेवरको
टिकाम॥रघुवंशसरोवरहंसचारि, जहँहरिबिहरतशुभ

रूपधारि ॥१॥ सजिककनकलशजबआंबमोर, वनिता
 नवृंदजहँ अतिकिशोर। गृहगृहरमणीकरिकरिसिंगार,
 जहँकंठबिलोकैमुक्तहार ॥२॥ बाजैमृदंगडफझांझताल,
 जहँगंधबगावैगुणरसाल ॥ अवतारशिरोमणिधर्मधा
 म, कहेतुलसिदासप्रभुसीताराम, ॥३॥२॥

खेलतबसंतकोसलकुमार, राजीवनयनसुषमाअपार
 ॥टेक॥ लियेभरतलखणरिपुसूदनसंग, छबिसुभगनिर
 खिमोहैअनंग ॥ गोदनिभरिलीन्हेबहुगुलाल, करपिच
 कारीलसतिलकभाल ॥१॥ काननशुभकुंडलचपलनैन
 हालैंबोलैंसबमीठैबैन ॥ सजिवरनवरनराजैअनूप, नर
 नारिथकितभयेदेखिरूप ॥२॥ शिरलसतपागजरकसी
 लाल, कलंगीजड़ावतापररसाल। प्रभुबनिठनिआयेसिं
 हपौरि, तबसखामिलेसबदौरिदौरि ॥३॥ मच्योखेलक
 छुकहिनजाय, अवनीआकाशरंगरह्योछाय ॥ पिचका
 रीजिततितछटैअपार, भीजहिंपुकारहिंदैहिंडार ॥४॥
 मुखमोरेछांडेबहुनचाय, मुसकातमनहिंमनरामराय ॥
 सुरवर्षिसुमनकरिजैजैकार, चिरंजीवकोसलकुमार
 ५मुखनिरखिअसीसतसकलमात, आनंदभरिबिहरो
 मेरेतात ॥ रससिंधुबढ्योनसमातगात, बलिहारीरघुवर
 दासजात ॥६॥३॥

खेलतबंसतराजाधिराज, नभकौतुकदेखैंसुरसमाज ॥
 ॥टेक॥ इतअनुजसखारघुनाथसाथ, औलियेअबीरपि

चकारीहाथ॥बाजतमृदंगडफतालवेणु, छिरकतसुगं
धपरमलैरेणु॥१॥इतयुवतियूथजानकीसंग, पहिरेपट
भूषणबिविधरंग॥छरीबैतसौंधेविभाग, गावैंचाचरि
झमरिसरसराग॥२॥चढिपूरणबधुतनस्वांगसाज, कर
कूटनिपटगईमोरिलाज॥ भजिनारिपरस्परगारिदेत,
अतिहँसतरामभाइनसमेत ॥३॥कटिकिंकिणिनृपुरधु
निसुहाय, ललनागिनिअंगनधरेहँधाय ॥ राजीवलोच
नफगुवामँगाय, छाँडेनचायहाहाकराय॥४॥ वषैप्रसून
सुरबिविधवृंद, जैजैश्रीरघुवरमुकुंद ॥ब्रह्मादिप्रशंसैअ
वधवास, कलकीरतिगावैतुलसिदास ॥५॥४॥

रसहोरीखेलैश्रीजानराय, मवकुंवरिझरोखेझाँकैआय
।टेकामहादेवसाजेमृदंग, ऋषिनारदनाचैलियेउपंग ॥
ताललियेगावैजैदेव, जहँनाचतपीपानामदेव । १।रइदा
सबजावैनवरवागावै, आशाटोड़ीबसंतराग ॥ सनका
दिकखेलैमँझार, जहँनिगमउचारैजैजैकार ॥२॥ कुम
कुमकेसरकेभरेहँमाट, जहँसेनभक्तदेवांटबांट ॥ पिच
कारीबलभद्रहाथ, प्रह्लादबिभीषणविदुरसाथ ॥ ३ ॥
उड़तगुलालहैअरुणआस जहँआनतानंदध्रुवकृष्णदा
स॥अग्रकीलचरचैअबीर, जहँअंबरीषशुकदेवधीर ४
रंकाबंकाकालूकेवलदास, जहँदासदेवकरैबहुप्रकास॥
खोजीनरसीआसपास, जहँप्रेमसहितगावैमीरादास
॥ ५ ॥ श्रीरामानंदकथैब्रह्मज्ञान, जहँकबी

रचलावैशब्दवान॥नीमानंदअरुविष्णुश्याम,माधवा
चार्यकरैबहुबखान॥६॥होरीखेलतमनबढ्योरंग,जहँ
अनंतकोटिलियेसाधुसंग॥अबकीबेरमेरोराखोमान,
जननाभाकोदीजैभक्तिदान ॥ ७ ॥ ५ ॥

रागबसंत॥बंदौरघुपतिकरुणानिधान,जातेछुटिजाय
भवभेदज्ञान॥टेक॥रघुवंशकुमुदसुखप्रदनिशेश,सेव
हिंपदपंकजअजमहेश ॥अतिप्रबलमोहतममारतंड,
अज्ञानदहनपावकप्रचंड।।रागादिसर्पगणपन्नगारि,
कंदर्पनागसृगपतिमुरारि।अभिमानसिंधुकोभजउदा
र,सुररंजनभंजनभूमिभार॥२॥भवजलधिपोतचरणा
रविंद,जानकीरमणआनंदकंद॥निजभक्तहृदयपाथो
दभृंग,लावण्यवपुषअगणितअनंग॥४॥हनुमंतप्रेमवा
पीमराल,निहकामकामधुकगोदयाल॥त्रैलोक्यतिल
कगुणगहनराम,भजुतुलसिदासविश्रामधाम ॥४॥६॥

जानकीहोरीखेलनआई॥टेक॥श्रुतिकीरतिउर्मिला
मांडवी,संगसहेलीसुहाई॥केसररंगभरेघटकंचन,चंद
नसुगंधमिलाई।प्रीतमकोछिरकनआई।।इतरघुनाथ
सखासँगलीन्हे,भरतशत्रुहनभाई॥करकंकनकंचनपि
चकारी,लक्ष्मणकरसोंचलाई॥किशोरकीशयनबुझाई
॥२॥धाईगहिलक्ष्मणकोलीने,पीतांबरपटछोरी॥फगु
वालियेमनभावतअंजनदृगअंजनअँजवाई।बहुविधि

बिनतीकराई ॥ ३ ॥ अरसपरसपरमोदभयोहै, प्रेमप्रोति
 उरछाई ॥ ऊंचीआरीऊंचेझरोखा, जननीफगुवादेखा
 ई ॥ हीरामणिमाललुटाई ॥ ४ ॥ शिवसनकादिकनारद
 शारद, वेदपुराणनगाई ॥ सुरनरमुनिजनकौतुकदेखें,
 ऐसीछबिउरछाई ॥ रामदासबलिजाई ॥ ५ ॥ ७ ॥
 रागसारंग ॥ अवधपुरीकीनारीसबै, मिलिखेलतआई
 होरीहो ॥ नखशिखरूपअनूपकिशोरीवनीहैंमनोहरजो
 रीहो ॥ टेकाफागुनफागसुहायोआयोसहितझुमकड़ावो
 लेहो ॥ कुलबधूलाजकाननहिंमानै, असनवसनपट
 खोलेहो ॥ १ ॥ यकमुरचंगउपंगवेणुडफ, यककरतालव
 जावैहो ॥ एकएकनसोंछयलछवीली, अतिअद्भुतसुरगा
 वैंहो ॥ मीठीधवनिसुनिआयेरघुवर, जगमंगलहितका
 रीहो ॥ तननवघनपीतांबरभूषणमूषितअवधविहारीहो
 ॥ ३ ॥ लछिमनभरतबोलायोशत्रुहन, जनकसुतासुधिपा
 ईहो ॥ श्रुतिकीरतिउर्मिलामाण्डवी, बनिठनियेसबआ
 ईहो ॥ ४ ॥ इंदुवदनिसबकंठकपोतिनि, मृदुवचनीमृगन
 यनीहो ॥ गजगामिनिभामिनिसीतासंग, गानकरतपि
 कबैनीहो ॥ ५ ॥ भरिभरिलाईहैंकनकपिचकारी, छबिसों
 छैलछवीलीहो ॥ मानोहेमकोटतेउतरी, धारारंगरंगी
 लीहो ॥ ६ ॥ बूकासुरंगगुलालउड़ावत, अबिरभरेभरिझो
 रीहो ॥ अरसपरसमिलिभरतभरावत, गिनननकाहुकि
 योरीहो ॥ ७ ॥ रघुवरधाइभरेवैदेही, सहच

रीसंगअपाराहो ॥ दामिनिसीफिरिचहूँदिशि,
 पकरेराजकुमाराहो ॥ ८ ॥ करसोंकरजबगह्योल
 डैती, काजरआंखिअँजाईहो ॥ मुखमाड़योनीकेकरि
 नागरि, बन्योहैमनोरथभारीहो ॥ ९ ॥ फगुवागोदभराइ
 परमरुचि, पटभूषणपहिराईहो ॥ तनमनप्राणकरत
 न्योछावर, बाँटतबहुतवधाईहो ॥ १० ॥ सरयूजलक्रीड़त
 सियारघुबर, संतजननसुखदाईहो ॥ तुलसीदासजाइब
 लिहारी, जनकसुतारघुराईहो ॥ ११ ॥ ८॥

इति रामचंद्रके वसंत समाप्त ।

अथ कृष्णचंद्रके वसंत प्रारंभः ।

रागवसंत। प्रथमसमाज आज वृंदावन, बिहरतलालबि
 हारी ॥ पंचमिनवलवसंतवधावा, उमँगिचलीं ब्रजनारी
 टेक ॥ कंचनथारलिये ब्रजसुंदरि, मधिवृषभानुदुलारी ॥
 फलदलजवनवनीतमंजरी, कनककलशशुभकारी १
 गावतगीतबजावतबाजा, मैनसैनउनहारी ॥ दरसपर
 समयमोदबड़ावत, राजतछबिअतिभारी ॥ २ ॥ चोवा
 चंदनअगरकुमकुमा, भरिकेसरपिचकारी ॥ छिरकत
 फिरतछबीलीगातन, रंगअनूपअपारी ॥ ३ ॥ विपिन
 विलासहासरसवर्षत, उतप्रीतमइतप्यारी ॥ हितहरि
 वंशनिरखियहशोभा, अँखियांटरतनटारी ॥ ४ ॥ वसं
 तवधावाचलो ब्रजकीनारि, सखीनंदपौरिठाड़ेमुरारि

।टेक॥राधाचन्द्रभागाचंद्रावलि,भामाललितासुशीले
 संज्यावलीकनकघटशिरधरि,आंवमोरजवलीन्हे।१।
 नयेनयेचीरकुसुंभीसारी, बसंतअमरनसाजियहो ॥
 नयेनयेकेलिकरमाहेनसगं,नवललालपियाभजियेहो
 ॥२॥चोवाचंदनबूकाबंदन,उडतगुलालअवीरे ॥खेलें
 फागभागबडगोपी,छिरकतश्यामशरीरे ॥३॥ तालमृ
 दंगढोलडफमहुखर,बीनाजंत्ररसाला ॥मीराकेप्रभुगि
 रिधरनागर,हंसीकरायगोपाला॥४॥सांवरे, रंगडा
 री॥टेक॥सहजसुभावजातियमुनाकोपहिरिजरकसी
 सारी॥बहुरेठाढेकदमकोछहियां,करहिंकनकपिचका
 री ॥ लालमेरेसनमुखडारी ॥१॥ सासुबुरीघरननंद
 हठीली,झुंकिझुंकिदेमोहिगारी ॥ सेरनआंसुचुवावै
 सखीरी,उनकीरीतिहैन्यारी ॥ मोहिंडरलागतभारी
 ॥२॥ अबिरगुलालमेरेमुखडारत,तनकनसकैविचारी
 नवलदासयहीअचरजहैरी,आपहिढोठविहारी ॥ ला
 लचितवनिपरवारी ॥३॥

सांवरेसे, कहियोमोरी ॥ टेक ॥ शीसनवायचरणग
 हिलीजो, करिबिनतीकरजोरी ॥ ऐसीचूककहापरी
 मोसेप्रीतिपाछिलीतोरी॥सुरतिनहिलीनीमोरी ॥१॥
 भूषणबसनसबैहमत्यागे,खानपानविसरोरी ॥ भभूत
 लगाइयोगिनहोयबैठी, तेरोहिध्यानधरोरी ॥ बेगच
 लिआवोकिशोरी ॥२॥ निशिदिनव्याकुलफिरतराधि

का, बिरहव्यथातनघेरी ॥ श्यामतुम्हैदूढ़तकुंजनमें,
शीसजटाकरजोरी ॥ कहैहरिहैरेहोरी ॥३॥ रोमरो
ममदछायरहोहै, मधुमेरेबैरपरोरी ॥ मोरकरेजाजरा
दियोरी, अबमैंकैसेकराँरी ॥ धीरजनहिंजातधरोरी ॥४॥
सूरदासप्रभुकोजायकहियों, अबधिआशरहीथोरी ॥
प्राणदानदीजैनंदनंदन, गावतकीरतितोरी ॥ सुरत
तुमकरियोबहोरी ॥ ५ ॥ ४ ॥

इति कृष्णचंद्रके बसंत समाप्त ।

अथ श्रीरामचंद्रकी होरी प्रारंभः ।

रागधनाश्री ॥ खेलैनगरअयोध्याफागरधुवरजान
की ॥ कस्तूरीकोतिलकविराजै, मैबलिजांवमुखपा
नकी ॥ टेक ॥ इततेआईजनकनंदिनी, कीन्हैसबशृं
गार ॥ उततेआयेलाडिलेहो, दशरथराजकुमार ॥१॥
सीतानेशैनदईसखियनको, रघुवरपकरेधाय ॥ कैतुम
तोलदेउलक्ष्मणको, फगुवादेहोमंगाय ॥ २ ॥ बाजत
तालमृदंगझांझरी, डफबाजनहनुमानकी ॥ तुलसिदास
प्रभुतुम्हरेमिलनको, मोहिंगतिनाहिनआनकी ॥३॥१॥
रागसारंग ॥ रघुबरखेलतहोरी ॥ संगलियेजनककिशो
री ॥ टेक ॥ अनुजसहितपिचकारीकरगहे, ठाढ़ेअवध
बिहारी ॥ उतैसखीगणबहुतकलीन्है, निकसीजनकदु
लारी ॥ बाजततालमृदंगझांझडफ, अरुबाजतकरता

री॥चोवाचंदनअगरकुमकुमा,भरिकेसरपिचकारी॥
 ॥१॥ अँगनाआईधाइसियादोउ, खेलनकोहुलसाने॥
 लाजभाजिदुरगईभवनमें,शंकनकोऊमाने॥जनुगयंद
 मदकेअतिगर्वित,ऐडभरेऐडाने ॥छविकेभरेछवीलेदो
 ऊ,छकेरहैनाहँछाने ॥२॥ लियेलुकाइअरगजालालन,
 सियाशीशपरढोरी॥तारीदेहँसिकहेपियारे,होहोहोहो
 होरी ॥मृगमदमलयकपूरसुवांकी,कंचनघटबहुघोरे॥
 मानखेलमेंरहतजुकैसे,भरनपरस्परहोरे ॥३॥ एकसु
 मुखिसखिसियाबोलिकै,मंत्रजुअद्भुतठान्यो॥कड्डलल
 चाइलालकेढिगसों,भरतआपमेंआन्यो॥अवहमकहँ
 सोइतुमकरिहो,कह्योजुहमरोमानो।तुमअग्रजकोजैसे
 तैसे,हमकरनिकटजुओनो॥४॥ भरतचतुरचितचोर
 लालको,कड्डयकरुचिउपजाई ॥ बैरँगकोलियेनारिरँ
 गीली,झुमकिपियापैआई॥धाइउमिलगह्योपीतपट,
 अंजनआंखिअँजाई॥रोरीकरिमुखमांडनकीन्हो,ज
 नकसुतामुसकाई ॥५॥ सियानयनकीशैनदईजव,ल
 क्ष्मणकोपकरायो॥अरीयेसबहीमहाढीठहँ,करोसखी
 मनभायो ॥ शत्रुजीतछलसोंगहिआन्यो,वाकेढिगबै
 ठायो॥राजकुवँरिदौरिभरोभरतनें,दांवभलोबनिआ
 यो ॥६॥ चहुँभाइन्हकोअबमुखमांडो,सखिरोपकरि
 नचावो ॥कैतुमउनसोंकहोलडैती,संगहमारैगावो ॥
 कैतुमजायकहोमहरानी,तुमकोआनछोडावो॥कैतुम

पांयपरोसीताके,मंत्रजूभलोबतावो ॥ ७ ॥ मानोघनदा
 भिनीसुनमके,नवललालढिगडोलैं ॥ छांडतनहींछबी
 लीपियाको,कामिनिकरतकिलोलैं ॥ अबयहबानिक
 बनतनकाहूं,परेआनबशिभोलैं ॥ करतकटाक्षपरस्पर
 युवती,हंसिहंसिप्रतिमाबोलैं ॥ ८ ॥ बीचकियोकौश
 ल्यारानी,फागलोगकोघायो ॥ भूषणवसनमंगाइभवन
 सों,सकलवधूपहिरायो ॥ श्रीनरहरिवपुधारिअवनिपर,
 अवधपुरीचलिआयो ॥ चिरंजीवहुकौशल्यामंदन, वि
 ष्णुदासगुणगायो ॥ ९ ॥ २ ॥

रागसारंग ॥ खेलतरामअवधपुरहोरी, जोड़ीपरमसुहा
 ईहो ॥ इतहीसखिनमध्यसियराजै,उतहिसखासुखदा
 ईहो ॥ टेक ॥ बाजतढोलढुंढुभीभेरी,महुअरिअरुसह
 नाईहो ॥ गीतपुनीतगावतफगुवाके,बहुविधिसबहर्षाई
 हो ॥ १ ॥ गजगामिनिभामिनिदामिनिसी,होहोकरि
 करिधाईहो ॥ उतदौरैरघुवीरऔलक्ष्मण, भरतशत्रुहन
 भाईहो ॥ २ ॥ अबिरगुलालकुमकुमाभरिभरि, पोटनि
 मारमचाईहो ॥ इतहिजयतिजयजनकललीकी, उतद
 शरथसुतधाईहो ॥ ३ ॥ उड़तगुलाललालभयोअंबर,
 धूंधचहूंदिशिछाईहो ॥ मृगमदकेशरभरिभरिछोड़त,यं
 त्रनयुक्तिलगाईहो ॥ ४ ॥ एकसखीपीछेतेलक्ष्मण, ग
 हीअचानकजाईहो ॥ दौरैवालतालदैहंसिकै, गहिला
 लनकोल्याईहो ॥ ५ ॥ अबसबभयोभावतोमनको, रा

खोंगीउरलपटाईहो।अबकरिहैंहममनकोभायो,ह्यांन
चलतिचतुराईहो ॥ ६ ॥ तुमजिनजानोहमछुटिजैहैं,
छाड़ोंगीबहुतरिझाईहो ॥ व्यंग्यवचनसुनिगयंकृदिकै,
सबैरहींखिसियाईहो ॥ ७ ॥ जानकिवल्लभफणुवादी
न्हो,मेवासरसमिठाईहो ॥ चलीकिशोरीभरिभरिझो
री, संतदासबलिजाईहो ॥ ८ ॥ ३ ॥

रागसारंग॥खेलतरामरघुपुरीरुचिसों,बहुभांतिनमुख
दाईहो ॥ इतहैजानकीयुवतियूथमें, उतसोंहैंसँगभाई
हो ॥टेक॥ चमरछत्रवरध्वजापताका,रचनारुचिरव
नाईहो॥सकलफागकोसाजसज्योहै,कबहुंकनिकटन
जाईहो ॥१॥ बाजेवजनलगेचहुंदिशिते, गावतगारि
सोहाईहो ॥ मनोद्विरछूटेसदमाते, भिरतपरस्पर
धाईहो ॥ २ ॥ केसरिगारिकुमकुमाभरिभरि, इट
तछविपिचकारीहो॥प्रेरितपवनमनहुँपावसक्रहुतु,घन
वर्षतयकवारीहो ॥ ३ ॥ सृगमठमलयअवीरसखास
ब,अगरनकीचमचाईहो ॥ उमँगचलेअरगजापनारे,
बीथिननदीबहाईहो ॥४॥ केसरअगरसोंभरेहैंचहव
चा,धूपधूमछविछाईहो॥सोंधेलहरमहोदधिमानो, पु
रजनप्रीतिबढ़ाईहो ॥ ५ ॥ चोवाचंदनछलवलकरके,
प्रीतभमुखलपटाईहो ॥ राजिवनयनलेतजववदलो,
तबसियादेतदोहाईहो ॥६॥ श्रुतकीरतिउभिलामाण्ड
वी,रघुवरघेरेजाईहो ॥हाहाकियेतबैभलछुटिहो, कह

सियाशीशनवाईहो ॥७॥ भरतभरावतकुँवरिकुँवरपै,
हूलैदैकिलकाईहो ॥ मानोमघवाध्वनिव्यापिरहीहै, उ
ठतमहलमेंझाईहो ॥ ८ ॥ खंभखंभप्रतिबिंबरामको,
जहँजहँदेतदिखाईहो ॥ कुशध्वजकुँवरिभरतदृढभ्रम
सों, हांसीकरतखिसाईहो ॥ ९ ॥ पलटेपकरेजायशत्रुहन,
काजरआंखिअँजाईहो ॥ करतसकलभामिनिमनभा
यो, बंधुतोलेहुड्डाईहो ॥ १० ॥ पकरोताबीरनमेंपक्षी,
मिसकरिहाथदिवाईहो ॥ खेलनलगेउड़िगईचिरैयां, ह
रिहँसितालबजाईहो ॥ ११ ॥ जालरंधमुखनिरखतज
ननी, आनंदउरनसमाईहो ॥ तनमनप्राणकरतनौछा
वर, बांटतबहुतबधाईहो ॥ १२ ॥ रँगैरँगैडोलतरायके
अँगना, जनकसुतारघुराईहो ॥ रीझिसुमनवर्षतसुरसंघ
ट, दिव्यदुंदुभीबजाईहो ॥ १३ ॥ बीचकियोकौशल्या
रानी, फगुवागोदभराईहो ॥ सीतारामविनोदफागुपर,
अग्रअलीबलिजाईहो ॥ १४ ॥ ४ ॥

रागकाफी।खेलतरघुवररंगभरेहोहोमेरेप्यारे, अवधपु
रीकेप्रान ॥ टिक ॥ घरघरतोरणध्वजापताका, मुक्ता
बंदनवार।इंदुवदनिभृगशावकनयनी, गावतगीतरसा
ल॥ १ ॥ बाजाबहुबिधिसाजबजावें, मधुरमधुरसुरगान॥
देखनआयेदेवताहो, चदिव्योमविमान ॥ २ ॥ उत
रघुवरभूषणबहुभूषित, पीतांबरछबिदेत ॥ लक्ष्मणभर
तशत्रुहनसुंदर, बोलिसखासबलेत ॥ ३ ॥ नखशिखकि

योशृंगारलाडिली, चलीहैंसहचरीओट ॥ श्रुतिकार
 तिउर्मिलामाण्डवी, बनीछवीलीजोट ॥ ४ ॥ चोवाचंदन
 औरकुमकुमा, अरगजाभाटभराये ॥ बृकाबंदनमंग
 लभुंजन, कुंवरिलियेअसनाये ॥ ५ ॥ भरिभरिलईकनक
 पिचकारी, अपनेअपनेहाथ ॥ मानोछटीघनधारचहं
 दिशि, रंग्योसियाजीकोसाथ ॥ ६ ॥ रघुवरभन्योजवप्रा
 णपियारी, बहुविधिरंगकेशार ॥ मानोसांवरगिरितेउत
 री, रंगरंगीलीथार ॥ ७ ॥ वरयोबहुविधिलईसामग्री, हरि
 आनिहरिओर ॥ उड़ेगुलालछयउसुरवरतन, मानहुं
 ऊगेउभोर ॥ ८ ॥ खेलतमगनभयेनरनारी, अरगजागा
 री ॥ जहांतहांछटेचलैपनारे, मानोपांवसवारी ॥ ९ ॥ कर
 सोंकरजबगह्योलडैती, काजरआंखिअंजाई ॥ जेयैरघु
 वरतुम्हरेप्यारैहैं, अबक्योंनलेहछोडाई ॥ १० ॥ अहिवेली
 भाजनलियोरघुवर, हियोसहचरीहाथ ॥ जिनिछीयो
 योंकहेलडैती, छलकीन्होरघुनाथ ॥ ११ ॥ सजलअमीहं
 सिआंजेलोचन, हंसिपकराईदीन ॥ खंजनखरेकहांते
 निकसे, पावकभीनेमीन ॥ १२ ॥ सुखसागरपियनाग
 रझलत, बाड़ेउरंगअपार ॥ गहेअँचरागोरीकहैंहरिसों
 फगुवादेहुकुंमार ॥ १३ ॥ फगुवादियेमँगाइसवयनको,
 अंगबनिताअनुकूल ॥ जयजयसियारामध्वनिउचरैं,
 सुरगणवपैफूल ॥ १४ ॥ इंद्रादिकयोंकहैंपरस्पर, धन्यअ
 योध्यावास ॥ कयोंनकियोविधनाहमनिजपुर, रघुवर

दासीदास ॥ १५ ॥ सुंदरदासचलेगुणगावत, सरजूक
रिअस्नान ॥ मणिभूषणअवधेशयुगुलपर, वारदेतहैदा
न ॥ १६ ॥ ५ ॥

रागकाफी ॥ रघुवंशीसुंदरअतिबनेहो, बनेहोदशरथरा
जकुमार ॥ टेक ॥ सरयूतीरअयोध्यानगरी, अधिकरा
जबड़भाग ॥ सुरनरमुनिअरुदेवतेंतीसो, खेलनआये
हैंफाग ॥ १ ॥ कनकखंभमिलिडोलरच्योहै, झूलतसी
ताराम ॥ मानोसिंधुकीउठततरंगैं, वर्षतकुसुमविमान
॥ २ ॥ रामऔलक्ष्मणभरतशत्रुहन, राजतकुंवरकिशो
र ॥ खेलतफिरतसबैरंगभीने, इंद्रह्योकरजोर ॥ ३ ॥
क्रीटमुकुटमकराकृतिकुंडल, अलकभ्रमरभ्रमभूल। मृ
गमदतिलकमालमुक्ताहल, पीतवसनअनुकूल ॥ ४ ॥ ठो
लझांझसहनाईबाजैं, यंत्रपखावजताल ॥ भेरिमृदंग
औरायगिड़गड़ी, बिचबिचवेणुरसाल ॥ ५ ॥ चोवा
चंदनऔरअरगजा, केसरबहुतसुवास। रंगभरेखेलतर
घुवंशी, मानोवर्षतभादोंमास ॥ ६ ॥ सबसखियनामिलम
तोउपायो, लक्ष्मणपकरेधाय। आंजेनयनकपोलकरन
गहे, लीन्होहैधनुषछिनाय ॥ ७ ॥ रघुवररीझिदेतपीतांब
र, मेवाबहुतभंगाय ॥ वर्णवर्णपहिरायपटंबर, आनंद
उरनसमाय ॥ ८ ॥ धन्यसुधन्यअयोध्यानगरी, धनिपुर
वासीलोग ॥ लघुहरिदासधन्यदशरथसुत, वारोंकटि
इंद्रभोग ॥ ९ ॥ ६ ॥

रागकाफी ॥ अविनाशीदूलहकवमिलिहैं, होभैरेप्यारे
 मिलहिंतोजानेनदेहुँ ॥ टेक ॥ जलउपजीजलसेनहिने
 हा, रटतपियासपियास ॥ मैंविरहिनठादीमगजोऊं, रा
 ममिलनकीआस ॥ १ ॥ दिवसनभूँखरैनिनाहिनिद्रा, गृ
 हअंगनानसुहाय ॥ सेजरियावैरनभइसोको, जागृतो
 रैनिबिहाय ॥ २ ॥ छौंड़ोगृहनेहहमजाँड़ो, तुमसोंभई
 चरणलवलीन ॥ तलफितलफिप्रेरीप्रेमकीफांसी, जैसे
 होजलबिनमीन ॥ ३ ॥ हभतोतुम्हारीदासीहोमोहन,
 तुमहमरेशिरताज ॥ दीनदयालुदयाकरमाधो, साईंसि
 रजनहार ॥ ४ ॥ कैहमप्राणतजतहूंमोहन, कैअपनी
 करलेहु ॥ दासकवीरविरहअतिबाढ्यो, हमहुकदर्शन
 देहु ॥ ५ ॥ ७ ॥

इति रामचंद्रकी होरी समाप्त ।

अथ श्रीकृष्णचन्द्रकी होरी प्रारंभः ।

रागगूजरी ॥ श्रीराधेनवलकिशोरडोलैंगूजरी ॥ कनक
 मथनियांशिरधरिबाबा, नंदजीकेद्वारखरी ॥ टेक ॥ ह
 रियेकुसुमकोघाँघरो, ओढ़नकोचूनरी ॥ अँगियावनी
 हैकटावकी, मानोंफूलीचंपकली ॥ १ ॥ अनवटविछुवा
 घूंघरहो, जेवरअजबवनी ॥ चालचलेमदहस्तीकिमा
 नो, यौवनगर्वभरी ॥ २ ॥ हारहियेहारेकीचौकी, ब
 नीफगुवारिदुलारी ॥ बिंदाबन्योहैजड़ावकोमानो, मो

तियनमांगभरी ॥ ३ ॥ विद्यापतिवर्णोंमेंकहांलों, अंग
अंगसुधरी ॥ ४ ॥ १ ॥

रागसारंग॥बाघंबरओढ़ेसांवरोहोहो,मेरीआलीइनमें
योगीकोलक्षणकौन ॥ टेक ॥ शंखशब्दध्वनिसुनिजि
ततितते,जुरिआईब्रजनारी ॥ बदनबिलोकिकुँवरिरा
धेको,बैठेहैंआसनमारी ॥ १ ॥ कौनदिशासूँआयेहोरा
वर, कहांतेरीमनसाजाई ॥ आपनमौनगहेमनमोहन,
दक्षिणदियोहैबताई ॥ २ ॥ हँसिबूझतवृषभानुनंदिनी,
रावरउत्तरदेहु ॥ कारणकवनभेषतपस्वीको,बनतजि
आयेहोगेहु ॥ ३ ॥ झोलिनपात्रविभूतिनबटुवा, मुद्रा
नाहिनकान ॥ योगीनहिकोउबड़ोहैबियोगी,भोगीहै
परमनिधान ॥ ४ ॥ सिंगीनादनदंडकमंडलु, शिरचंद
नकीखौरी ॥ मेरेमनउनमानसखीरी,कंथबिसारेहैंगो
री ॥ ५ ॥ चुटकीविभूतिदईहैराधेको,चलेहैंबाघंबरझार ॥
तनकचितवनमेंमनहरिलीन्हो,गोहनलागिहैकुँवार ॥
॥ ६ ॥ नगरनगरयोगीडगरडगरमें, निशिदिनफिरतउ
दास ॥ नयनचकोरभयेराधेके, हरिमिलनेकीआस ॥
॥ ७ ॥ तीनलोकब्रह्मांडखंडमें, घटघटरहेसमाय ॥
सोयोगीवृषभानुकुँवरिके,ठाढ़ेहैंपौरदुआर ॥ ८ ॥ तनक
तनककरिमनहरिलीन्हो, निरखिनयनकीकोर ॥ ज
गन्नाथजीवनधनमाधव,प्रीतिबढ़ीदोउओर ॥ ९ ॥ २ ॥
रागसारंग ॥ मोहनखेलतहोरी,श्रीवृषभानुगोपकी

पौंरी ॥ टेक ॥ बंशी बटय मुना तट कुंजन, तर ठाढ़ेवनवा
 री ॥ इत सखियन को मंडल जोरें, श्री वृषभानुदुलारी ॥
 होड़ा होड़ी होत परस्पर, देत आनंद की गारी ॥ उड़त गुला
 लकुमकुमाकेसर कर कंचन पिचकारी ॥ १ ॥ बाजत वेणुवां
 सुरी कींगर, अरुमहु अरुमुंह चंगा ॥ अमृत कुंडली सरमं
 डलमें, सबते सरस अपंगा ॥ बाजत तालमृदंगझांझडफ,
 सुरके उठत तरंगा ॥ नाचत हंसत करत कौतूहल, केसर
 छिनक तरंगा २ तब हिंश्याम सब सखा बोलाये, सब को म
 तो सुनायो ॥ भैया रे तुम चौक सरहियो, मत को उदेहु ग
 हायो ॥ जोवे तुम को पकरे पावाहिं, करिहैं मन को भायो ॥
 ताते सावधान होयरहियो, हम तुम को समुझायो ॥ ३ ॥
 सबै किशोरी राधागोरी, मनमें मतोजुकीन्हो ॥ सखी
 जो एक बोलाय आपनी, भेषगवाल को कीन्हो ॥ ताको
 मिलन चले मन मोहन, सखान काहूचीन्हो ॥ एक
 नबात लगाय लालको, पाछे से गहिलीन्हो ॥ १४ ॥ आ
 ई समिट सकल ब्रजबनिता, मोहन पकरे जबहीं ॥ हम
 मांगत हैं या विधनापै, दावँ परै गोकबहीं ॥ जब तुम ची
 र हेरेजूहमो, हाहाखाई हम सबहीं ॥ अब हम वसनछी
 न सबलेहैं, हाहाखाइ होतुमहीं ॥ ५ ॥ एक सखी आ
 चानक आई, मोरपक्ष गहिलीनो ॥ एक सखी पीछेते आ
 ई, पीतांबर गहिलीनो ॥ एकने आंख आंजिमुख मांडे,
 ऊपर गुलचादीनो ॥ मानत कौन फागमें प्रभुता, मनमा

नोसोकीनो ॥६॥ एकसखियासुदूरभईठाढ़ी, घुंघटपट
 मुखठांके ॥ एकसखीमधुरेसुरगावे, मुखसोंगारिनभा
 के ॥ एकसखीहरिकोमुखनिरखै, तनुकीदशानताके ॥
 गिरिधरचरित्रकोऊनहिंजानै, स हनुकीदिशिताके ॥
 ॥७॥ एककहेवाकोवदनउघारो, हमहूंदर्शनपावें ॥ श्री
 मुखकमलनयनमेरेमधुकर, तनुकीतपनबुझावें ॥ एकक
 हैयाकीवेणीगूंथो, रुचिकरमांगबनावें ॥ ८ ॥ एककहैं
 बोलोबलभय्या, वेतुमभलेछुड़ावें ॥ सखाएकतुमघरको
 पठावो, यशुमतिहूँलेआवें ॥ जानतहूँछलबलकरछूटें,
 गहेनछूटनपावें ॥ पांयनपरोकुँवरिराधेके, वोतुम्हैंभले
 छोड़ावें ॥ ९ ॥ दूरहितेबलआवतदेखो, सबैसखीउठधा
 ई ॥ छलबलकरिजैसेअरुतैसे, उनहूँकोगहिलाई ॥ आन
 कियेयकठौरहिठाढ़े, हरिहलधरदोउभाई ॥ वाहूकीआं
 खिआंजिमुखमांडो, राधेजूशयनबताई ॥ १० ॥ हंसि
 हंसिकहतमोहनप्रीतमसों, मानोसुखकीभीजै ॥ छांडो
 हमेजायँघरअपने, पीतांबरमेरोदीजै ॥ करजोरेहरिहल
 धरठाढ़े, आज्ञाहमकोदीजै ॥ जोइजोइइच्छाहोयतुम्हा
 री, सोइसोइफगुवालीजै ॥ ११ ॥ तबदेखँब्रह्माशिवनार
 द, मनहीमनपछताई ॥ बड़ोभाग्यहैब्रजवनितनको, ह
 ममुखकहोनजाई ॥ जाकारणहमध्यानधरतहैं, ध्यान
 हुआवतनाई ॥ सोदेखाब्रजयुवतिनआगे, जोरेठाढ़ेबां
 ई ॥ १२ ॥ तबैश्यामसबसखाबोलाये, फगुवाबहुतमैं

गायो॥जोजाकेजैसोमनभायो, सोइसोइताहिपाहिरा
 यो॥श्रीजगन्नाथरायचिरजीवहुजोड़ी, सबकोभलोम
 नायो।बाढोवंशनंदबाबाको, माधवदासगुणगावे १३
 रागसारंग ॥ मेरेनयनमेंजिनडारो, पियापिचकारी ॥
 झीनेबसनअंगलपटाने, भीजरहीतनुसारी॥टेकाखंज
 नमीनमरालऔदधिसुत,मानोकनककुंवारी ॥मृगरि
 पुमगरपपैयाकोकिला,मानोविधिसांचेदारी ।१।दर्पण
 लियोकुंवरिकरअपने,मोतियनमांगसवारी॥तीनलो
 ककोरूपराधिका,रसवशकियोहैविहारी ॥ २ ॥ केस
 रसेमेरीअँगियासानी,सूधेभीनीसारी ॥ सुकनककीन
 कबेसरभीनी, मोतियनकीलरन्यारी ॥३॥ केसरघोर
 मँगायलाडिली, नवललालपरडारी॥गोरेसेवदनभये
 नंदनंदन,हँसतत्रियादैतारी ॥ ४ ॥ मृगमदघोरभरेह
 रिश्यामा, अँगअँगभयेहँकारी॥अरसपरसदोउलाल
 लाडिली,रंगउपज्योरसभारी ॥ ५ ॥ ललनाधायगहेम
 नमोहन,नयनशयनदेप्यारी ॥ फगुवादेहोतवैभलेछु
 टिहो,कहँवृषभानुदुलारी ॥ ६ ॥ फगुवाबहुतमँगायला
 डिले,हँसिहँसिदेइंगिरिधारी ॥ योंसुखांसिधुकहांलौं
 गौं, लीलामंगलकारी ॥ ७ ॥ धनिधनिभाग्यभूरिव्रज
 वनिता, जासँगरमतमुराररी ॥ लाललाडिलीकीछवि
 ऊपर,अग्रदासबलिहारी ॥ ८ ॥ ४ ॥
 रागसारंग॥रसहोरीखेलैसाँवरोहो,अहोमेरीआलीत

टयमुनाकेतीर ॥ टेक ॥ लालगगनभयेलालमगनभये,
 वृक्षलालफलपात ॥ लालहिलालबनीब्रजबनिता, लाल
 हिलालजीकोसाथ ॥ १ ॥ कंचनकेरकटोराकेसर, घसिल
 लितालियेहाथ ॥ अंचलदेवृषभानुनंदिनी, छिरकतह
 रिजीकोगात ॥ २ ॥ भरिपिचकारीसुघरसुदामा, देह
 कृष्णजीकेओर ॥ चितवतचोटकरतमनमोहन, भीज
 गईमृगमदखौर ॥ ३ ॥ इतभयेगवालउतैब्रजबनिता, ग
 येहैनंददरबार ॥ बांसनमारपरतअतिभारी, जीतेहैनं
 दकुमार ॥ ४ ॥ विद्यापतिप्रभुफगुवादीन्हो, मेवासर
 समंगाय ॥ देआशीशचलीब्रजबनिता, चिरजीवोनं
 दलाल ॥ ५ ॥ ५ ॥

इति श्रीकृष्णचंद्रकी होरी समाप्त ।

अथ शेषाचलहोरी प्रारंभः ।

रागकाफी ॥ शेषाचलधामसुहावनोहो, होमेरेप्यारेज
 हांखेलतनिकटफाग ॥ टेक ॥ वापर्वतकीकहाछबिव
 णों, विकटबैठेआय ॥ पुष्करिणीर्जानिकटबिराजें,
 कोटिकतीरथमांझ ॥ १ ॥ कंचनमंडपछायरह्योहै, सन्मु
 खहैहनुमान ॥ जयऔविजयदोउपौरियाबिराजें, भीर
 भईहैघनघोर ॥ २ ॥ गरुड़वाहनअसवारीनिकसी, भई
 हैंनगाराकीबंबा ॥ रत्नजडितशिरमुकुटबिराजें, यहशो
 भावर्णीनहिंजाय ॥ ३ ॥ मारिफलांगरथऊपरबैठे, इंद्र

होघनघोर ॥ ब्रह्मादिकस्तुतिकरतहैं, धन्यधन्यभाग्य
पुरवासीलोग ॥४॥ केसरियोवागोजुवन्योहै, लक्ष्मीरही
लवलाय ॥ दासहाथीरामकोदर्शभयोहै, चितवनसं
तनओर ॥५॥१॥

इति शेषाचलहोरी समाप्त ।

अथ गिरिहोरी प्रारंभः ॥

रागकाफी ॥ नवरंगीकेसरहमबोइहैं, अहोमेरीआलीअ
पनेबालमजीकेकाज ॥ टेक ॥ वापर्वतपरकेसरबोई,
मिरगाचुगिचुगिजाय ॥ क्यैरेमृगातूमानतनाहीं,
मारोंगीधनुषचढाय ॥१॥ आसपासहमकेसरबोई, विच
विचबोयोहैगुलाब ॥ वाकोवाससुवासउड़तहै, गूथूंगी
नवसरहार ॥ २ ॥ कनककटोराकेसरघोरैं, औयमुना
कोनीर। कृष्णजिवनजीकोवागोचरचौंगी, राधेजीको
चीर ॥३॥ वृंदावनवंशीबजीमोहन, ध्वनिसुनिरह्योन
जाय ॥ बेगिमिलौहरिवंशकेस्वामी, रूठीकोलेहुम
नाय ॥ ४ ॥ १ ॥

रागकाफी ॥ गिरिलालबिहारीहोरीखेलैंहो ॥ अहो
मेरीआलीखेलतसंतसमाज ॥ टेक ॥ निकटमहोद
धिरत्नसिंहासन, रथपरश्रीजगन्नाथ ॥ पुष्पविमानचढ़े
बलदाऊ, देवीसहोद्राहैसाथ ॥१॥ दोनामरुवाअधिक
विराजैं, पहिरेपुष्पअपार ॥ सखिनसहितलक्ष्मीसंगरा
जैं, पहिरैंनौतमचीर ॥ २ ॥ जगजीवनखेलनकोपधारे,

इंद्रदमनदरवार ॥ गोपरूपसोधेरंगभीने, चलेहैंभरि
भरिभार ॥ ३ ॥ महिमाअधिकजातनहिंवर्णी, सबदेव
नकेदेव ॥ आयोशरणदासजनमाधव, प्रभुअपनोक
रिलेव ॥ ४ ॥ २ ॥

इति गिरिहोरी समाप्त ।

अथ रामडोल प्रारंभः ॥

रागधनाश्री ॥ बैठेडोलविराजैं, आजुश्रीरघुवरजानकी
नरअरुनारिसबैमिलिगावत, रागरागनीतासुकी।टेक
पुरटजड़ितपटिनीपटसोहैं, रचनारचीहैवितानकी ॥
झलकिरहीकहिजातनझलरी, झुमकनिगजमुक्तानकी
१सखीचखीमृगझुमकझुलावत बीरीखवावतपानकी
सियपियपरहैंसिचोटचलावत, लोचनकोयनवानकी
॥ २ ॥ अबीरगुलालअरगजासोंछवि, कबिहैभानुकुल
भानुकी ॥ ३ ॥ युगलबिलोकिबदनविधुसुंदर, गतिगइम
दनगुमानकी ॥ ४ ॥ १ ॥

रागधनाश्री ॥ खैलैंअरसपरसमिलिफागुआगागरी ॥ द
शरथसुतऔजनकनंदिनी, इनकोपरमसुहागरी।टेक।
चोवाचंदनऔरअरगजा, भरिभरिकेसरिगागरी ॥ पि
यप्यारीप्यारीपियऊपर, बाढ़योअतिअनुरागरी ॥ १ ॥
पकरिलालकेगालुपेटे, धोयेछुटतनदागरी ॥ होहोबो
लैंहोरीखैलैं, तोन्योलाजकोतागरी ॥ २ ॥ बाजतता

लसृदंगझांझडफ, मच्योधनाश्रीरागरी ॥ दोउमिलिफ
 गुवारीझदेतहैं, लघुमोहनकोभागरी ॥ ३ ॥ २ ॥
 रागसारंग ॥ झूलतडोलतअवधविहारी ॥ अरुणवसन
 अलबेलीबनिता, गावतकोकिलकंठरी ॥ टेक ॥ सवहि
 सखीदामिनिज्योदमकहिं, पहिरेअनूपमसारी ॥ अप
 नोअपनोमाटधरेसब, मृगमदकेसरिगारी १ आपआ
 पकेझमकेचालत, देतपरस्परतारी ॥ लाजकानिकाहू
 कीनमानत, प्रेमभरीमतवारी ॥ २ ॥ झूंकचलतहैंतट
 सरयूके, गावतरागधमारी ॥ अलबेलीहटकयोनिहिंमा
 नत, सियानिरखिरतिहारी ॥ ३ ॥ औरख्यालकोकोग
 निसकै, अनंगरतिदोउहारी ॥ कहिनपरतकञ्छविरा
 धाकी, शोभितरूपअपारी ॥ ४ ॥ फूलनहीकीपागवि
 राजै, फूलनपेंचसवांरी ॥ फूलनकीमालाजुविराजै, फू
 लीफिरतपुरनारी ॥ ५ ॥ फूलहिफूलवनेपुलिननमें, फूलन
 कीपिचकारी ॥ फूलनहीकीअलकगुहाई, फूलनमांझ
 सवांरी ॥ ६ ॥ फूलनहीकीअँगियाविराजै, फूलनही
 कीसारी ॥ फूलनहीकोबन्योघाँघरो, फूलनछरीसवांरी
 ॥ ७ ॥ फूलनहीकोअटारअटारी, फूलनडोलसवांरी ॥
 फूलनहीकोबन्योझरोखा, फूलनहीकीबारी ॥ ८ ॥ फूलन
 हीकीरौसबनाई, फूलनहीकीचिकडारी, सकलफूलकी
 छातिबनाई, अरुणफूलडंडकारी ॥ ९ ॥ पीतफूलकीझां
 कीराखी, फूलकुशुंभाजारी ॥ नीलफूलकेपरदाडारे, झू

लतिजनकदुलारी ॥ १० ॥ फूलनहीकीभूमिविराजै, फूललतालटकाई ॥ फूलनहीकेखंभविराजै, फूलनतनीसवांरी ॥ ११ ॥ फूलीनारिअद्भुतअतिगावहिं, मानौमनोजलजाई ॥ दशरथनंदनजनकदुलारी, झलतहैंभुजजोरी ॥ १२ ॥ घनदामिनिद्युतिराजतदोऊ, कहिनपरतछविभारी ॥ अनंगलज्योरघुवरछविदेखत, सियानिरखिरतिहारी ॥ १३ ॥ निशिदिनसुखब्रह्मादिकवांछत, संशयरहतसुरनारी ॥ विनपुरवासीकोउनहिंयावै, अवधआनसुखकारी ॥ १४ ॥ सीतारामअभयपदमोको, दीजेभक्तसुखभारी ॥ निशिदिनध्यानधरौंहृदयेविच, तुलसीछविपरवारी ॥ १५ ॥ ३ ॥

इति रामडोल समाप्त ।

अथ कृष्णडोलप्रारंभः ।

रागधनाश्री ॥ चलोसखीदेखनजइये, डोलसोहावनो ॥ ऋतुबसंतफूलेपतिपत्नी, गृहगृहआनंदबधावनो ॥ ॥ टेक ॥ नववृंदावननववंशीवट, बेलिसघनवनफूले ॥ धीरसमीरकुंजजहँयमुना, देखिमहामुनिभूले ॥ १ ॥ तामधिडोलरच्योविश्वकर्मा, अद्भुतचित्रबनाई ॥ बणौकहाएकमुखरसना, शेषहुवरणिनजाई ॥ २ ॥ कनकखंभनगजडितपिरोजा, लगेहैंलालमणिमोती ॥ हीरानगनवनीचित्रायनि, शशिउडुगणसमज्योती ॥ ३ ॥ रेसमडोरीलू

मखतूलन्हि, नवललाललपटावै॥ झलतश्रीराधेआनँद
 घन, नौतमनारिझुलावै ॥ ४ ॥ लहँगालालकुसुंभीअँगि
 या, पहरिबसंतीसारी॥ चंद्रवदनिमृगलोचनिराधे, श्री
 वृषभानुदुलारी ॥ ५ ॥ चोवाचंदनअगरकुमकुमा, अ
 बिरगुलालउड़ावै॥ खेलतब्रजबनितामोहनसँग, अमर
 पुष्पवर्षावै ॥ ६ ॥ तालमृदंगझांझडफवाजै, रंगरह्यो
 रसभारी॥ लाललाडिलीकीछविऊपर, जनकेशवबलि
 हारी ॥ ७ ॥ १ ॥

इति कृष्णडोल समाप्त ।

अथ अन्य विशेष होरी ।

दशरथकेद्वारमचीहोरी ॥ टेकाआयेवसिष्ठसंगद्विजसो
 हैं, केसरतिलकअबीरकिझोरी॥ पुत्रनसहितउठेराजाद
 शरथ, शीसनायकहकरजोरी ॥ २ ॥ हिलिमिलिफागप
 रस्परखेलें, दानदियेसेभयमतिभोरी ॥ ३ ॥ ब्रह्माखेलें
 महादेवखेलें, सुरपतिखेलेंरँगबोरी ॥ ४ ॥ कौतुकदेखि
 पतंगभुलाने, शारदकीभईमतिभोरी ॥ ५ ॥ तुलसीदा
 सआसरघुवरकी, चितवनमोररामओरी ॥ ६ ॥ १ ॥
 होरीखेलत, रामअवधबासी ॥ टेका ॥ कितसेआयेराम
 रँगीले, कितसेआईसियसुखरासी ॥ १ ॥ केतनेवर्षके
 रामरँगीले, केतनेवर्षकीसियसुखरासी ॥ २ ॥ बारहवर्ष
 केरामरँगीले, सातवर्षकीसियसुखरासी ॥ ३ ॥ उड़त

गुलाललालभयेबादर ॥ रँगवर्षतकेसरखासी ॥ ४ ॥
रामसेवकजीकेप्रभुसुखसागर, अचलबसैतेरीअवि
नासी ॥ ५ ॥ २ ॥

होरीखेलतराम, अवधहोरी ॥ टेक ॥ लषनरामदोउभर
तशत्रुहन, अबिरगुलालभरेझोरी ॥ १ ॥ चारोबरनघर
नकीयुवती, सकलयुवामदबोरी ॥ २ ॥ चलिभलि
विधिफागुनकीमहिमा, कुशलबड़ीसबकेओरी ॥ ३ ॥ बा
जाबिबिधबजावतगावत, होतसोरबहुचहुँओरी ॥ ४ ॥
मनहुँमदनरतिसैनापतिकी, कीन्होचोपनथोरीथोरी ॥
५ ॥ चंदनकेसरमृगमदभाजन, लियेभरेसबकरघो
री ॥ ६ ॥ लाजकाजमरजादलोककी, सकलतजीयहम
दबोरी ॥ ७ ॥ इतरघुवंशीछैलछबीले, उतअलबेलीबे
लीरी ॥ ८ ॥ खेलहिंफागअबीरदोउदिशि, उड़तबढ़यो
आनँदभारी ॥ ९ ॥ अबीरगुलाललगाइभलीविधि, रं
गनतेअंगनबोरी ॥ १० ॥ रामसेवकएकरामपरस्पर,
धरतकरतबरजोरीजोरी ॥ ११ ॥ ३ ॥

होरीखेलतरामअवधपुरमें ॥ टेक ॥ क्रीटमुकुटमकराकृ
तिकुंडल, मोतियनमालबनीउरमें ॥ १ ॥ बाजततालमृ
दंगझांझडफ, हनुमतनाचेडफघरमें ॥ २ ॥ रामसेवक
जीकेप्रभुसुखसागर, याजोरीबसोमेरेउरमें ॥ ३ ॥ ४ ॥
सरजूतटआजुमचीहोरी ॥ टेक ॥ रघुबरलक्ष्मणभरत
शत्रुहन, खेलतहैंजोरीजोरी ॥ १ ॥ अबीरगुलालकुम

कुमाघोरी, केसरकीचमचोरी ॥२॥ क्रीटमुकुटमकरा
कृतिकुंडल, सिरसोहैसुंदरसारी ॥३॥ सुंदरश्यामराम
छबिराजत, पीतांबरकटिकेसरवोरी ॥४॥ उड़तगुला
ललालभयेबादर, धनुषबाणरँगमेंवोरी ॥ ५ ॥ हिलि
मिलिफागपरस्परखेलें, अविरगुलालभरेझोरी ॥ ६ ॥
रामसेवकरसरसिकशिरोमणि, चितवतश्यामराममा
री ॥ ७ ॥ ५ ॥

होरीरचिरहिछैलछबीलेकी ॥टेक ॥ रोंकेघाटवाटजल
ओरी, मिलिमिलियूथरँगीलैकी ॥ १ ॥ सरजूतीरनीर
भरिबेकी, जिनजैहौरँगभीनेकी ॥ २ ॥ मिलिमिलिजू
थअंटारीनाचहिं ॥ चढिदेखहिंफागरसीलेकी ॥ ३ ॥
कुमकुममाठहाथसरजूजल, दैदैमारअवीरोंकी ॥ ४ ॥
रामसेवकरतिरामचरणसिय, अद्भुतख्यालफनोसो
की ॥ ५ ॥ ६ ॥

दशरथकेलालखेलेंहोरी ॥टेक ॥ कौनकेहाथघुमरडफ
बाजै, कौनकेहाथमंजीराजोरी ॥१ ॥ लक्ष्मणहाथघुम
रडफबाजै, शत्रुहनहाथमंजीराजोरी ॥ २ ॥ कौनकेहा
थकनकपिचकारी, कौनकेहाथअवीरकिझोरी ॥ ३ ॥
रामजीकेहाथकनकपिचकारी, भरतकेहाथअवीरझो
री ॥४॥ हिलिमिलिफागपरस्परखेलें, आनंदउमगकौ
नकोरी ॥ ५ ॥ तुलसिदासछबिदेखिमगनभये, चिरं
जीवरहोयुगलजोरी ॥ ६ ॥ ७ ॥

होरीखेलतफिरत, अबधवासी ॥ टेक ॥ बाजततालमृ
दंगझांझडफ, नौमतमँचोपघोररासी ॥ १ ॥ अतरअबीर
भरेकेसरघट, फेंकतगुलालकरेंहांसी ॥ २ ॥ सुररंजन
भंजनमहिभारा, करतचरित्रलगैहांसी ॥ ३ ॥ रघुवर
लक्ष्मणभरतशत्रुहन, अंसनसहितसिंधुरासी ॥ ४ ॥ तुल
सिदासछविदेखिमगनभये, देखतपरेप्रेमफांसी ॥ ५ ॥
तुमकोहरिहोरीखेलाधों।टेका।आजुतुम्हैंधरिकैरघुनंद
न, सुखभरिरंगलगावों ॥ १ ॥ छीनिलेउंकरसेपिचकारी,
तबसियसखीकहावों ॥ २ ॥ अनुजसहितधरिरामलख
नको, सुंदररूपबनावों ॥ ३ ॥ लैजैहौमिथिलेशललीपहँ,
सियाजीकेपांयपरावों ॥ ४ ॥ तुलसिदासहंसिलषनक-
हैं प्रभु, सबसखियनधरिल्यावों ॥ ५ ॥ छीनिलेउंअंगपट
अरुभूषण, रँगसेनहवावों ॥ ६ ॥ ९ ॥

दशरथसुतचारोखेलहोरी ॥ टेक ॥ उड़तगुलाललालभये
बादर, घटाउमँगिआयेदौरी ॥ १ ॥ कौनकेहाथरंगपि
चकारी, कौनकेहाथअबीरझोरी ॥ २ ॥ लक्ष्मणहाथ
रंगपिचकारी, रघुवरहाथअबीरझोरी ॥ ३ ॥ इतरघुना
थसखासँगलीन्हें, जनकसुतासखियनजोरी ॥ ४ ॥
भौतमनारिअयोध्यापुरकी, सुभगचारुउमँगेनथोरी
॥ ५ ॥ चोवाचंदनऔरअरगजा, मटुकीमँकेसरघो
री ॥ ६ ॥ सीतासैनदियोसखियनको, झुंडझुंडउठि
धाईसगरी ॥ ७ ॥ फगुवादेवमँगायलालजू, बहुमेवा

भरिदेउझोरी ॥ ८ ॥ तुलसिदासछविदेखिमगनभये,
गौरश्यामसुंदरजोरी ॥ ९ ॥ १० ॥

खेलतरसियासंगहोरी ॥ टेक ॥ पिचकारीछोड़तछवि
छलसों, चितवतचंद्रसखीचहुँओरी ॥१॥ चोवाचंदन
औरअरगजा, केसरमाठभरेधरेघोरी ॥ २ ॥ पियपि
यारीप्यारेकेऊपर, भरतपरस्परकुँवरिकिशोरी ॥३॥ त
बमहारानीअतिअकुलानी, साजिलियेसनमुखदोरी ॥
॥४॥ देतनिकंदशंकनहिंमानत, दियोहैदांवआयोवर
जोरी ॥ ५ ॥ इतहिरामउतसियासुंदरी, नयननिसैन
करतइकओरी ॥ ६ ॥ अतिआनंदनिरखियहशोभा,
तुलसिदासशरणागततोरी ॥ ७ ॥ ११ ॥

होरीखेलत, रामलखनप्यारे ॥ टेक ॥ रविशशिकोटि
बदनकीशोभा, कौटिकामऊपरवारे ॥१॥ क्रीटमुकुट
मकराकृतिकुंडल, शोभाश्यागरामप्यारे ॥ २ ॥ पीतां
बरपगनूपुरबाजें, चरणकमलमुनिमनभाया ॥३॥ तीन
लोकअरुचौदहभुवनमें, रामनाममहिमाभारी ॥४॥ तु
लसीदासकहैकरजोरे, रामनामचितधरुप्यारे ॥५॥ १२
होरीखेलतअवधनगरमें ॥ टेक ॥ संगसखालीन्हेरघु
बंशी, सियसमाजमहलनमें ॥१॥ बाजततालमृदंगझांझ
डफ, अरुबाजेमहलनमें ॥ २ ॥ रंगभरेठाढेरघुबंशी,
सियाठाढ़िअंगनमें ॥ ३ ॥ अबिरगुलालकीधूममचीहै,
पिचकारीहाथनमें ॥४॥ सखियनमिलिपीतांबरपकरे

रोरीलगाईमुखनमें ॥ ५ ॥ जगजीवनप्रभुकीछविनि
रखै, यहजोरीमेरेमनमें ॥ ६ ॥ १३ ॥

होरीखेलंगीदशरथलालसे।टेक॥मेरेफागफागुनऋतु
आई,मिलहुंगीउरमालासे१केसरघोरिअंगछिरकूंगी,
मुखमारौंगीलालगुलालनसे२रामसेवकगहिबांहलेउँ
गी, फगुवाकोशलपालासे ॥ ३ ॥ १४ ॥

रामखेलत, अनोखीहोरी॥टेक॥अविरगुलालआंखि
नमेंमसलत, बहियांपकरिझकझोरी ॥ १ ॥ हमेलाजतु
म्हैलाजनआती, करतफिरतबरजोरी ॥ २ ॥ अवधग
लिनमेंछयलछकैभिरे, सखियांसकलरँगबोरी॥३॥ तु
लसिदासप्रभुरूपनिरखिकै, डारतहैतृणतोरी ४॥१५
होरीखेलनरामलखनआये॥टेक॥लगेबसंतबौरिगये
आमा, चंपाकेसररँगछाये ॥ १ ॥ रघुवरलक्ष्मणभर
तशत्रुहन, संगसखाहनुमतआये ॥ २ ॥ फेंटगुलाल
हाथपिचकारी, केशरकलशभरेआये ॥ ३ ॥ हिलिमि
लिफागपरस्परखेलै, रामलखनसखियनभाये ॥ ४ ॥
तुलसिदासछविदेखिमगनभये, चरणकमलचित
लाये ॥ ५ ॥ १६ ॥

मिथिलापुरआञ्जुमचीहोरी ॥टेक॥इतउतकोसलपति
मिथिलापति, खेलतहैजोरीजोरी ॥ १ ॥ फेंटगुलाल
हाथपिचकारी, अविरगुलालभरेझोरी ॥२॥ रघुवरल
क्ष्मणभरतशत्रुहन, झुंडझुंडउठिधाईगोरी ॥ ३ ॥ उड़

तगुलाललालभयेबादर, कीचमचीखोरीखोरी ॥ ४॥
 हिलिमिलिफागपरस्परखेलत, फेंकतहैंझोरीझोरी
 ॥ ६ ॥ तुलसिदासछबिदेखिमगनभये, चितवनमोर
 रामओरी ॥ ६ ॥ १७ ॥

अंजनिसुत, हरिकेमनभाये ॥ टेक ॥ लाललँगोटवनोअ
 तिसुंदर, तेलसेंदूरचढ़ाये ॥ १॥ एकहाथगदादूजेद्रोण
 गिरि, भरतजीबाणचलाये ॥ २ ॥ लागोबाणगिरिधरणी
 में, रामनाममुखआये ॥ ३ ॥ अचरजभयोभरतजीकेम
 नमें, रामैकोइदूतपठाये ॥ ४ ॥ कौनकेपुत्रकौनकेपायक,
 कौनहिलेनपठाये ॥ ५ ॥ अंजनीकेपुत्ररामजीकेपायक,
 लक्ष्मणलेनपठाये ॥ ६ ॥ कौनराजाकीकरतचाकरी, कहें
 वांसेतुमआये ॥ ७ ॥ रामराजाकीकरतचाकरी, लंकापुरी
 सेआये ॥ ८ ॥ आवोपवनसुतबैठबाणपर, बाणविमानव
 नाये ॥ ९ ॥ पर्वतसहितपवनसुतबैठे, बाणअकाशचढ़ाये
 ॥ १० ॥ तुलसिदासहनुमानभरोसे, हरिअपनेमुख
 गाये ॥ ११ ॥ १८ ॥

श्रीठाकुरकलंगीआपुधरे ॥ टेक ॥ कवनमासमेंवनीकलं
 गी, कवनमासहरिसीसधरी ॥ १ ॥ माघमासमेंवनीक
 लंगी, फागुनमेंहरिसीसधरी ॥ २ ॥ काहेकीतेरीवनी
 कलंगी, काहेरत्नजड़ावजड़ी ॥ ३ ॥ मोरपंखकीवनीक
 लंगी, हीरारत्नजड़ावजड़ी ॥ ४ ॥ सूरदासछबिदेखि
 मगनभये, हरिकेचरणपरसीसधरी ॥ ५ ॥ १९ ॥
 गतिहोइगी, रामगुणगायेसे ॥ टेक ॥ अवधपुरीपयकर

माकरिके, सरजूगंगनहायेसे ॥ १ ॥ जगन्नाथपयकर
मादेके, सेतुगंगानहायेसे ॥ २ ॥ रामेश्वरपरकरमादे
के, धनुषतीरथनहायेसे ॥ ३ ॥ द्वारिकाधीशपयकरमा
देके, गोमतीगंगनहायेसे ॥ ४ ॥ बद्रीनाथपयकरमादे
के, तपतकुंडसुनहायेसे ॥ ५ ॥ वृंदावनपयकरमादेके, य
मुनागंगनहायेसे ॥ ६ ॥ माधवदासआसरघुवरकी, ह
रिकेचरणचितलायेसे ॥ ७ ॥ २० ॥

उठिमिलिलेभरत, रामआये ॥ टेक ॥ मकुनाहाथीजरद
अमारी, ऊपरचँवरदुरतआये ॥ १ ॥ पीतांबरकेपरेवि
छौना, तापरचरणधरतआये ॥ २ ॥ रामजीभीआये ल
क्ष्मणआये, सखियनसँगसीताआये ॥ ३ ॥ भुजापसा
रिमिलेचारोभैया, नयनननीरझरतआये ॥ ४ ॥ तुल
सीदासआसरघुवरकी, चरणकमलपरचितलाये ५२१
शिवमठपरसोहै, लालध्वजा ॥ टेक ॥ कौनकेसोहैहरी
पीरीचुरियां, कौनकेसोहैभसमगोला ॥ १ ॥ गौरीके
सोहैहरीपीरीचुरियां, शिवकेसोहैभसमगोला ॥ २ ॥
कौनशिखरपरगौरिविराजै, कौनशिखरपरबम्भोला
॥ ३ ॥ उत्तरशिखरपरगौरिविराजै, दक्षिणशिखरपरब
म्भोला ॥ ४ ॥ मीराकेप्रभुगिरिधरनागर, हरिकेचरण
परचितमोरा ॥ ५ ॥ २२ ॥

शिवकेमनमाहिंबसीकासी ॥ टेक ॥ आधीकाशीब्राह्म
णबनिया, आधीकाशीसंन्यासी ॥ १ ॥ काहकरनको

ब्राह्मणवनिया, काहकरनकोसंन्यासी ॥२॥नेमधरम
कोब्राह्मणवनिया, तपकरनेकोसंन्यासी ॥३॥कौनशि
खरपरगौरिविराजै, कौनशिखरपरअविनाशी ॥ ४ ॥
उत्तरशिखरपरगौरिविराजै, दक्षिणशिखरपरअविना
शी ॥ ५ ॥ मीराकेप्रभुगिरिधरनागर, हरिकेचरणपर
मैंदासी ॥ ६ ॥ २३ ॥

अथ प्रल्हादको वसंत प्रारंभः ।

नहिंछांड़बावारामनाम॥मेरेऔरपढ़नसोंकौनकाम ॥
॥टेक॥ प्रह्लादपधारेपढ़नसार, जहँसंगसखालियेवहु
तबाल, कहारेपढ़ावोपांड़ेआलजाल, मेरीपाटीमैलि
खदेश्रीगोपाल ॥ १ ॥ पांड़ेमूरखाकहेजाई, प्रह्लाद
बँधावोबेगिआई ॥ रामकहनेकीछाँड़िबान, तोहिअव
हिंछुड़ावोंमेरोकह्योमान ॥२॥ कहारेडरावोपांड़ेवारवा
र, मोहिजलथलगिरिसेकियोप्रहार ॥ मारिडारिवहा
वोदेहजारि, हरिनामछाँड़ोंतोमेरेगुरुकीगारि ॥ ३ ॥
खड्गकाढ्योरिसाय, तेरोराखनहारोमोहिँवताय ॥
खंभफारिप्रगटेमुरार, हरनाकुशमान्योनखविदार
॥ ४ ॥ २४ ॥

इति प्रल्हादको वसंत समाप्त ।

अथ अन्यविशेषहोरी प्रारंभः ।

प्रभुखेलतफागमचीहोरी॥टेक॥माघउतरऋतुफागुन
आये, घरघरश्यामकरतफेरी ॥१॥फेंटगुलालहाथपि

चकारी, केसरिकेरँगमेंबोरी ॥ २ ॥ ब्रह्माखेलैमहादेव
खेलै, सुरपतिखेलैबरजोरी ॥ ३ ॥ सूरदासछबिदेखिमग
नभये, हरिकेचरणपरलागीडोरी ॥ ४ ॥ २५ ॥

बेदरदीबांसुरीबाजी ॥ टेक ॥ राधेजीसोवैअपनेमहल
में, कछुसोवैकछुजागै ॥ १ ॥ कौनदिशामेंबाजीबांसुरी
कौनदिशामेंगाजै ॥ २ ॥ पूरबदिशामेंबाजीबांसुरी, प
छिमदिशामेंगाजै ॥ ३ ॥ इतमथुराउतगोकुलनगरी,
बीचमेंयमुनामेंगाजै ॥ ४ ॥ वृंदावनमेंरासरच्योहै, राधा
मोहननाचै ॥ ५ ॥ सूरश्यामप्रभुतुम्हरेमिलनको, चरण
कमलचितराचै ॥ ६ ॥ २६ ॥

मेरेआयेरेश्याम, नटवरबनिकै ॥ टेक ॥ गाड़ोबांसढो
लठमकावो, चढ़िगयोबांसपकरिकै ॥ १ ॥ पीतांबर
कीकारीधोती, लालकाछनीकछिकै ॥ २ ॥ हाथमेंथाल
गुलालफैटमें, मारतमुट्टीभरिकै ॥ ३ ॥ अबिरगुलाल
कीधूममचीहै, केसररंगबरसकै ॥ ४ ॥ सूरश्यामहरि
फगुवाखेलै, दोउदोउमूठसबनकै ॥ ५ ॥ २७ ॥

रसियाबनो, मदनमोहनप्यारो ॥ टेक ॥ फैंटगुलालहा
थपिचकारी, युवतीजनमोहनप्यारो ॥ १ ॥ पीतांबरकी
कछनीकाछे, कुंडलमुकुटलकुटवारो ॥ २ ॥ बाजतताल
सृदंगझांझडफ, बीनाउपंगचंगन्यारो ॥ ३ ॥ चंद्रसखीभ
जुवालकृष्णछबि, तनमनधनतोपैवारो ॥ ४ ॥ २८ ॥
उड़िजारेभँवर, तोहिमारोंगी ॥ टेक ॥ उड़िभँवरावाकीछ

तियनबैठो, तेरोकैसेबोझसम्हारोंगी ॥ १ ॥ एकभँवरसे
 लगनहमारी, कैसेदूजेओरनिहारोंगी ॥ २ ॥ दयासखी
 धनिभँवरहमारे, कोटिभँवरतोपैवारोंगी ॥ ३ ॥ २९ ॥
 नेकठादेरहोरसिया, रँगडारों ॥ टेक ॥ अविरगुलालम
 लोंमुखतेरे, गालनपरगुलचामारों ॥ १ ॥ चौवाचंदन
 औरअरगजा, घिसिघिसितोपैडारों ॥ २ ॥ चंद्रसखीभ
 जुबालकृष्णछवि, तनमनधनतोपैवारों ॥ ३ ॥ ३० ॥
 ब्रजमेंहरिहोरीमचाई ॥ टेक ॥ बाजततालमृदंगझांझड
 फ, मंजीरासहनाई ॥ १ ॥ उड़तगुलाललालभयेवादल,
 रहतसकलब्रजछाई ॥ २ ॥ इतसेआईसुघरराधिका,
 उतसेकुँवरकन्हआई ॥ ३ ॥ हिलिमिलिफागपरस्परखेलत
 शोभाबरणिनजाई ॥ ४ ॥ राधेजीशयनदियोसखियन
 को, झुंडझुंडउठिधाई ॥ ५ ॥ लपटिझपाटिगईश्यामसुंद
 रको, बरबसपकड़िलैआई ॥ ६ ॥ छीनिलियोसुखसुरली
 पीतांबर, शिरसेचुनरीओढ़ाई ॥ ७ ॥ बैदीभालनयनवि
 चकाजर, नकबेसरिपहिराई ॥ ८ ॥ सुसुकतहोमुखमो
 रिमोरिकै, कहांगईचतुराई ॥ ९ ॥ कहांगयेतेरेनंदवावाजू,
 कहांयशोमतिमाई ॥ १० ॥ फगुवालियोबिनजाननदे
 हों, करिहोकोटिउपाई ॥ ११ ॥ लेहौंचुकाइकसरिसव
 दिनकी, तुमहौचोरकन्हआई ॥ १२ ॥ सुरदासप्रभुचतुर
 कन्हैया, श्यामकोराधामनाई ॥ १३ ॥ ३१ ॥
 सांवरोकहाँ, होरीमचाई ॥ टेक ॥ मँयमुनाजलभरनजा

तती, मिलिगयेकुँवर कन्हई ॥ १ ॥ मन्मुख आइ गुला
लहुडरो, बंसी किचोरी लगाई ॥ २ ॥ पांयप करि ग्वालि
निजब बोली, गुलची चारि लगाई ॥ ३ ॥ कंसराय पैपक
रि मँगावों, तो वृषभानुकी जाई ॥ ४ ॥ हरिमुख कायच
ले मन मोहन, छतियन हाथ चलाई ॥ ५ ॥ नंदराय जीके
कान कहत हौ, जिनके कुँवर कन्हई ॥ गिरिधर ऐसी हो
री खेलई ॥ ६ ॥ ३२ ॥

बृंदावन श्याम, रची होरी ॥ टेक ॥ बाजत ताल मृदंग झांझ
डफ, वर्षतरंग उड़त रोरी ॥ १ ॥ कितसे आये कुँवर कन्हैया
कितसे आई राधागोरी ॥ २ ॥ बृंदावनसे कुँवर कन्हैया,
वर्षानेसे राधागोरी ॥ ३ ॥ कौनके हाथ कनक पिचकारी
कौनके हाथ अबीर झोरी ॥ ४ ॥ कृष्णके हाथ कनक पिच
कारी, राधेके हाथ अबीर झोरी ॥ ५ ॥ अबिर गुलालकी
धूममची है, फेंकत हैं भरभर झोरी ॥ ६ ॥ सूरदास छबिदे
खिमगन भये, राधेश्याम युगल जोरी ॥ ७ ॥ ३३ ॥

डफ बाजो छैल मतवारेको ॥ टेक ॥ डफके धूमसे सब घर हा
ल्यो, हाल्यो खंभते वारेको ॥ १ ॥ बाजू बंद खहेला सो है,
गले सो है खगघारेको ॥ २ ॥ मँबर जाँजनि जाहु अकेली,
ठाढ़ो छैल नंदवारेको ॥ ३ ॥ सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलनको,
तन मन धन चो वारेको ॥ ४ ॥ ३४ ॥

कान्हाधरेरे मुकुट, खेलै होरी ॥ टेक ॥ कितसे आये कुँवर
कन्हैया, कितसे आई राधागोरी ॥ १ ॥ इतसे आये कुँवर

कन्हैया, ३ तसे आईराधागोरी ॥ २ ॥ केतनेवरसकेकुँ
 वरकन्हैया, केतनेवरसकीराधागोरी ॥ ३ ॥ चारावरसके
 कुँवरकन्हैया, सातवरसकीराधागोरी ॥ ४ ॥ हिलिमि
 लिफागपरस्परखेलत, अबीरगुलालभरेझोरी ॥ ५ ॥
 चंद्रसखीभजुबालकृष्णछबियुगलचरणपरचितमोरी
 ॥ ६ ॥ ३५ ॥

मृगनयनीनारि, नवलरसिया ॥ टेक ॥ अतलसकोजा
 कोलहंगासोहै, झमकसारीमुखमललसिया ॥ १ ॥ पि
 यरीगोरीपियरोईरसिया, लालपलंगपचरंगीतकिया।
 ॥ २ ॥ बांहबराबाजूबंदसोहै, हियेहमेलदियेछतिया ॥
 ॥ ३ ॥ छोटीछोटीअंगुरीमेंमुंदरीसोहैं, झलकैअरसीअ
 ङ्कुतिया ॥ ४ ॥ सूरदासहरिरूपनिहारे, चरणकमलपर
 चितवसिया ॥ ५ ॥ ३६ ॥

ब्रजमेंसखिरंगमचोरी ॥ टेक ॥ जातिरहीबंसीवटयमु
 ना, बीचमेंरंगउडोरी ॥ १ ॥ काहूकेबसनकेसारिसौंभी
 जे, काहूकेछीटपरोरी ॥ २ ॥ एककहैमैंतोसगरीभीजि
 गई, अबमैंकैसीकरोरी ॥ ३ ॥ सबसखियनलिमतोकि
 कियोहै, कृष्णकोजापकरोरी ४ फेंटपकरिरंगछिड़कन
 लागीं, राधेहंसीमुखमोरी ॥ ५ ॥ दामिनिसीदमकैद्युति
 मानौं, पूरणचंद्रउजोरी ॥ ६ ॥ रामप्रसादअनोखोरू
 पलषि, मानोमरालकीजोरी ॥ ७ ॥ ३७ ॥

यमुनातटआजुमचीहोरी॥टेक।हलधरगिरिधरमदन
मनोहर, खेलतहैंजोरीजोरी॥१॥ अबिरगुलालकुमकु
माकेसर, काचमचीखोरीखोरी॥२॥ मोरमुकुटमकरा
कृातिकुंडल,सोहतहैंसुंदरजोरी॥३॥ फेंटगुलालहाथपि
चकारी, अबिरगुलालभरेझोरी॥४॥सुंदरश्यामकामछ
बिलाजत, शिरसोहैंसुंदरसारी॥५॥हिलिमिलिफागपर
स्परखेलत,फेंकतहैंझोरीझोरी॥६॥उड़तगुलाललालभ
येबादर,करमुरलीरंगमेंबोरी॥७॥सूरदासप्रभुरसिका
शिरोमणि, चितवनमोरश्यामओरी ॥ ८ ॥ ३८ ॥

राधेफूलनमथुराछाई ॥टेक॥ कीतोफूलस्वर्गसांउतरे
कीतोमालिनिल्याई ॥१॥ नहिंतोफूलस्वर्गसांउतारे
नहिंतोमालिनिल्याई॥२॥ उड़िउड़िफूलपरेयमुनामें,
राधेबीननआई ॥३॥ चुनिचुनिकलियांमैंहारबनाये,
श्यामकेउरपहिराई ॥४॥ चंद्रसखीभञ्जुबालकृष्णछ
बिहरिकेचरणचितलाई ॥ ५ ॥ ३९ ॥

बरसानेमेंमहललाडिलीकेटेक । एबरसानेमेंबागबहु
तहैं,बिचबिचपेंडमालतीके॥१॥ एबरसानेमेंमहलबहुत
हैं बिचबिचचौकचांदनीके॥२॥ एबरसानेमेंनारिबहुत
हैं,बिचबिचझुंडग्वालिनीके ॥ ३ ॥ बसोरेआलीएबर
साने, पिहरेराधेगोरीके॥४॥ श्यामकन्हैयानिशिदिन
बिहरें, जबसेदिनआयेहोरीके॥५॥ चंद्रसखीभञ्जुबाल
कृष्णछवि, चरणकमलचितचोरीके॥ ६ ॥ ४० ॥

दधिपीलेश्यामसलोना ॥ टेक ॥ काहेकीतेरीवनीहेम
थनिया, कौनपत्रकेदोना ॥ १ ॥ आठकाठकीवनीहेम
थनिया, कदमपत्रकेदोना ॥ २ ॥ कौनघाटपरग्वालजु
रेहैं, कौनघाटपरकान्हा ॥ ३ ॥ चीरघाटपरग्वालजुरे
हैं, कालिंदीपरकान्हा ॥ ४ ॥ चंद्रसखीभजुवालकृष्ण
छवि, हरिकेचरणचितहोना ॥ ५ ॥ ४१ ॥

वृंदावनमोहनदधिलूटी ॥ टेक ॥ कहांतेरोहारकहांनक
बेसरि, कौनगलिनमैलरट्टी ॥ १ ॥ मथुराहारगोकुलन
कबेसरि, कुंजगलिनमैलरट्टी ॥ २ ॥ चंद्रसखीभजुवा
लकृष्णछवि, हरिकेचरणगवालिनलूटी ॥ ३ ॥ ४२ ॥
मथुराजनिजाहुकान्हप्यारे ॥ टेक ॥ यहमथुराकीगैलवु
रीहैं, अवघटघाटनदीनारे ॥ १ ॥ यहमथुराकेलोगबुरे
हैं, टेढ़ीटेढ़ीपागपेंचन्यारे ॥ २ ॥ यहमथुराकीनारिबुरी
हैं, लंबेलंबेकेशभँवरकारे ॥ ३ ॥ यहमथुराकीगली
बुरीहैं, बड़ेबड़ेकुलुफजड़ेतारे ॥ ४ ॥ सूरदासमथुराके
बासी, राखेनारिप्रेमप्यारे ॥ ५ ॥ ४३ ॥

इति अन्यविशेष होरी समाप्त ।

अथ हिंडोराञ्जलन प्रारंभः ।

रागमलार ॥ युगलवरञ्जलतफूलहिंडोरे ॥ श्रीवृषभानुसु
तानंदनंदन, फूलेलेतमचोरे ॥ युग० ॥ टेक ॥ फूलन
केखंभफूलनकीडांडी, फूलनकेगुहिंडोरे ॥ फूलनकीपटु

लीअतिसुंदर,तामधिफूलकिरोरे ॥युग०॥१॥बेलनमरु
वाअपारफूलनके,फूलनसाजसबधोरे ॥फूलनकेफहरा
तझमका,सौरभउड़तझकोरे ॥युगल०॥२॥ फूलनको
लहेंगाफूलनकिसारी,फूलनकंचुकीकोरे ॥ फूलनकी
पागजामाफूलनको,फूलनकोपटकामरोरे ॥ युगल० ॥
॥ ३ ॥ नखशिखलौंआभूषणफूलनके,शोभाहोतनथो
रे ॥अहोसुखजातकवनपैबरण्यो,शारदहूमतिभोरे ॥
युगल० ॥ ४ ॥ १ ॥

रागमलार ॥ हिंदोरेमाईझूलतराधागोपाल ॥ नवयौ
वनीरूपगुणसुंदरि,झुराझुरआईबाल ॥ हिंदोरे० ॥
॥ टेक॥ तैसेहिहरितभूमिहैखनिद्रुम,तैसेहिवनेहैंतमा
ल ॥ तैसेहिघटाघुमडिछायाकी,तैसेहिवनीबरमाल॥
हिंदोरे० ॥१॥ तैसेहीवनकुसुमितप्रफुलित,तैसेहिख
गरवजाल ॥ तैसेहिमंदसुगंधशीतयुत,पवनबहततेहि
काल ॥ हिंदोरे० ॥ २ ॥ तैसेहिमणिकंचनआभूषण,तै
सेहिवसनसबलाल ॥ झलिझुलायकियेमनपूरण,जन
परहोहिंदयाल ॥ हिंदोरे० ॥ ३ ॥ २ ॥

रागमलार॥सरसहिंदोरना,वृषभानुजूकेद्वार ॥ टेक ॥
दोअखंभकनकजड़ायकिडांडी,लागेरतनअपार ॥ही
रापन्नामरुवामनोहर,कलशराजतचार॥सर०॥१॥पटु
लीचुहीगलुहेमचर्चित,इंद्रकीधजसुधार॥झूलतश्रीरा
धामदनमोहन,बढ्योरंगअपार ॥ सरस० ॥ २ ॥साव

नसोहाईतीजआई, सखियनकियोहैसिंगार। तनउवट
 नबसतभामिनी, सजिपैहेरेबनहार॥सरस० ॥ ३ ॥ गु
 णरूपशीलसुहागसुंदर, नवलजोवनभार ॥ गावतश्री
 श्यामाश्यामगुणगण, जम्योरागमलार॥सरस० ॥ ४ ॥
 सुरपुरनरपुरनागपुरकी, तुकवनीटरनारि ॥ शब्दजय
 जयहोतचहुँदिशि, पुष्पअञ्जुलिडार॥सरस० ॥ ५ ॥ ३ ॥
 रागमलार ॥ सुरँगहिँडोरनाआली, झलतनदकुमार
 ॥टेक ॥ मृगनयनीमृदुबयनी, सजेसकलसिंगार ॥स
 रसखंभकदंबकेबने, मलयमरुवेसुठार ॥ सुरँग० ॥ १ ॥
 लालडांडीडहडही, पचिपचीहैसुतहार ॥ जड़ितपटुली
 कनककीले, गढीसरससोनार ॥ सुरँग० ॥ २ ॥ चहुँ
 ओरतरुअरुणबसनी, किंकिणीझनकार ॥ रंगभरेउतं
 गउरजनि, कंठझलकतहार ॥ सुरँग० ॥ ३ ॥ चलत
 चकफहगतअंचल, लसतलंबेबार ॥ मृगमदअगरकपू
 रकुंकुम, बासकीउरगार ॥ सुरँग० ॥ ४ ॥ मुखभरेपा
 ननश्यामाश्याम, दोऊपरमउदार॥गीतगावतसुखद
 के, रसरीतिकीटकसार॥सुरँग० ॥ ५ ॥ ग्रामसुरघट
 श्वाससंधि, तानतालअपार ॥ रीझिरीझेजलहिभीजे,
 जम्योरागमलार ॥ सुरँग० ॥ ६ ॥ मोरचकोरकोकिलास
 व, सुरनपरीहठताल॥मेघगरजतरसभरे, बरखतअखं
 डितधार ॥ सुरँग० ॥ ७ ॥ लजतजेलपटातलालहिँत
 जेवेदविचार ॥ छबिरहीफबिमधुसूदनहिँ, बलिहारि

कोटिकवार ॥ चिरजीवोपर्वतप्राणपति, सबजगतप्रा
णअधार ॥ सुरंग ० ॥ ८ ॥ ४ ॥

रेखता ॥ आयोहैमाससावन, इकमानकह्योप्यारी। चल
झलियेहिंदोरे, वृषभानुकीदुलारी ॥ यमुनाकेतीरब
सीबट, कैसीछबिछाई ॥ शीतलसुगंधमंदपवन, चलत
अतिदुहाई ॥ करतीहैशोरयमुना, उठतेतरंगभारी ॥
प्रतिकुंजकुंजछायरह्यो, हैपरागरी। लागतपरमसुहाई,
अवलोकिनागरी। फूलीलताहुमनकी, धरणीझुकीहैडा
री ॥ जापैमलिंदधूमे, मकरंदहेतछाएनाचतहैमोरबन
में, लागतपरमसुहाए ॥ मातीकोयलपुकारे, बैठीकदम
किडारी ॥ कालिंदेयाकेतटपै, झूलतहैंसबसहेली ॥ नव
सतसिंगारसाजे, एकएकतेनबेली। तुमहूंप्रियासिधारो
कीजेनअबअबेरी ॥ झूलैनिकुंजअपनी, अबहींचलोपि
यारे ॥ कीजेबिहारहमसों, तुमनंदकेदुलारे ॥ तबसंगले
पियाको, सुनिकुंजमेंसिधारी ॥ बैठोकुंवरिहिंदोरे, अब
मैंतुम्हैंझुलाऊं। गाऊंतुम्हैरिझाऊं, छबिदेखदृगसराऊं।
बैठोसुरंगपटली, डोरीगहोसँभारी ॥ बाढ़ेनरमकमोह
न, टुकमंदहीझुलाओ ॥ डरपैहियोहमारो, पियारम
कनाबढ़ाओ। यहबातसुनप्रियाकी, उरसोंलईलगाई ॥
भीजेगीलालसारी, कारीघटाजोआई ॥ लीजेउढ़ायमो
को, कामरकुंवरकन्हआई ॥ तबहैंसरसिकबिहारी, का
मरउढ़ाईकारी ॥ चल ॥ ५ ॥

रागमलार॥आजकछुकुंजनमेंवर्षासी।वाटरगणमेंदे-
खसखीरी,चमकतहैचपलासी।नान्हीनान्हीबृंदनक-
छधुरवासी,पवनबहतसुखरासी।मंडमंडगजनसीमुनि
यत,नाचतमोरसभासी ॥ इंद्रधनुषमेंवगमिलडोलत,
बोलतकोककलासी॥इंद्रवधूलुविछायरहीहै, गिरिपर
श्यामघटासी।उमगमहीरुहसेसाहिकंपत,फूलीमृगमा
लासी ॥ रटतव्यासचातककीरसना, रसपीवतहाँ
प्यासी ॥ ६ ॥

रागमलार॥ब्रजपरनीकीआजघटा॥नान्हीनान्हीबृंद
सुहावनिलागत,चमकतविज्जुछटा ॥ गरजतगगनमृ
दंगबजावत,नाचतमोरनटा।गावतसुरहिंदेतचातक
पिक,प्रगटयोमदनभटा।सबपिलिमैंटदेतनँदलालहिं
बैठेऊँचीअटा।चतुर्भुजप्रभुगिरिधरनलालशिर,कुमु
मीपीतपटा ॥ ७ ॥

रागमलार॥तेरीझमकझुलनकटिलचकजात, प्यारी
रमकरँगौलीअतिसोहै।तूगुणरूपयोवनरँगरसभरी,ते
रीउपमाकोकोहै।हाथनचूरीमहाउरमेंहदी,चटकचौ
गुनीसोहै॥रसिकगोविंदअभिरामश्यामघन, तूदामि
निमनमोहै ॥८॥

रागमलार।आईबदरियावरसनहारी।गरजगरजदामि
निदमकावे, ज्योंचुँदरीमेंझलककिनारी ॥सधुरमधुर
कोयलबनबोलै,भवनभवनगावतब्रजनारी।चलतपव

नशीतलनारायण, परतफुहारलगतअतिप्यारी ॥ ९॥
 रागमलार॥हर्षझुलाइये मनभावन ॥ उघरपच्योहिय
 हेतगहगह्यो,झोंकादियोचितचावन॥ यहजोकल्पतरु
 यहरविजोतट,वहबनघनझुकआवन॥वृंदावनहितरू
 पबलिगई, वहहरियालीसावन ॥ १० ॥

रागमलार ॥ देखयुगलछवि,सावनलाजै ॥ उतघनइत
 घनश्यामलाडिलो,उतदामिनिइतप्रियासंगराजै।उत
 वर्षतबृंदनकीलरियां, इतगलमोतियनहारविराजै॥उ
 तदादुरइतबजतबांसुरी,उतगरजतइतनूपुरबाजै।उत
 रंगकेबादरइतबागे, उतेधनुषवनमालइतसाजै ॥ उत
 घनघुमइतैदृगघूमत, नारायणवर्षासुखआजै॥११॥

रागमलार॥श्यामसुननियरेही, आयोमेह ॥ भीजैगी
 मेरीसुरंगचुनरिया, ओढ़पीतांबरलेह॥दामिनिसोंडर
 पतहौमोहन,निकटआपनेलेह॥कुंभनदासलालगिरि
 धरसों, बाढ़ोअधिकसनेह ॥ १२ ॥

रागदेशमलार॥सावनघनगरजैघूमघूम॥ बरसतशीत
 लजलझूमझूम ॥ कोयलकीरकोकिलाबोलैं, हंसचकोर
 चहूँदिशिडोलैं।नाचतवनअतिकरतकलोलैं,मोरमोर
 नीचूमचूम॥ गावेंरागरागिनीभामिन,दमकरहीमानो
 छविदामिन॥झोंकादेतरपटगजगामिनि,पायलगाजे
 छूमछूम ॥ जयजयकरतसुमनसुरवर्षत, इंद्रनिशानब
 जावत ॥ हर्षतदासगणेशयुगलछवि, निरखतछायर

ह्योसुररूमरूम ॥ १३ ॥

रागसोरठ॥कौनसमयरूठतकोप्यारी झूलोललिताहैं
 डोरे॥रंगबेरंगघटानभछाई, विचविचचपलाचमकसु
 हाई॥परतफुहारपरमसुखदाई, चलतसमीरझकोरे॥वि
 विधभांतिपक्षीबनबोलैं, मृगिनसहितमृगविहरतडो
 लैं॥जलजंतुहुमिलकरतकलोलैं, येहीअचरजमनमोरे।
 कुसुमचीरपहरेब्रजनारी, साजसमाजआजहैभारी ॥
 नारायणबलिजाऊंतिहारी, प्रीतमकरतनिहोरे ॥१४॥
 रागसोरठ ॥ झूलोमेरीराधाप्यारी, रंगीलोहिंडोरना ॥
 डांडीचारुसुदेशबनाई, हीराखम्भनझुम्मकलाई ॥जग
 मगजगमगहोयरविशशिडोरना ॥ उमँगिघटाघुमर
 धिरआई, रिमझिमरिमझिमबूंदसुहाई ॥ दमकदमक
 दामिनियादमकै, बोलेमोरना ॥ गावतरागमलारअ
 घाई ॥ शीतलमंदसुगंधसुहाई, तानतरंगनललितभा
 नतृणतोरना ॥ १५ ॥

रागसोरठ।धवलमहलचढ़रत्नबँगला, झूलोसुरँगहिंडो
 र॥नवकिशोरसुकुमारछबीली, नेहनवलभजुजोर ॥ सु
 रँगकुसुंभीसारीप्यारी, हरितजंगालीकोर॥हितअलि
 रूपलालरुच, औरपियाछविउठतहिलोर ॥ १६ ॥
 रागखेमटा ॥ युगलबरझलत, डालगलबाहीं, रत्नजड़ि
 तकोबन्योहैहिंडोरा, सघनकुंजकेमाहीं ॥रेशमडोरप
 वनपुरवैया, लखरतिकामलजाहीं ॥ सखीसखादोउ

ओर झुलावत, मधुरमधुर सुरगाहीं। मध्यश्यामश्यामा
दोउहिमिल, पुनिपुनिहियहर्षाहीं ॥ ऊंचीडारतोरक
लियनदोउ, निजनिजकलिनसराहीं ॥ याछबिनिरखि
प्रियाकीप्रीतम, मोहनमननअघाहीं ॥ १७ ॥

रागखेमटा ॥ झलनचलोहिंदोरने, वृषभानुनंदिनी ॥
सावनकितीजआई, नभघोरघटाछाई ॥ मेघनझरील
गाई परेंबूंदमेदिनी ॥ सुंदरकदमकिडारी, झलापच्योहै
प्यारी, देखोकुँवरहहारीसबदुखनिकंदिनी ॥ पहरोसुरं
गसारी, मानोविनयहमारी, मुखचद्रकीउजारी, मृदु
हासफंदिनी ॥ मममानसीखलीजे, सुंदरनदेरकीजे,
हमतोविलोककीजतुहैगतिगयंदिनी ॥ शोभालखोबि
पिनकीफूलीलताहैवनकी, सुनअरजरसिकजनकी
करोंचरण वंदिनी ॥ १८ ॥

रागखेमटा ॥ हिंदोरेआज, झलतरंगरह्यो ॥ अचलसुहा
गसुभगश्यामाको, दिनप्रतिहोतनयो ॥ हरितभूमिंब
सीबटयमुना, सोसुखदृगनलह्यो ॥ रसिकप्रीतममिल
गावतभावत, ब्रजसबरीझरह्यो ॥ १९ ॥

रागखेमटा ॥ युगलबरझलत, देगरबाहीं ॥ वादरबर
सैंचपलाचमकै, सघनकदमकीछाहीं ॥ इतउतपोंगबढ़ा
वतसुंदर, मदनउमंगमनमाहीं ॥ ललितकिशोरी हिंदो
राझलै, बढ़यमुनालौंजाही ॥ २० ॥

रागरेखता ॥ झलनयुगलकिशोरकी, दिलमेंमेरेबसी ॥

बैठे हैं रंगहिं डोरना करतैं हैं समसी । फहरात पीतपटुका
 दुपटा जो छोरदार ॥ शिरपै सुरंगसारी, प्यारीके कयाल
 सी ॥ बेसरबुलाकबेनी दीने जो भालपै, हीरोंका हार उरपै
 कटिका छनीकसी ॥ जो बनके जोरशोरसौरमके वड़ाव
 तीं ॥ ललिता किशोरी श्यामकी, छवि देखके हँसी ॥ २१ ॥
 रागरेखता ॥ प्यारी प्रीतमके संग, झलें रंगहिं डोरना ॥
 दोखंभ हैं जड़ाऊ, जड़ेचितके चोरना ॥ डांडी मरुवेलगन
 लगी, बेलनअ भूलना ॥ पटुलीसंदलकी साफ, देखोखुव
 बनी ॥ लागे हैं उसके बीचमें, हीरा चुनीमनी ॥ चुंदरी घुंघ
 टकी ओटमें, नयना विशाल हैं ॥ खंजन भुलामनेके, घेर
 नको जाल हैं ॥ मुझको रसिकगोविंदकी, छविहीमें झलना
 प्यारी अनूपरूपको, दिलसे न भूलना ॥ २२ ॥

रागझिंझोटी ॥ श्यामाजी झलें, परिपारेखरपार ॥ गावत
 हैं ऊंचेस्वर, कोकिलरहीमौनमुखधार ॥ रमनकी दम
 कननगभूषण, शोभाविपिननिहार ॥ चौकीचमकन
 परडारूं श्वेतदामिनीवार ॥ थरकत हैं अतरस अतरोटा
 शिरपरसूहीसार ॥ खुबैबनी उरपीतकंचुकी, मुखपरश्र
 मकणबार ॥ सजनीरीझके सांवरी आई, झलनकोरिझवा
 र ॥ ताकेसंग झलत है प्यारी, करतअधिकमनुहार ॥ कौ
 नगामकयानामतिहारो, कहिये कृपाविचार ॥ तरुणन
 में अतिसुंदर प्यारी, चतुरनमेंबरनार ॥ ललिताकहे बो
 लरीसांवर, नातरदेहौ उतार ॥ राजसुतासंग झलन आई

दियोढीठडरडार॥डोरीगहिलीनीललिताने,दोऊदिये
उतार ॥ चितवनिचपलबलैयांलेवें,कोउपीवतजलवा
र॥सैननमेंसमझावतमुखसे,बचननसकेउचार ॥नंद
गामकीओरबतावें, उंचेहाथपसार ॥ अँचराकीसर
कनमें कौस्तुभ,,मणिकीपरीचिन्हार ॥ हरहरहँसतस
कलब्रजसुंदरि,यहवोहीखिलवार॥ नईपाहुनीआईझू
लन,बैठीघुंघुटमार ॥ बृंदावनहितरूपबलिगई, छद्म
नसकतउघार ॥ २३ ॥

रागझिंझोटी॥बांकीछबिसोंझूलतप्यारी ॥ बांकीआप
बिहारीबांके, बांकीसँगसुकुमारी॥बांकीघटाघिरीइत
चमकन, चपलाहूकीन्यारी ॥ ललितकिशोरीबांकीमु
सकन, बंकपोंगपरवारी ॥ २४ ॥

रागइमन॥झूलतकोश्यामाजूकेसँग, सखीसांवरीप्या
रीहै।कजरेनयनसैनसोंबतियां, अँखियनकोरकटारी
है॥जोबनजोरमरोरभौहकी,ललितकीशोरीवारीहै ॥
ललिताकरपरिहासकरीयह,नागरनंददुलारीहै॥ २५॥

रागइमन॥झोंकादीजोसम्हार, मेरीसारीनलटके।सघ
नकुंजद्रुमडारकँटीली,काहुछोरजिनअटके।उनबात
नअबभेटनहींकछु, औरधोखेजिनभटके ॥ललितकि
शोरीलालजाओघर, काहेकोचटमटके ॥ २६ ॥

रागपीलू ॥ सोतूराखलेरीझोंकातरभए॥इतनवकुंजक
दमलोंपरसत, उतयमुनालॉगए॥आवतजातलतानि

वारात, कुसुमवितानछए ॥ कल्याणकेप्रभुरीझिविव
शभए, झूलतनएनए ॥ २७ ॥

रागपीलू ॥ मेरोछांडदेअँचरवा, मैतो न्यारीझूलोंगी ॥
झोंकनकेमिसमोहनलँगरिया, अजहूँटहोकतनाभूलों
गी ॥ ललितासंगरँगीलेझूलें, झूलमनहिमनफूलोंगी ॥ ल
लितकिशोरीतरलपोंगकर, लालनतोसँगतूलोंगी ॥ २८ ॥
रागपीलू।खेमटेकीराहमें।कौनचढ़ेपहलेसुरंगहिंडोरे ॥
सोईकरतमनोहरहियहित, रमकदेतजोराजोरे ॥ गाव
तरागतानमधुरेसुर, कोटिकामचितचोरे ॥ रसिकप्री
त्मयहहोड़पियापरी, रीझदेततृणतोरे ॥ २९ ॥

रागपीलू ॥ चलोपियावाहीकदमतरेझूलें ॥ झुकीहैंल
ताअतिसघनप्रफुल्लित, कालिंदीकेकूलें ॥ बोलतमोरच
कोरकोकिला, अलिगणगुंजतभूलें ॥ ललितकिशोरी
मगबतलावें, कहकहवतियांफूलें ॥ ३० ॥

रागदेश ॥ चलझूलिये, हिंडोरेश्रीवृषभानुकीलली ॥
तेरेकाजआजइकमैने, बिरचीकुंजभली ॥ रत्नजडि
तकोबन्योहिंडोरो, कैसीडलाझली ॥ ब्रजबनिता
झूलतअनेकतहँ, एकएकनबली ॥ शब्दकरतजहँकी
रकोकिला, गुंजतमोरबली ॥ रसिकबिहारीकीसुन
बानी, तुरतहिँकुँवरिचली ॥ ३१ ॥

रागदेश ॥ आजबन्योरसरंगहिंडोरो, कदमतरे ॥ सघ
नलताझुकसुमनसुगंधन, अलिगणगुंजकरे ॥ वर्णव

र्णतनुभूषणचुनरी, श्यामाजूपहरे ॥ लाललड़ायचाय
हितचितसों, रूपसमुद्रभरे ॥ ३२ ॥

रागदेश॥ झूलोप्यारी आजनिकुंज, हिंदोरना ॥ बोलत
चातकमोर, पवनझकझोरना। सघनलतानिधिबनकी,
आजुसुहाई है ॥ श्यामघटनसों परत, बूंदसुखदाई है ॥ तै
सीहीदामिनिचमक, चमकछविछाई है ॥ मनोडरततु
अतेज, लाजदरशाई है ॥ हरितभूमिहुलसी, तुअआगम
जानके ॥ मनोबिछौनाकियो, मदनमदभानके ॥ ३३ ॥

रागदेश॥ चलोइकेले झूलेंबनमें, प्यारीमेरेपान ॥ तुमनई
नागररूपउजागर, सुखसागरछविखान। वर्णवर्णकेबा
दरछाये, मानोगगनबितान ॥ वर्षतबूंदसोईमोतियन
की, झालरशोभावान। बोलतखगसृगडोलतइतउत, सो
हींजातबखान ॥ रंगरंगकेफूलखिलेहैं, अमरकरतरसपा
न ॥ ऐसेसमयबिपिनसुखबिलसे, एरीपरमसुजान ॥ ना
रायणउठबेगिपधारो, कुलदोपकवृषभान ॥ ३४ ॥

रागदेश॥ झूलतश्याम, श्यामासंग ॥ अतितरंगशोभा
केमानो, लहतयमुनागंग ॥ झलकतभूषणजितचोरत,
श्यामगोरेअंग ॥ ललितकिशोरीहिंदोरनैपै, आजवर
सतरंग ॥ ३५ ॥

रागखेमटा ॥ आजदोउ, झूलतरंगभरे ॥ झोंकाखरेलेत
कबहुंकसखि, कबहुंहरेहरे ॥ कर्णफूलकुंडलमिलभेटत,
मानोशशिमीनलरे ॥ चंद्रमालहलकतउरराधे, हरिवन
मालगरे ॥ बिहसतदमकउठतदशनावलि, अबनीसुम

नझरे ॥ ललितकिशोरीटरतनलखिछवि, दृगशिशुअ
रनअरे ॥ ३६ ॥

रागदादरा ॥ सुनसखिआज, झुलननहिंजैहों ॥ श्या
मसुंदरपियारसलंपटहै, अतिहीठीठयोंदेत ॥ झोकात
रलकरेपाछेते, धायभुजनभरलेत ॥ चितवनचपलचु
रावतअनतै, हमेजनावतनेह ॥ रसिकगोविंदअभि
रामश्यामसँग, क्योंनजायरसलेह ॥ ३७ ॥

रागजंगला सिंधा ॥ बलिवलिजांदियां, झुलनपर ॥ प्या
रीपहरेकुसमलसारी, प्यारेकेमनभांदियां ॥ चहूंओ
रसबसखीझुलावें, झुकझुकझूठेखांदियां ॥ पुरुषोत्तमप्र
भुकीछविनिरखत, तनमननयनसरादियां ॥ ३८ ॥

राग कान्हरो ध्रुवपद ॥ फूलनकीचंद्रकलाशीशफूलफू
लनकी, फूलनकेझुमकाश्रवणसुकुमारीके ॥ फूलनकीवं
दनीविशालनथफूलनकी, फूलनकोविंदाभालराजतदु
लारीके ॥ फूलनकीचंपकलहारगलेफूलनके, फूलनके
गजराललितकरप्यारीके ॥ फूलनकीपगमेंपायलनारा
यण, फूलेफूलेभागसदालाडिलीहमारीके ॥ ३९ ॥ रागसा
रंग ॥ फूलनकेबंगलेमें, राजैपियाप्यारीहो ॥ फूलनकेभू
षणविचित्रसोहैं अँगअँग, फूलनकेवसनबदनछविन्या
रीहो । फूलसेमुखारीवदवचनहैं फूलनसम, फूलीसखी
तनमनशोभालखभारीहो । जैसोहीसमाजसाजआज
नारायण, मानोंकुंजभवनमेंफूलीफुलवारीहो ॥ ४० ॥

राग सोरठ ॥ गायचरायकेगिरिधन्यो, तुम्हेझूलनसम
झकहाहै ॥ अतिसुकुमारप्रियागौरांगी, तासँहझूलोही
चाहै ॥ हमजोसिखावेंतैसेहीसीखो, कहाफिरतहोभरे
ऊमँगहै। वृंदावनहितरूपबलिगई, ह्यांपायोकेवाँहै। ४१।

राग बड़हंसमलार ॥ हिंडोलनामेंकाँईछै, झूलोराज ॥
म्हाराझूलतहीयालरजे, रत्नजड़ितकेखंभजड़ाये अग
रचंदनकेपटारेशमडोरपधनपुरवैया, जुरआईसावन
कीघटा। श्यामाझूलेंश्यामझुलावें, कालिंदीकेतटा ॥ उ
ड़उड़अँचरापरतभुजनपर, निरखतनागरनटा ॥ ४२ ॥

रागगौरी ॥ झूलनहार, नईकौनहै ॥ श्यामाकेसँगरँग
भरीसोहत, सखीनबेल ॥ अतिसुंदरतनुसामरीमनो,
नीलमणिनकीबेल ॥ श्वेतकंपरोमांचहो, जानपरतकछु
और ॥ झुकझुकझोकनमेंमिले, हंसकुँवरजोईहोत ॥
निरखोझूलननेहकीसखी, चतुरशिरमौर ॥ हमजानी
जानीसभीसखी, यहझूलनकछुऔर ॥ सभीकछाँईना
गरी, दृगनसुधारसप्याय ॥ कपटरूपधरमोहनी, प्रगट
भईब्रजआय ॥ ४३ ॥

रागबरवासारंग ॥ तेरीझूलनअतिरससानीसुखदानी,
श्रीराधावल्लभलाडले ॥ गावतबजावतरिझावतप्रिया
को, तानतरंगनसबमिलआवरे ॥ सबशृंगारहारफूलन
के, प्यारीकोपहरावतमनमेंचावरे ॥ राधेबरकृष्णयाही
कृपाकर, विपिनबसावोअनतनजावरे ॥ ४४ ॥

कवित्त ॥ फूलनचंदो आतने फूलन फरश विछी, फूलनकी
सेज और फूल छवि छैरही ॥ फूलनकी गरे माल फूलन क
रन फूल, फूलनकोटीको मांग फूलन भैरही ॥ फूलन
के बस्र औ शृंगार सब फूलनके, विक्रम मृगेश मनु उप
भाव नैरही ॥ फूली फूलवारी जामे वैठी प्राणप्यारी अहै,
देखत बसंत या बसंत ऋतु हैरही ॥ ४५ ॥

कवित्त ॥ फूलनके खंभा पाट पटरी सुफूलनकी, फूलनके
फुंदने फंदे है लाल डोरे में ॥ कहै पदमाकर वितानतने फूल
नके, फूलनकी झालरें सुझूल झकोरे में ॥ फूलरही फूलन
सुफूल फूलवारी तहां, और फूलहीके फर्श फवे कुंजकोरे
में ॥ झूलझरी फूलभरी फूलझरी फूलनमें, फूलहीसी फूल
रही लफूकोहिं डोरे में ॥ ४६ ॥

इति हिंडोरा झूलन समाप्त ।

अथ गुरुमहिमाके दोहा ।

सद्गुरुचरणाहिं सेवते, टले त्रिविधविधि ताप ॥ परम
पदाहिं पावे पुनि, मिटे सकल परिताप ॥ १ ॥ गुरुसमदा
ताको उनहिं, गुरुही परम कृपाल ॥ गुरुगोविंदसे अधिक
हैं, गुरुकी मती विशाल ॥ २ ॥ गुरुके चरणनजोनमें, पा
पहोत हैं भस्म ॥ सेवासे सुकृतहु बड़े, गुरुगोविंदगणेश
॥ ३ ॥ गुरुदर्शनसे जात हैं, सकल पाप अरु दोष ॥ स
द्गुरुकी किरपा बड़े, काव्यबनै निदोष ॥ ४ ॥ सद्गुरु
की नींदा सुने, जाय नरकके द्वार ॥ जो निंदा मुखसे करै, क

भीनहीं उद्धार ॥५॥ सद्गुरुसेजे पावहीं, धरतको उअज्ञान
 न॥ नरनरके सीधावगै, करैकोटिगोदान ॥६॥ देखहिँ नारि
 कुदृष्टिजे, निरखे सद्गुरु आप। अंधहोयगी युवती, बहु
 तपरेपरिताप ॥७॥ गुरुनारायणरूपहै, गुरुज्ञानको घा
 ट ॥ सद्गुरुबचनप्रतापसे, मनकेमिटे उचाट ॥ ८ ॥
 गुरुभवसागरतारहीं, गुरुबचननिर्बान ॥ गुरुकेशब्दे
 जोचढ़े, प्रगटमिलें भगवान ॥ ९ ॥ गुरुसेवासुंदरभुमी,
 दर्शनवारंवार ॥ ओहिमगुप्रभुतुमथके, सतसंगतिसु
 खकार ॥ १० ॥ गुरुब्रह्मागुरुसरस्वती, गुरुगंगागुरुज्ञान
 न ॥ सद्गुरुकेसेवनथकी, टलेदेहअभिमान ॥ ११ ॥ गु
 रुकेगुणहुअथाहहैं, मुखसेकहेनजायँ ॥ शेषरटेंनिशिदि
 नपुनी, कबहूंपारनपायँ ॥ १२ ॥ गुरुमहिमागिनती
 किये, थाकेशेषमहेश ॥ शारदनारदअमरहू, प्रेमकरैप
 रवेश ॥ १३ ॥ मुनिजनगुरुकेचरणमें, मूकैंशीसनरेश ॥
 सद्गुरुनामसुधासमै, चाखतचतुरहमेश ॥ १४ ॥ सद्गु
 रुकेरेचरणको, परसचरणकोरज्ज ॥ चढ़हिअखिलब्र
 ह्मांडमें, सबसेहोतहैध्वज्ज ॥ १५ ॥ गुरुगुणगिनतीहो
 तनहिँ, सकलगुनीअभिराम ॥ पावनपदरजगुरुतणी,
 कहतहैपरभाराम ॥ १६ ॥

इति गुरुमहिमा समाप्त ।

अन्यविशेषपद ।

रागगजल ॥ जिनप्रेमरसचाख्यानहीं, अमृतपियातो

क्याहुआ॥ जिनइश्कमेंशिरनादिया, युगयुगजियातो
 क्याहुआ। मशहूरहूआपंथमें, सावितनकीयाआपको
 आलिमऔरफाजिलबना, दानाहुआतोक्याहुआ॥ दि
 लमेंदरदनहींपियाको, बैठामुशाइखहोयके ॥ दिलका
 रहटफिरतानहीं, तसबीफिरीतोक्याहुआ। औरांनसी
 हततूकरे, आपअमलकरतानहीं। दिलकाकुफरट्टान
 हीं, हाजीहुआतोक्याहुआ ॥ जबइश्ककेदरियावमें,
 गड़काबतूहोतानहीं ॥ गंगायमुनागोदावरी, पीपीजा
 करतेजोनीदिया॥ मतलूवहासिलनाहुआ, रोगमुआ
 तोक्याहुआ ॥

रागकाफी॥ नाजानूंमेरारामकैसाहै ॥ मुल्लाहोकेंवांग
 जोदेवें, क्यातेरासाहिववहराहै॥ कौड़ीकेपगनूपुरवाजें
 सोभीसाहिवसुनताहै ॥ मालापहरकेतिलकलगाया,
 लंबीजटाबढ़ाताहै ॥ अंतरतेरेकुफरकटारी, यूँनहिंसा
 हिवमिलताहै ॥ कौड़ीकौड़ीमायाजोड़ी, जोड़जमीपर
 धरताहै। चलनेकीजबत्यारीहोई, हाथपसारेचलताहै ॥
 हीराहोवेपरखदिखावे, कौड़ीपरखनतैसाहै॥ कहतक
 बीरसुनोभाईसाधो, हरिजैसेकोतैसाहै ॥

इति अन्यविशेषपद समाप्त ।

अथ जगन्नाथजीके भजन ।

भलेबिराजोजी ॥ ओड़ीसाजगन्नाथपुरीमें, भलेबिरा

जोजी ॥ बलिभद्रकेभैया ० ॥ टेक ॥ कबसेछोंड़ीमथुरा
नगरी, कबसेछोंड़ीकासी ॥ कलियुगमेंआइविराजो,
बिंद्राबनकेवासी ॥ ठा ० ॥ १ ॥ शतयुगछोंड़ीमथुरानग
री, द्वापरछोंड़ीकमशी ॥ कलियुगमेंआइविराजो, बि
ंद्राबनकेवासी ॥ ठा ० ॥ २ ॥ उड़ियामाँगेंखिचड़ी, बंगा
लीमाँगेंभात ॥ साधुमाँगेंदर्शन, महापरसाद ॥ ठा ० ॥ ३ ॥
दालरांधूभातरांधू, परवरकीतरकारी ॥ मछलीमारके
भोगलगावें, अधमजातबंगाली ॥ ठा ० ॥ ४ ॥ गांवगांव
मेंबागबगीचा, गलीगलीफुलवाड़ी ॥ घरघरदेखोकेला
नारियल, घरहीठाकुरवाड़ी ॥ ठा ० ॥ ५ ॥ दोदोकोशपर
अँटालगाया, पांचकोशपरचट्टी ॥ चलतेचलतेपांवपि
राने, शरीरहोगयामट्टी ॥ ठा ० ॥ ६ ॥ चट्टीचट्टीबनियालू
टैं, औरलूटैंफिरंगी ॥ सिंहदरवाजेपंडालूटैंयात्रीभये
उदासी ॥ ठा ० ॥ ७ ॥ सोलाहाथकीसाड़ीपहेरेंऊपरधरेकि
नारी ॥ सासुससुरकीलाजनराखें, आधीटांगउघारी ॥
ठा ० ॥ ८ ॥ बंगालीकीबेटीपरमसुंदरी, उनकीलंबीचोटी ॥
भावभक्तिकोमर्मनजानें, उनकीगर्दनमोटी ॥ ठा ० ॥ ९ ॥
नीलचक्रपरध्वजाविराजे, मस्तकसोहेहीरा ॥ ठाकुर
आगेदासीनाचैं, गावेदासकबारा ॥ ठा ० ॥ १० ॥ १ ॥

इति श्रीजन्नाथजीके भजनसंपूर्ण ।

अथ होली रंचक ।

होरीखेलतसंतसुजान, आत्मारामसों ॥ टेक ॥ कर्मलोग

खेलें सब कर्म नसों, खरच किये बहुदानसों ॥ १ ॥ होरी० ॥
 भक्त लोग खेलें शंभुरूपसों, ध्यानी खेलें सब ध्यानसों ॥ २
 ॥ होरी० ॥ भिक्षु अहर्निश ब्रह्मविचारें, ख्याल नहीं दूजे
 कामसों ॥ ३ ॥ होरी० ॥ नारायण भिक्षु अलख निरंजन,
 मगन भये पूर्ण ज्ञानसों ॥ ४ ॥ होरी खेलत संत सुजान आ
 त्मारामसों ॥ १ ॥

ऐसी संतों ने धूम मचाई, मुर्जये भर्म की उड़ाई ॥ टेक। काम
 क्रोध ये इस हीनगर में सब दिन हैं दुखदाई ॥ लोभ मोह ये
 पाय कइनके, निशि दिन करत लड़ाई, धर्मसों ठहराई ॥ १
 ऐसी संतों ॥ इस हीनगर के दसदवाजे सब दिन ठाढ़े सि
 पाही ॥ दया धर्म काल गावन हीं है नीचों ने धूम मचाई ना
 थ बिसराई ॥ २ ॥ ऐसी संतों ने ॥ भर्म बुरज के पांच कोट हैं
 अपनि भूल है खाई, लड़नेवाला कैसे लड़ेगा, होवेंगे नाथ
 सहाई करो नाचड़ाई ॥ ३ ॥ ऐसी संतों ने धूम ॥ शमदम
 साधन बारूद बनाया धर्म कितो पबनाई । जपतप गोला
 भीतर डारा सतके तखत चड़ाई सूधि मैंने गढ़को लगाई ४
 ऐसी संतों ने ॥ गुरु शरण होवा क्य सुनावै ज्ञान की बाती
 जराई । फूंक पलीता दिया वाही क्षण मैं, ध्यान की शिस्टि
 लगाई । बुरज मैंने जड़सों उड़ाई ५ । ऐसी सं० । तत्व विचार
 किया सब दिन मैं युक्ति करी है सहाई, खोजत खोजनि जा
 नन्द पाया, मन की तपन बुझाई, शांति मैंने अबहीं पाई
 ऐसी सं० । जीव ब्रह्मको एक समझ कर, एक हि सुरत लगाई

जन्ममरणयेदोनोहिंमेटे, भेदकिग्रंथिउड़ाईनाथमैरहे
समाई ॥ ७ ॥ ऐसीसं० ॥ नारायणभिधुअलखनिरंजन
एकहिदेतदिखाई, अपनेरूपमेंसदाहीमग्नहैं, मुक्तिपर
मपटपाईवेदसबचारोंनेगाई ॥ ८ ॥ ऐसीसंतोनेधूममचा
ईबुर्जयेभर्मकीउड़ाई ॥ ९ ॥

इति होलीरंचक ।

अथ भजनविलास ।

शंकरध्यानधराजबमनसे, डूबतनावउबारीहैजी।टेक
भवसागरयेगहिरबहुतहै, लहरीयाकीभारीहैजी।नाव
पुरानीकोइनहिंखेवट, अबगतिकवनहमारीहैजी ॥ १ ॥
शंकरध्यान० । गलहमरेमेंबहुतबखेड़ा, पोटधरीशिर
भारीहैजी ॥ तुमबिनस्वामीकौनउतारै, अबयहीअर्ज
हमारीहैजी ॥ २ ॥ शंकर० ॥ ध्रुवउतरेप्रह्लादउतारै, गौत
मनारीउतारीहैजी।गरीबकहैकरजोड़ेस्वामी, अबकी
बारहमारीहैजी ॥ ३ ॥ शंकर० ॥ कामक्रोधयेसबहीछोड़े,
शंकरओरसंभारीहैजी ॥ रटतरटतशिवशंकरजागे, म
मताठगनीमारीहैजी ॥ ४ ॥ शंकर० ॥ एकनिरंजनघटघट
राजै, अद्भुतजोतउजारीहैजी ॥ जिनजानासोइपारभ
याहै, ग्रंथीभेदविदारीहैजी ॥ ५ ॥ शंकर० ॥ चिदाकाशआ
नन्दआपतू, आपहिखेलखिलारीहैजी।नारायणजबऐ
सेजाना, कवनगतीतबन्यारीहैजी ॥ ६ ॥ शंकर० ॥ १ ॥

इति भजनविलासः ।

अथ चेतावनी ।

सवैया--छोंड़िसवैभ्रमजालकुचालसुकामऔक्रोधको
 दीजैबहाई ॥ वृषभानुकुमारिकोनामजपौतुमकोसब
 ठौरजेहोतसहाई ॥ पुत्रऔदारासवैपरिवारसोस्वारथ
 हेतरहेलपटाई ॥ प्रियादासगोपालकीभक्तिगहौनरदेह
 धरेकोयहैफलभाई ॥ १ ॥

राग (विलावल)--सबतजिभजोकृष्णसुखदाईआगे
 होहिसहाई ॥ आस्ताई॥नरतनुकोअबसुकृतयहीहैभ
 जोश्यामसबकामबिहाई॥ रसिकनकीसेवाचितधारौ
 जोकछुबनैबनाई ॥ विषयिनकोअबसंगछोंड़्योवैठोर
 सिकनकेढिगजाई ॥ कामक्रोधमदलोभमोहतजिहरि
 केचरणचितलाई ॥ नितप्रतिचरितश्यामश्यामाकेसु
 नोसोप्रीतिबढ़ाई ॥ भक्ष्याभक्ष्यभोजनकोत्यागौहरि
 प्रसादलेवपाई ॥ जिनजिनसुमिन्योनामश्यामको ति
 नकोगयोदुखद्वंद्वनशाई ॥ प्रियादासतुमश्यामनामग
 हौअरुसबदेवबिहाई ॥ १ ॥

राग-(गौरी) अबमनकाहेफिरतभुलाना,काहेकोदेखि
 लुभाना॥आस्ताई ॥ भाईबंधुकुटुंबनरनारीसोतूआप
 नजाना ॥ इनकीप्रीतितबैलगितुमपरजबलगिलायख
 वाना॥धूतिधूतिधनइन्हैखवावतअपनाऔरविराना
 ताकोजवाबकहातूदेहैजाकेआगेजाना ।वृद्धापनकीख
 बरनहींतोहिँज्वानीमेंबनादिवाना ॥ कालबलीसँगही

सँगडोलैउससेकठिनबचिजाना ॥ करुकछुधर्मसंगर
सिकनकोतौतूबड़ोसयाना ॥ प्रियादासतूयुगलचरणग
हुछोंडदेअपनाविराना ॥ २ ॥

राग-(रामकली)-मनतोहिंसूझतनाहिंअगारी ॥ पग
क्योंधरतपिछारीआस्ताई ॥ जहंसतसंगतहांअतिआ
लसपरनिंदाअतिप्यारी ॥ विषयकर्ममेंप्रीतिबड़ावतता
हीमेंरुचिभारी ॥ कर्मधर्महरिभजनभावतजिसोवतपां
वपसारी ॥ यहभवनिधिकोकैसेतरिहौसोऊकछुलेववि
चारी ॥ देहेंदुखयमराजमूढसुनतिनसोंकहिहैकामुखते
उचारी ॥ प्रियादासब्रजबासकरौअबकुमतिकोउरते
टारी ॥ नातरहैहौखराबजगतमेंनरहंसिदेहैंतारी ॥ ३ ॥

राग(भैरवी)-सबतजियुगुलनामचितधारो ॥ झूठज
गतव्योहारो ॥ आस्ताई ॥ मातपिताभ्रातासुतनारीइ
नमेंकोईनतिहारो ॥ धूतिधूतिधनग्रामदेशतेनाहकइन
मेंडारो ॥ कामक्रोधमदलोभमोहअरिइनतेकरौकिना
रो ॥ करिकछुधर्मरसिकजनसेवायेनरतनुकोतारो ॥
मायामोहमेंफँसोरहतहैजन्मपायकेतूनेबिगारो ॥ तजु
परपंचझूठकेझगड़ेसबसेकरोकिनारो ॥ भवसागरयक
कठिनमार्गहैताकोउरहिसँभारो ॥ प्रियादासतजिआ
शजगतकीब्रजमंडलहिसिधारो ॥ ४ ॥

राग-(श्यामकल्याण)- जोकछरहीसोताहिसँभारो ॥

आस्ताई ॥ नातरजातजातनहिंजानतपीछेहैविगा
 रो ॥ श्यामाश्यामसौनेहलगावोसबतेकरौकिनारो ॥
 प्रियादासब्रजबासकरौचलिअबविलंबजिनधारो ५
 सबैया ॥ प्रातसमयउठिकैमनरेवृषभानुसुतापदनेहल
 गावो ॥ छोंड़िसबैछलछंदनकोनँदनंदनकीशरणागत
 जावो ॥ ऐहैनकामकोऊतुम्हरेजिनकेलियेरातदिनातु
 मधावो ॥ प्रियादासबिचारकरौउरमेंहरिभक्तिविना
 सबकालगँवावो ॥ २ ॥

राग-(परज)-मनतुममेंसबभरीखोटाई ॥ आस्ताई ॥
 ऐसोकपटभन्योहैगोतूज्योंमेंहदीकेपत्रललाई ॥ कवहूँ
 नामनश्यामकोलीन्होंनहिरसिकनसेवकाई ॥ विषय
 नसोंयोंधायमिलतुहैजैसेसगीलुगाई ॥ परनिंदातोहिं
 अतिप्रियलागतजैसेदूधमलाई ॥ लीलाचरितश्या
 मश्यामाकोसुनतमहाकरुआई ॥ प्रियादासकछुसमु
 श्लिबूशिकैऐसीकुमतिकोंदेववहाई ॥ ६ ॥

गजल ॥ छोंड़िसबभ्रमजालकोनँदलालपदध्यायाकरो।
 औरहूइनकीप्राणप्यारीकाचरितगायाकरो ॥ दूरिकर
 विषयिनकिसोहबतख्यालकरकेदेखलो ॥ जेरसिकरा
 धानामकेतिनकेनिकटजायाकरोजोकरैंउपदेशवेसो
 तुमसुनोचितलायकै उनसभोंकेसारकोहिरदेमेंबसा
 याकरो ॥ जेकुटुंबीदेहकेतिनकेनिकटतुममतरहो ॥ मो
 हकीफुसकारइस्सेतोभीडेरायाकरो ॥ खातेपीतेसोतेच

लते ऐश औ आराम मैं ॥ नाम राधेश्याम को मत भूल में ला
या करो ॥ प्यारी लगी है तुझे जो सूर ते इन्सान की ॥ तो प्रिया
प्रीतम की सूरत को भी लखाया करो ॥ आस कर ब्रज बास
की बृंदा बिपिन की कुंज में ॥ तो सुनो प्रिया दास तुम विन
ती को सुनाया करो ॥ १ ॥

कवित्त—श्यामा श्याम सहाय लखौ प्रिया दास सुनो सब
भांति तिहारे ॥ दीखत नाहिं तुम्हें कछु हूनि जसंकट ते तु
म्हें वेई उबारे ॥ ताहू पै तू तजि भक्ति गोपाल की और न पै श
ठ हाथ पसारे ॥ नेह करौ प्रिया प्रीतम के पद होव सबै परि
वार सौं न्यारे ॥ १ ॥

राग—(जै जै वंती) यह धन मति मोहिं देव कन्हाई ॥ आ
स्ताई ॥ या धन के बाधक बहु दीखत विश्व चोर गृह लोग लु
गाई ॥ बैर भाव सब से है जै है करि है अधिक लराई ॥ धर्म
कर्म सब ही छुटि जै है जब ये धन गृह आई ॥ उर बिच शोक
संताप अधिक अति रक्षा हित सौं कोटि उपाई ॥ नाम प्रभू
को याद न ऐ है नेम प्रेम सब जै है भुलाई ॥ यह आपदा देख दु
ख लागत बार बार मन मेरो डराई ॥ ऐसो धन लै काह करौ
प्रभु जामें बहु संताप दिखाई ॥ प्रिया दास धन नाम श्याम
को बाधक नहिं कोउ चोर चवाई ॥ ७ ॥

राग—(सहानो जौ नपुरी) मन सुन कृष्ण नाम धन भारी ॥
सोक यों न धरत सिधारी ॥ आस्ताई ॥ या धन को कोउ चो
र नहीं है चहौ तहां दे धारी ॥ राति व्यतीत प्रात उठि जल्दी

सोमनलेहोसम्हारी॥वाधनकोतोबांटिलेतहैंलोगकुटु
म्बनरनारी।याधनकोतोबिरलोग्राहकजापैकृपाकरत
बनवारी।तातेकृष्णनाममणिकरमेंगाहिलेकांचैदेतूडा
री॥वाधनकेतोहिंचोरबताऊंसुजनरसिकअतिभारी।
तिनसज्जनकेपासबैठिहौतौमिलिहैधनभारी ॥ प्रिया
दासतोहिंबहुसमुझायोआगेखुसीतिहारी ॥ ८ ॥

कवित्त-श्यामाश्यामसौनेहलग्योफिरिदेहकीलाज
सोंकाजकहारी ॥ पारसपायअकिंचनज्योंफिरिराज
औपाटकीचाहविचारी॥ त्योंप्रियादासगोपालकीभ
क्तिगहीजिननेतिननेहीसम्हारी ॥ नातरकालकेगाल
मेंजायबिलायजैहैयहदेहहूसारी ॥२॥

उपदेश.

राग-(खेमटा) जोकोउराधानामकोध्यावे ॥ आस्ता
ई ॥योगयज्ञजपतपत्रतकोफलबिनप्रयाससोपावे॥जी
वनमुक्तसोईयहिजगमेंचरितकुँवरिकेगावे ॥ छटिजा
यसतअसतभावनावासकुंजमेंपावे ॥ प्रियादासरसि
कनमुखबानीभेदयेवेदबतावे ॥ ९ ॥

राग-(परज)लाड़िलीपरमकृपाकीखान॥आस्ताई ॥
भक्तनहितब्रजमेंसोप्रगटीगावतवेदपुरान ॥ रसिक
अनन्यनकोबिनश्रमहीदेतीपदनिरवान ॥ निजनिकुं
जमेंसदासखिनसँगकरतयुगुलयशगान॥प्रियादासत

वशरणकुर्वरि की फिरि चाहत कल्यान ॥ ताते बसौ बेगि
श्रीवनमें तजि कुलको अभिमान ॥ १० ॥

राग-(भैरवी)-प्रेमपाय फिरि गृह तजि जइये ॥ आस्ताई ॥
आंखीमीचि निकसि घरते रेरा धारा धागइये ॥ करिये
वास विपिन गहवरमें यमुना नित्य नहइये ॥ अनुभव
करौ युगल लीलाको सोर सहदय बसइये ॥ प्रियादास
गृहकी कोचालै ग्रामदेशना अइये ॥ ११ ॥

खेमटा-बिन ब्रजवास दुःख अति भाई ॥ आस्ताई ॥ र
सिकनको तो ऐसे है गोसोनहि सकत बताई ॥ स्वपनेहुदं
पतिकी लीलाको होत जो अनुभव आई ॥ तो फिरि ऐसी
दशापिंजरा में जैसे खग अकुलाई ॥ नाहि संगतरसिकन
की स्वपनेहुयहो महादुखदाई ॥ स्वपनेहुदं पति चरित श्र
वण नाहि की जै कौन उपाई ॥ प्रियादास ताते रसिकनहि
तबृन्दावन है परम सुखदाई ॥ १२ ॥

राग-(भैरवी)-संगति रसिकनकी सुखदाई ॥ आस्ताई ॥
काम क्रोध मद लोभ नव्यापत और मोहकी कौन चलाई ॥
अनुभव प्रगट होत लीलाको जब वे कहत सुनाई ॥ कुंजम
हलको चरितामृत जो श्रवण मार्ग है देता पि आई ॥ औरहु
लखि जिज्ञासु आरतीदं पति छवि देह गन बसाई ॥ प्रिया
दास कहै हम अधमनको तिनके दर्शन दुर्लभ भाई ॥ १३ ॥

राग-(भैरवी)-की जै रसिकनको सहवास ॥ आस्ताई ॥
जेनि तचरित युगलके गावत प्रेमानंदहुलास ॥ औरहु गुप्त

केलिरसकोयशअनुभवहितहैतोहिंप्रकाश॥ निशिवा
सरआनंदमेंबीततदुखनाहिंआवतपास ॥ प्रियादासक
हैयेईदृगनसोंनिरखोगेफिरियुगुलविलास ॥ १४ ॥

राग-(देश)प्रियाप्रीतमकोदूरिनिवास ॥ आस्ताई ॥

ऐसेजायसकतनाकोऊवृथाकरतहैआस ॥ संगतिकर
तहौडोमनकेरीफिरिराजासहवास ॥ विष्ठाकोटवैठिदुं
दतहौकेंवड़ाकेरिसुवास ॥ प्रियादासदिनकररसिकन
बिनहोइनमोहतमनास ॥ १५ ॥

राग-(पूर्वी) हमेंइनबातनसोंकाकाज ॥ आस्ताई ॥
भलेहीशीलसमुद्रमेंडूबोपरैलाजपैगाज ॥ बनीरहैयक
प्रीतिअचलमेरीजासेमिलंब्रजराज ॥ प्रियादासउन
बिनसबअटकीरसिकनकेसिरताज ॥ १६ ॥

राग-(इमनकली)-एतेगुणजामेंसोईरसिककहावे॥ आ
स्ताई ॥ एकनामप्रियाप्रीतमकोहीअष्टयामजोगावे॥
सुनिलीलाअनुभवताकोकरिदृगनसोंनिरबहावे॥ चरि
तविशदवृषभानुकुर्वरिकेविमलविमलजोगावे ॥ प्रि
यादाससंगतिरसिकनकीऔरहिंदेखिडेरावे ॥ १७ ॥

कबित्त-होतप्रभाततेसांझसमयलगिखोवतहौ तुमका
लवृथाहीं ॥ बूझेबिनातुमकाहूसेबातकहौहितसोंकोउं
मानिहैनाहीं ॥ राधिकानामकीजापकरौअहैठाकस
बैविधिवेदबताहीं ॥ भावेतुम्हारेकरौकुछकोऊसोमौ
नगहौप्रियादासमनाहीं ॥ ३ ॥

कुंडलिया--करिनिश्चयको अनन्यव्रत, साधोचतुरसु
जान॥ श्रीराधाकी शरणबिन, अंतनहीं कल्यान॥ अंतन
हीं कल्यान वृथा भरमतहो भाई॥ नाहक देखतशास्त्रकेश
करिदृष्टिलगाई ॥ प्रियादासप्रियानामसुधाकोमुखेल
गावो॥ जपतपव्रतसबनेमइन्है अबमाथनवावो॥ १ ॥ कुं
डलिया-अबहूंकरुकुछप्रीतिको, प्रियप्रीतमकेमाहिं ।
हैहैसुखदुखछटिहै, संशययामेंनाहिं ॥ संशययामें
नाहिं प्रेमसोंजोपैगैहो ॥ यहमुखराधानामछोंड़िकुछ
औरनकैहो॥ तौपैहोब्रजबासमध्यबृंदावनकेरो॥ प्रिया
दासमुखभयोतहांरसिकनकोचेरो ॥ २ ॥

राग-(इमनकली) सोइअनन्यजेहिंमतिअसभाई ॥
॥ आस्ताई ॥ श्रीराधाकोचरितमनोहरगावतमोदबढ़ा
ई ॥ बासकरतबृंदावनभीतरभूलिनबाहरजाई ॥ अन्य
ग्रंथमतचरितविलोकतदूरिहितेसकुचाई ॥ प्रियादास
ऐसेनकीसंगतिकीन्हेबहुतभलाई ॥ १८ ॥

कुंडलिया--रसिकअनन्यनकीचलन, काजानैमतिमं
द ॥ श्रीराधाकेशरणतजि, श्यामचौथकोचंद॥ श्याम
चौथकोचंदऔरकहुँलेखेमाहीं॥ तजिबृंदावनबासऔ
रतीरथजेजाहीं॥ करतेअमृतछोंड़िवारिकोघररधाहीं।
प्रियादासकविरसिकहमेंतोदीखतनाहीं ॥ यहमुख
राधानामऔरस्वपनेहुनहिकाहीं ॥ ३ ॥

राग-(इमन) वाछबिकबममदृगदरसैहो ॥ आस्ताई ॥

हैं त्रिभंग बंसी बटन टवर मुरली मधुर बजै हो ॥ गोपिन त्रु
थ मध्य निरतौ गे राग अनेक नगै हौ ॥ प्रियादास प्रभु भानु
कुंवरि कर पाग के पै चकसै हौ ॥ १९ ॥

राग-(इमन देश) करौ कृपा वृष भानु नंदिनी हरो दुःख
सब मेरे ॥ आस्ताई ॥ निशि वासर विषया बश भरमत हो
तलो भके चरे ॥ निज स्वारथ हित कहँ लौं कहाँ मै रचत उ
पाय घनेरे ॥ जो अनुभव लीला को करन चहाँ बाधा को टि
न घेरे ॥ प्रियादास सो छटि जांयगे को रनै न की हेरे ॥ ३७ ॥

राग-(परज) कुंवरि कछु सुनिये अर्जह मारी ॥ आस्ताई ॥
जो तुम सुनो कहाँ तो मुख ते नही रहँ चुप धारी ॥ जानि गड
वकी हमहि कहँ फिर अपने मुखहि उचारी ॥ धन संपति सु
त सुख नहि मांगत कुंज महल की टहल दुलारी ॥ प्रियादा
सके उर अंतर की मनसा पुजवो भानु कुमारी ॥ २० ॥

कुंडलिया-व्रत अनन्य सब ते कठिन, ज्यों खाँड़े की धार।
ताते जो बचि जाइ गो, लखी सोयु गुल बिहार ॥ लखी सोयु
गुल बिहार कुंज महलौं में जाई ॥ औ गोपिन को संग महा
मंगल सुख दाई ॥ प्रियादास ते अली सबै कुछ देत शिखा
ई ॥ केलि कुंज की टहल और दर्शन अधिकाई ॥ ४ ॥

राग-(बिलावल) मन की पीर मनहि पहिंचाने ॥ आस्ता
ई ॥ जो मै कहाँ यत्न को टिन ते तौ को उसांचन माने ॥ ता
ते मौन भये हम बैठे दुख के हाथ बिकाने ॥ बिना कृपा भये
कुंवरि लाल के टरि हैं न दुःख सयाने ॥ है अति गुप्त भाव जो

चाहततापैबजतदिवाने ॥ प्रियादासकहैपीरप्रसूतीबां
झताहिकाजाने ॥ २१ ॥

राग-(कल्यान)-यातेमोहिँराधाकोनामप्रियभाई ॥
॥आस्ताई॥ जपतपयोगतीर्थनहिँकीन्हेनाहिँसमाधि
लगाई॥ दानपुण्यस्वपनेवनहिँकीन्होजागतकीतौकौ
नचलाई ॥ परनिँदापरदाराताकीपरधनहँयोकरि
कोटिउपाई ॥ ऐसेनपैनिरहेतुकृपाकरिलियोहमैंअप
नाई ॥ लीलाकुंजमहलकीअद्भुतसोसबदियेदरसाई॥

गूढचरितजेयुगुलकेलिकेसोसबउरमेंदियोबसाई ॥ ता
कोअनुभवकरतसदाहीआनंदप्रेमबढ़ाई॥ प्रियादासये
नामस्वप्नमेंधँयोअलिनकीआज्ञापाई ॥ तबतेजपत
रहतनिशिवासरउरअंतरहर्षाई ॥ २२ ॥

गजलारसिकोंकीसोहबतकेअसरकीअबमजाआनेल
गी॥ लीलासुश्यामाश्यामकीवोअबहमैंभानेलगी॥ छौं
इकेपरपंचबाँतैयेजबाँमेरीजोहै ॥ खूबमजेऔँप्यारसे
घनश्यामगुनगानेलगी ॥ सबतरफसेखींचदिलकोला
केअपनेकाबूमें ॥ लाडिलीऔँलालकीसूरतपैललचाने
लगी॥ चलतेफिरतेखातेपीतेऐशऔँआराममें॥ सबतर
फसबयाममेंअबनेहसरसानेलगी ॥ आँखेंभीयेउदास
होकहतीहैंप्रियादाससों॥ प्रेमकेउमड़ेहैंबादरपानीबर्षा
नेलगी ॥ २३ ॥

राग-(खेमटा)अबडरनहिँ निर्भयहमभाई॥आस्ताई॥
भलेहीहँसैलोगसबमोकोकहिकहिचोरचवाई ॥ कहि

कहिभ्रष्टतजैसबमोकोभलेहीलोगलुगाई ॥ तजैनएक
रसिकजनमोकोअंतसमयलगिजेसुखदाई ॥ जेचरित्र
देवनकोदुर्लभसोसबकहतसुनाई ॥ प्रियादासब्रजवा
सहोनकीतिननेयुक्तिबताई ॥ २३ ॥

राग-(जिला) येकनहिंमानैगेकिसीकीवृंदावनजाते
हैं ॥ आस्ताई ॥ तोड़ताड़दुनियाँकेझगड़ेऔरसभीसे
नातेहैं ॥ कहनेदोकुछडरनहिंहमकोभलेहीपागलवना
तेहैं ॥ भलेहीपागलऔरदिवानेपैर्यामागुणगातेहैं ॥
प्रियादासकुछदिनकेतुम्हरेफिरतोजिनकेकहातेहैं।उ
न्हीकेधाममेंजायबसैंगेवेहमेंखुदीबुलातेहैं ॥ २४ ॥

राग-(आसावरी योगिया) भैयामेंतोवर्षानेकोजैहों
आस्ताई ॥ करिहोंनिवासनिकटगहवरवनभानुसुता
कोनहैंहों ॥ जूठठूकब्रजवासिनकेलैखायकैदिवसवितै
हों ॥ सिंहपर्वरिकीझाड़ूदेहोंरजलैअंगचढ़ैहों ॥ प्रिया
दासवृषभानुनगरतजिअंतकहूंनारैहों ॥ २५ ॥

राग-(परज) हमतेनाहकनेहबदावत ॥ आस्ताई ॥ स्व
पनेवकामतिहारेकेनहिंनहकमोहसरसावत ॥ एकना
मराधाकोतजिकैऔरनकहसोहावत ॥ प्रियादासबां
धेनहिंरैहैंयहनिश्चयउरआवत ॥ २६ ॥

राग-(इमन) देहसंबंधिनतेपरनाम ॥ आस्ताई ॥ अबल
गिरहिसुखपायोंतुममेंबसितुम्हरेहीधाम ॥ भईमेज
वानीबहुतदिननकीअबजैबेनिजगाम ॥ वृंदावनऔर

रसिककुटुंबीजिनमुखराधानाम॥प्रियादासतिनकेठि
गरहिकैअनुभवकरिकरिवेबिसराम ॥ २७ ॥

कवित्त॥रोजठिगेमतिकाहूकेजावभलीविधिवातयेहै
सुबिचारी ॥ मानकीहानिनितैप्रतिहोतसोप्रीतिकारी
तहूहोतहैन्यारी ॥ तातेरहौप्रियादासजुदूरियेवातसबै
विधिमानिहमारी ॥ मूरखजानतहैमनमेंअकिआवत
स्वारथकेहितकारी ॥ ३ ॥

गजल-फिदांहमउसपैहैयारोजोगायोंकोचराताहै॥अ
जबक्याखूबसूरतहैगजबवंसीबजाताहै ॥लियेसंग्गवा
लबालोंकोविपिनमेंधूमताहर्दम ॥ मजाकीमस्करीहां
सीकेखेलोंकोखिलाताहै ॥ दगामेंभूलगरगोपीबगरउ
स्मेंजोआनिकली॥मगरझटधायकैमोहनझगरदधिल
टिखाताहै ॥ लुटासबहीदहीउनकाखड़ाहोदूरफिरजा
के॥लगाकेगवालबालोंकोऔगालीखूबदेताहै ॥कभीय
कलेहुएबनमेंतोक्याहीखूबकहेनाहै ॥चरित्तरलाड़िली
जीकेबिबिधमुरलीमेंगाताहै॥लगाकेध्यानदंपतिकादृ
गोंसेजलबहाताहै॥लखीजबरूवाबमेंमूरतमुझेअबकुछ
नभाताहै॥कहैप्रियादासबसक्याहैगरजहमेंरोयआता
है ३गजल-युगुलदरबारमेंहमनेभीअर्जीयकलगाईहै॥व
जाक्याहैकहोकोईकिअबतकनासुनाईहै ॥नहींकुछभू
लहैउनकीकिजिनसेमैलिखाईहै ॥हैवाकिफकारकामों
केवकालतउनकीआईहै॥मिहंतानाकियवजीमेंचरण

कीसेवकाईहै। नहींकुछदोषहैउनकायेकिस्मतकीबुराईहै। करतेहैंजोरदुश्मनयेबड़ा लोभजिनकाभाईहै। भजनऔंभावमेंहमसेमजाकीकरतेआईहै। रसिकजनगवाहैंमेरेकुटुंबीउनसहाईहै। बोलाकेपूछोरसिकोंसेकिकिस्कीयेबुराईहै। अजीप्रियादासकोदीखतनश्यामाकरमेंपाईहै॥ नहींतोपढ़केसबवातेबोलातीमेंगवाईहै ॥४॥ गजल-जागीहैकिस्मतमेरीदिननीकेअबआनेलगे ॥ हरतरहसेनीकेपनकीसूरतकोदिखानेलगे। देखकेमुखफेरतेथेजोरसिकजनएमुझे ॥ बड़ेअबप्यारसेनिजतीरबैठानेलगे ॥ करतेथेहांसीमजाकीऐशकोविषयोंकेघरजानेलगे॥ उनसबोंकोदूरिकररसिकोंकेघरजानेलगे॥ रातदिनखानाकमानाऐशबाजीकेलिये ॥ खैरतबसेअबकुछीदिनभजनमेंजानेलगे ॥ भातेथेठुमरीऔंरटप्पाख्यालबाजोंकेकहीं॥ अबतोकरकेप्यारकोश्यामाश्यामथशगानेलगे ॥ देखकेनारीकिसूरतहोतेथेउस्पैहमफिदां॥ अबतोश्यामाश्यामकीसूरतपैललचानेलगे। सूंघतेथेलाससेकेवड़ागुलाबोंकाअंतर ॥ अबतोकुछखुशबूरसिकताकेभीहैंआनेलगे ॥ मैंकहांतकअबसुनाऊंहैइबारतयेबड़ी॥ प्रियादासकीआखोंमेंश्यामाश्यामझलकानेलगे ॥ ५ ॥

कवित्त ॥ ध्यानमेंमेरेश्रीराधिकानामहैगानमेंराधिका नामकोगाऊं ॥ आननतेकड़ेराधिकानामसोबारअने

कपहीबरपाऊं ॥ तीरथमेरेश्रीराधिकानामहैराधिका
नामहिकोमैहनाऊं ॥ प्रियादासकीआसयहैविसवास
सोकुंजकेवासपैचित्तरमाऊं ॥ ९ ॥

अथ सुंदरदासकृत सवैया ।

प्रेतभयोकिपिशाचभयोकिनिशाचरसोजितहीतित
डोलै ॥ तूअपनीसुधिभूलिगयोमुखतेकछुऔरकिऔ
रहिबोलै ॥ सोइउपायकरैजुसरैपचिबंधनतौकबहूँन
हिंसोलै ॥ सुन्दरजातनुमें हरिपावत सोतनुनाशभ
योमतिमोलै ॥ १ ॥

पेटतेबाहेरहोतहिबालकआयजुमातुपयोधरपीनो ॥
मोहबँध्योदिनहीं दिनऔरतरूनभयोतियकेरसभी
नो ॥ पुत्रप्रपुत्रबँध्योपरिवारसोंऐसोहिभाँतिगयेपनती
नो ॥ सुन्दररामकोनामबिसारिसुआपहिआपकोब
ंधनकीनो ॥ २ ॥

देहसनेहनछाँड़तहैनरजानतहैथिरहैयहदेहा ॥ छीजत
जातघटैदिनहींदिनदीसतहैघटकोनितछेहा ॥ कालअ
चानकआइगहैकरठाहगिरायकरैतनखेहा ॥ सुन्दरजा
नियहैनिहचैधरि एकनिरंजनसोंकरुनेहा ॥ ३ ॥

तूकछुऔरबिचारतहैनरतोरविचारधरोहरिहैगो ॥ को
टिउपायकरैधनकेहितभागलिख्योतितनोहीलहैगो ॥
भोरकिसाँझधरीपलमाँझसुकालअचानकआइगहैगो

॥ रामभज्योनकियो कछु सुकृत सुन्दर यों पछिताइर
हैगो ॥ ४ ॥

वैश्रवनारसना मुखवैसाहिवैसाहिनासिकावैसाहिअंखी
॥ वैकरवैपगवैसबद्वारसुवैनखशीसहिरोमअसंखी ॥ वै
सहिदेहपरीपुनिदीसतएकविनासबलागतखंखी ॥ सु
न्दरकोउनजानिसकैयहबोलतहैसुकहाँगयोपंखी ॥ ५ ॥

मातपिताएवतीसुतबांधवलागतहैसबकोअतिप्यारो
॥ लोककुटुंबखरोहितराखतहोयनहींहमतेकहुँन्यारो ॥
देहसनेहजहाँलगिजानहुबोलतहैमुखशब्दउचारो ॥
सुन्दरचेतनशक्तिगईतबबेगिकहैंधरवारनिकारो ॥ ६ ॥

पाँवदियेचलनेफिरनेकहँहाथदियेहरिकृत्यकरायो ॥
कानदियेसुनियेहरिकोयशनैनदियेतनुमार्गदिखायो ॥
नाकदईमुखशोभितताकरिजीभदईहरिकोगुणगायो
॥ सुन्दरसाजदियेपरमेश्वरपेटदियोबड़ोपापलगायो ७

होयनिचिंतकरैमतिचिंतहिचोंचदईवहिचिंतकरैगो ॥
पाँवपसारिपन्योकिनसोवतपेटदियोवहीपेटभरैगो ॥
जीवजितेजलकेथलकेपुनिपाहनमैंपहुँचायधरेगो ॥
भूंखहिभूंखपुकारतहैनरसुन्दरतूकहभूंखोमरैगो ॥ ८ ॥

॥ इति भजनरत्नमाला संपूर्णा ॥

